



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 10 जुलाई, 2021 ई० (आषाढ़ 19, 1943 शक संवत्) [संख्या 28

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	545—558	3075	भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	39	975
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	739—814	1500	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	47—56	975	भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
			भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		975
			भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	..	
			भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	619—637	975
			स्टोर्स—पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

21 जून, 2021 ई०

सं० 10/2021/975/छ:पु०से०-1-2021डी०पी०सी०(एएसपी)/2019—उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत पुलिस उपाधीक्षक (ज्येष्ठ वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 6,600 पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-11, रु० 67,700-2,08,700) के पद पर कार्यरत अधिकारियों की अपर पुलिस अधीक्षक, (वेतनमान 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 7,600 पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12, रु० 78,800-2,09,200) के पद पर प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय चयन समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 31 जनवरी 2020 में श्री राहुल मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध तत्समय विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण उनके सम्बन्ध में विभागीय चयन समिति की संस्तुति मुहरबन्द लिफाफे में रखी गयी।

2—श्री राहुल मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या 752/छ:पु०से०-1-2021-पीएफ-82/2019, दिनांक 31 मई, 2021 द्वारा दोषमुक्त करते हुये समाप्त किये जाने के फलस्वरूप कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 13/21/89-का-1997, दिनांक 28 मई, 1997 के नियम-7 में दी गयी व्यवस्था/प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय चयन समिति की मुहरबन्द लिफाफे में रखी गयी संस्तुति का अनावरण किया गया।

3—अनावरित मुहरबन्द लिफाफे में की गयी विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुक्रम में श्री राहुल मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक (ज्येष्ठता क्रमांक-273) को अपर पुलिस अधीक्षक (वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 7,600 पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12, रु० 78,800-2,09,200) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4—श्री राहुल मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक की अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप तैनाती का आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा।

आज्ञा से,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

अनुभाग-2

पदोन्नति

09 जुलाई, 2021 ई०

सं० 828/छ:पु०से०-2-21-522(101)/2020—श्री एन० कोलान्ची, आईपीएस-आरआर-2008 को भारतीय पुलिस सेवा का सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13, रु० 1,23,100-2,15,900), दिनांक 01 जनवरी, 2021 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कार्यालय-ज्ञाप

09 जुलाई, 2021 ई०

सं० 829/छ:पु०से०-2-21-522(13)/2019—राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा (उ०प्र० संवर्ग) में सेलेक्ट लिस्ट-2010 के आधार पर चयनित अधिकारियों की ज्येष्ठता मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में

योजित रिट याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अधीन गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अपने आदेश संख्या 15016/6/2019-आईपीएस-I, दिनांक 09 जुलाई, 2019 के माध्यम से चयनित अधिकारियों की ज्येष्ठता वर्ष 2005 के स्थान पर वर्ष 2003 एवं 2004 बैच निर्धारित की गयी।

2-गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उक्त आदेश दिनांक 09 जुलाई, 2019 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सेलेक्ट लिस्ट 2010 के आधार पर चयनित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा का सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13 रु0 1,23,100-2,15,900) अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र0	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य किये जाने की तिथि
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री-		
1	विनय कुमार यादव	2003	01-01-2016
2	हीरा लाल	2003	01-01-2016
3	राम किशोर (से0नि0)	2003	01-01-2016
4	श्रीकान्त सिंह (से0नि0)	2003	01-01-2016
5	अशोक कुमार-II (से0नि0)	2003	01-01-2016
6	कैलाश नाथ मिश्रा (से0नि0)	2003	01-01-2016
7	शिव शंकर सिंह	2003	01-01-2016
8	दिनेश पाल सिंह (Death 28-02-2020)	2003	01-01-2016
9	ओम प्रकाश श्रीवास्तव (से0नि0)	2003	01-01-2016
10	कृपा शंकर सिंह, (से0नि0)	2003	01-01-2016
11	डॉ0 राकेश सिंह	2003	01-01-2016
12	वीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव, (से0नि0)	2003	01-01-2016
13	उमेश कुमार सिंह, (से0नि0)	2003	01-01-2016
14	राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, (से0नि0)	2003	01-01-2016
15	राजेश कुमार पाण्डेय	2003	01-01-2016
16	आभा सिंह, (से0नि0)	2004	01-01-2017
17	राजू बाबू सिंह, (से0नि0)	2004	01-01-2017
18	विशम्भर दयाल शुक्ला, (से0नि0)	2004	01-01-2017
19	श्रीपर्णा गांगुली, (से0नि0)	2004	01-01-2017
20	बलिकरन सिंह यादव, (से0नि0)	2004	01-01-2017

सं0 830/छ:पु0से0-2-21-522(13)/2019—राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) में सेलेक्ट लिस्ट-2010 के आधार पर चयनित अधिकारियों की ज्येष्ठता मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अधीन गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अपने आदेश संख्या 15016/6/2019-आईपीएस-I, दिनांक 09 जुलाई, 2019 के माध्यम से चयनित अधिकारियों की ज्येष्ठता वर्ष 2005 के स्थान पर वर्ष 2003 एवं 2004 बैच निर्धारित की गयी।

2—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उक्त आदेश दिनांक 09 जुलाई, 2019 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सेलेक्ट लिस्ट 2010 के आधार पर चयनित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित तिथि से पुलिस उप महानिरीक्षक (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13ए रु0 1,31,100-2,16,600) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति की तिथि
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री—		
1	विनय कुमार यादव	2003	01-01-2017
2	हीरा लाल	2003	01-01-2017
3	राम किशोर (से0नि0)	2003	01-01-2017
4	अशोक कुमार-II (से0नि0)	2003	01-01-2017
5	कैलाश नाथ मिश्रा (से0नि0)	2003	01-01-2017
6	शिव शंकर सिंह	2003	01-01-2017
7	दिनेश पाल सिंह (Death 28-02-2020)	2003	01-01-2017
8	ओम प्रकाश श्रीवास्तव (से0नि0)	2003	01-01-2017
9	डॉ0 राकेश सिंह	2003	01-01-2017
10	वीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव, (से0नि0)	2003	01-01-2017
11	उमेश कुमार सिंह, (से0नि0)	2003	01-01-2017
12	राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, (से0नि0)	2003	01-01-2017
13	राजेश कुमार पाण्डेय	2003	01-01-2017
14	आभा सिंह, (से0नि0)	2004	01-01-2018
15	विशम्भर दयाल शुक्ला, (से0नि0)	2004	01-01-2018
16	श्रीपर्णा गांगुली, (से0नि0)	2004	01-01-2018
17	बलिकरन सिंह यादव, (से0नि0)	2004	01-01-2018

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

[पुलिस]

अनुभाग-9

शुद्धि-पत्र

22 जून, 2021 ई0

सं0 129/छ:-पु0-9-21-332जी/91 न्याय-2-गृह (पुलिस) अनुभाग-9 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 49 सन् 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (2) एवं (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल राजनेताओं, सरकारी राजपत्रित अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों आदि के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों का विचारण करने के लिये पांच जिलों अर्थात् बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ तथा वाराणसी में अपर जिला न्यायाधीशों/विशेष न्यायाधीशों के 22 नवसृजित न्यायालयों की क्षेत्रीय अधिकारिता का पुनर्निर्धारण की अधिसूचना संख्या यू0ओ0-64/छ:-पु0-9-20-332जी/91 न्याय -2, दिनांक 23 नवम्बर, 2020 के हिन्दी प्रति में तथा अंग्रेजी प्रति में अधिसूचना संख्या U.O. 64/VI-P-9-332G/9-Nyaa-2, dated November 23, 2020 निर्गत किया गया है।

2-उक्त अधिसूचना दिनांक 23 नवम्बर, 2020 की अंग्रेजी प्रति में अधिसूचना संख्या U.O. 64/VI-P-9-332G/9-Nyaa-2, dated November 23, 2020 के स्थान पर अधिसूचना संख्या U.O. 64/VI-P-9-332G/91-Nyaa-2, dated November 23, 2020 पढ़े जाने तक उक्त अधिसूचना संशोधित की जाती है। अधिसूचना संख्या यू0ओ0-64/छ:-पु0-9-20-332जी/91 न्याय-2, दिनांक 23 नवम्बर, 2020 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

आज्ञा से,
विश्वजीत सिंह,
अनु सचिव।

गोपन विभाग

अनुभाग-1

अवकाश

28 जून, 2021 ई0

सं0 588/21/पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र कुमार-2, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के निम्नांकित तालिका में इंगित अवधियों के अवकाश की माननीया राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 22-02-2021 से दिनांक 26-02-2021 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 08-03-2021 से दिनांक 10-03-2021 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
3	दिनांक 12-03-2021 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
4	दिनांक 15-03-2021 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
5	दिनांक 22-03-2021 से दिनांक 26-03-2021 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

सं0 644/21/पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री विकास कुँवर श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के निम्नांकित तालिका में इंगित अवधियों के अवकाश की माननीया राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 08-03-2021 से दिनांक 10-03-2021 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 12-03-2021 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

अधिसूचना

28 जून, 2021 ई0

सं0 655/21/पच्चीस-1-6/2/3/2013-सी0एक्स0(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री संजय यादव, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद जिन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, द्वारा दिनांक 13 जून, 2021 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव।

वित्त विभाग

[सेवायें]

अनुभाग-2

नियुक्ति

16 जून, 2021 ई0

सं0 36/2021/एस-2-आई-71196/दस-2021-128/2016टी0सी0-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन विशेष चयन), 2018 के चयन के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतन बैंड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 (लेविल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये प्रशिक्षण हेतु निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं—

क्र0सं0	नाम/पिता का नाम	पता
1	2	3
	सर्वश्री/सुश्री—	
1	शिवा त्रिपाठी पुत्री श्री धुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी	शारदा धाम, बेतियाहाता दक्षिणी, निकट शिवपुरी कालोनी, गोरखपुर, उ0प्र0-273016
2	अभिषेक चौधरी पुत्र श्री सालिकराम चौधरी	म0नं0 904, सेक्टर-8, विकास नगर, लखनऊ-226022

1	2	3
	सर्वश्री/सुश्री—	
3	श्वेता सिंह पुत्री श्री जंगबहादुर सिंह	ग्राम साहूपुर, पोस्ट-हलधरपुर, जनपद मऊ, उ0प्र0-221705
4	विनय तिवारी पुत्र श्री राम सजीवन तिवारी	ग्राम दौलतपुर, पोस्ट-उतरेदु, जनपद अम्बेडकरनगर, उ0प्र0-224234
5	प्रांजल नगायच पुत्र श्री एम0के0 नगायच	म0नं0-65, दीवानपुरा, पोस्ट-राठ, जनपद हमीरपुर, उ0प्र0-210431
6	प्रिया सिंह पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह	निवासिनी परमेश्वर सदन, लक्ष्मणपुरी कालोनी, दशहराबाग, बाराबंकी, उ0प्र0-225001
7	रमेश सिंह यादव पुत्र श्री राम फेर यादव	ग्राम दलापुर, पोस्ट-लखीपुर कप्सा, तहसील-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ उ0प्र0-230138
8	शिशिर जायसवाल पुत्र श्री मदन मोहन जायसवाल	निवासी 53/26, लाउदर रोड, जार्जटाउन, प्रयागराज, उ0प्र0-211002
9	राहुल सिंह पुत्र श्री राम कुमार	निवासी-एम 5/84, प्रगतिपुरम कालोनी, रायबरेली-229001
10	शबिस्तां इतरत पुत्री श्री इतरत हुसैन	निवासिनी 451 जखीरा, बरेली, उ0प्र0-243003
11	श्वेताभ सुमन पुत्र श्री सुनील कुमार सिंह	फ्लैट नं0 201 ब्लाक-8, सेक्टर-1, एनजीएचसी काम्प्लेक्स, खेलगांव, हटवाल, राँची, झारखण्ड-835217

1—उक्त अभ्यर्थी आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर निम्नलिखित सूचनायें/प्रमाण-पत्र 02 प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे—

- (क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।
- (ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।
- (ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।
- (घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।
- (ङ) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।
- (च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।
- (छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पास पोर्ट साइज में एक नवीनतम् फोटोग्राफ।
- (ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम् प्रमाण-पत्र।
- (झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।

2—निदेशक, कोषागार उक्त अभ्यर्थियों की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

3—उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/विभाग से प्राप्त कार्य एवं आचरण रिपोर्ट/स्वास्थ्य परीक्षण में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो इनकी नियुक्ति/अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

4—यदि उक्त निर्धारित अवधि में वह कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं और उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु समय बढ़ाये जाने का कोई प्रार्थना-पत्र उक्त अवधि के अन्दर शासन को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि वे कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा, किन्तु यदि उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु समय बढ़ाये जाने का कोई आवेदन-पत्र, समुचित कारणों का उल्लेख करते हुये समयान्तर्गत दिया जाता है, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में 01 माह तक और बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है, परन्तु यदि इसके बावजूद भी उनके द्वारा उक्त बढ़ायी गयी अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन स्वयमेव समाप्त हो जायेगा।

5—उक्त अभ्यर्थियों को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम 24(1) सपठित सरकारी सेवक परीवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम 4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परीवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

6—उक्त अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

7—पदभार ग्रहण करने के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारियों को निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ तत्काल आधारभूत कोर्स एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कराने हेतु अपने स्तर में सम्यक् आदेश/निर्देश जारी किये जायेंगे।

8—सम्बन्धित अधिकारी को प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भांति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह ज्ञात हो कि वे नियमित सम्बर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

9—प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृति पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्तें उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिये सम्बन्धित अधिकारी को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

10—प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थी के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नियमों के अनुसार किया जायेगा।

आज्ञा से,
संजय कुमार,
सचिव।

[लेखा परीक्षा]

अनुभाग-1

स्थानान्तरण/तैनाती

23 जून, 2021 ई0

सं0 आडिट-1-73288/दस-2021—श्री राज्यपाल द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये कालम-4 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से तैनात किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है—

क्र0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती
1	2	3	4
	सर्वश्री/सुश्री		
1	जगदीप वर्मा	सहकारी चीनी मिल, ननौता, सहारनपुर	बलरामपुर
2	अनिल कुमार वर्मा	सहकारी चीनी मिल, कायमगंज, फर्रुखाबाद	औरैया
3	बृज किशोर त्रिपाठी	सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर, रामपुर	वाराणसी
4	प्रभात कुमार श्रीवास्तव	सहकारी चीनी मिल, घोसी, मऊ	सुलतानपुर
5	अशोक कुमार मिश्रा	सहकारी चीनी मिल, स्नेह रोड, बिजनौर	महराजगंज
6	श्रीकान्त पाण्डेय	सहकारी चीनी मिल, गजरौला, अमरोहा	अमेठी
7	विश्वनाथ वर्मा	सहकारी चीनी मिल, पुवायां, शाहजहांपुर	चित्रकूट
8	रवि कुमार श्रीवास्तव	सहकारी चीनी मिल, बागपत	ललितपुर
9	भूपेन्द्र कुमार शर्मा	सहकारी चीनी मिल, मोरना, मुजफ्फरनगर	बलिया
10	सुरेन्द्र नाथ कुंवर	सहकारी चीनी मिल, सरसावां, सहारनपुर	देवरिया
11	रजत कुमार	सहकारी चीनी मिल, अनूप शहर, बुलन्दशहर	आगरा
12	मोहम्मद ताहिर अंसारी	सहकारी दुग्ध संघ, बरेली	सोनभद्र
13	राघवेन्द्र सिंह	सहकारी दुग्ध संघ, कानपुर	कानपुर देहात
14	निधि शर्मा	सहकारी दुग्ध संघ, मेरठ	शामली

2—सहकारी चीनी मिल/दुग्ध संघ में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के रिक्त पदों का कार्यभार सम्बन्धित जिले के जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा देखा जायेगा तथा उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिये अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

3—सम्बन्धित जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

सं0 आडिट-1-73253/दस-2021—रिट याचिका संख्या 4277(एस/एस) 2021 जगदीश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, वित्त विभाग व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11 फरवरी, 2021 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है—

“The liberty is given to the petitioner to prefer a fresh representation to the opposite party No. 2 i.e. Sachiv, Finance (Audit), Section-1, Government of U.P., Lucknow taking all pleas and

grounds which are available with him annexing therewith all the relevant documents in support of his case within a period of one week and if such representation is preferred by the petitioner within the aforesaid stipulated time, the opposite party No. 2 shall consider and decide the representation of the petitioner by passing a speaking and reasoned order, strictly, in accordance with law and as per the guidelines of the aforesaid transfer policy ignoring the order dated 21-01-2021 with expedition preferably within a period of three weeks from the date of presentation of a certified copy of this order along with representation and the decision thereof be communicated to the petitioner forthwith.

In view of the aforesaid terms, the writ petition is disposed of finally.”

2—मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में श्री जगदीश सिंह, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 18 फरवरी, 2021 पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत श्री जगदीश सिंह, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णनगर, लखीमपुर खीरी को स्थानान्तरित करते हुये जनपद अम्बेडकरनगर में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर तत्काल प्रभाव से तैनात किये जाने को आदेश प्रदान किया जाता है।

3—सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णनगर, लखीमपुर खीरी का अतिरिक्त कार्यभार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा देखा जायेगा तथा उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिये अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

4—श्री जगदीश सिंह, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

आज्ञा से,
समीर,
विशेष सचिव।

अनुभाग-2

नियुक्ति

28 जून, 2021 ई0

फाइल सं0 10-25001(001)/1/2021-4—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन बैकलॉग/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (पुनरीक्षित वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100 से 1,77,500 के वेतनमान में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के पद पर नियुक्त करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद में तैनात किया जाता है—

क्र0	नाम	पता	तैनाती जनपद
1	2	3	4
	सर्वश्री/सुश्री—		
1	महेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम तवंकल	किचकिला, जंगाही रोड, प्रयागराज—221503, उत्तर प्रदेश	गाजीपुर
2	सीमा चन्द्रवंशी पुत्री श्री दिनेश चन्द्रवंशी	निवासी सी-22/15 गली नं0-1 नियर एम0सी0डी0 प्राइमरी विद्यालय, गामड़ी विस्तार, 5वां पुस्ता, उत्तर पूर्वी दिल्ली- 110053	बागपत

2—उपरोक्तानुसार अभ्यर्थियों की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी—

(1) अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, 2015 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत परीक्षा पर रखा जाता है तथा परीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर उक्त नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों अनुसार बाद में किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी की सेवायें समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, 2015 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समस्त अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होगी जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

(3) यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

3—अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के प्राप्ति के एक माह के भीतर निम्नानुसार सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, मुख्यालय, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, प्रयागराज अथवा सम्बन्धित मण्डल के उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे—

- (क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।
- (ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।
- (ग) एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।
- (घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।
- (च) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों।
- (छ) संलग्न प्रपत्र में निजी विवरण।
- (ज) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पास पोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।
- (झ) राजपत्रित अधिकारी का चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।
- (ञ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।

उपरोक्त सभी प्रपत्र विभागीय वेबसाइट <http://Shasanadesh.up.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

4—यह भी सूचित किया जाता है कि यदि एक माह के भीतर वह कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, मुख्यालय, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, प्रयागराज अथवा सम्बन्धित मण्डल के उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार उनके नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

5—उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, 2015 में सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों के लिये विहित प्रशिक्षण की व्यवस्था के अनुसार प्रशिक्षण आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
संजय कुमार,
सचिव।

विधान परिषद् सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रोन्नति/नियुक्ति

01 जून, 2021 ई0

सं0 1033(अधिष्ठान)/वि0प0-47/20 अधि-उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या 693/अधि0 वि0प0-267/84, दिनांक 31 मार्च, 2021 के द्वारा रिक्त हुये शोध अधिकारी के राजपत्रित पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम 6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम 30 के अन्तर्गत डा0 अमित कुमार उपाध्याय, शोध सहायक को शोध अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

नियुक्ति

04 जून, 2021 ई0

सं0 1067(अधि0)/वि0प0-71/79-उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के माननीय नेता विरोधी दल के निजी स्टाफ में जनसम्पर्क अधिकारी के निःसंवर्गीय अस्थायी राजपत्रित पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500) में श्री विश्व राज सिंह को माननीय सभापति, विधान परिषद् के आदेशानुसार पूर्णतया अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया जाता है।

2-श्री सिंह की नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी जो बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त की जा सकती है।

3-श्री सिंह की सेवायें पूर्णतया माननीय नेता विरोधी दल के प्रसाद पर्यन्त होगी तथा वे उनके पद पर बने रहने तक ही सीमित होगी, तदोपरान्त स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

सेवानिवृत्ति

30 जून, 2020 ई0

सं0 941(अधिष्ठान) वि0प0-267/84 टी0सी0-उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या 1506/वि0प0-267/84, दिनांक 29 जुलाई, 2019 के क्रम में विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश के निम्न अधिकारी अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 30 जून, 2020 के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो गये-

1-श्री लाखन सिंह, उप सचिव।

2-श्री राजपाल यादव, निजी सचिव श्रेणी-1।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

11 जून, 2021 ई0

सं0 1445/96-आयुष-1-2021-66/2011-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 325 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 115/07/डीआर/एस-11/2012-13, दिनांक 17 जुलाई, 2019, पत्र संख्या 139/07/डीआर/ एस-11/2012-13, दिनांक 08 अगस्त, 2019, पत्र संख्या 148/07/डीआर/ एस-11/2012-13, दिनांक 20 अगस्त, 2019, पत्र संख्या 196/07/डीआर/ एस-11/2012-13, दिनांक 17 सितम्बर, 2019, पत्र संख्या 218/07/डीआर/ एस-11/2012-13, दिनांक 25 सितम्बर, 2019, पत्र संख्या 236/07/डीआर/ एस-11/2012-13, दिनांक 03 अक्टूबर, 2019, पत्र संख्या 258/07/डीआर/एस-11/2012-13, दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 एवं पत्र संख्या 322(1)/07/डीआर/एस-11/2012-13, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020, के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-323 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-51440667955) श्री पीयूष कुमार नायक पुत्र श्री हेम चन्द्र नायक, स्थाई निवासी ग्राम व पोस्ट-चवरियाँ बुजुर्ग, तहसील-बांसगांव, जिला-गोरखपुर, उ0प्र0-224203 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, चिलवरिया, जनपद-बहराइच में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बहराइच के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) उक्त चयन मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या 9512/2019, डा0 राजकुमार तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, सिविल मिस रिट याचिका संख्या 9552/2019, डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, सिविल मिस रिट याचिका संख्या 9556/2019 सुप्रिया वाधवा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 9583/2019 शैफाली भदौरिया बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 9596/2019, डा0 अतुल कुमार व तीन अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 5247/2020 पियूष कुमार नायक बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अनितम निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से,
सुखलाल भारती,
विशेष सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 10 जुलाई 2021 ई० (आषाढ़ 19, 1943 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ०प्र० के रिटर्निंग अधिकारी के आदेश

17 जून, 2021 ई०

विज्ञप्ति

सं० 210/ आयु०यू०ति०बोर्ड-सा० निर्वाचन/21-यू०पी० इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 (यू०पी० ऐक्ट संख्या 10, 1939) के अन्तर्गत बोर्ड आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी सिस्टम आफ मेडिसिन उत्तर प्रदेश के चुनाव नियमावली के नियम 4 के उपनियम (1) के अनुसार उ०प्र० में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध आयुर्वेदिक तथा यूनानी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों (मतदाताओं) की निम्नलिखित सूची आपत्तियों के प्राप्ति के निमित्त सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो यह दावा करे कि उसका नाम सूची में दर्ज होना चाहिए या सूची की किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में आपत्ति हो, वह दिनांक 28 जून, 2021 की सायं 4.00 बजे तक या उसके पूर्व रिटर्निंग अधिकारी के सामने उसके कैम्प कार्यालय में दावा या आपत्ति जैसी भी स्थिति हो, कर सकता है। दावा या आपत्ति के सम्बन्ध में सुसंगत साक्ष्य एवं अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उ०प्र० में विधि द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की सूची—

01—जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली

क्रम संख्या	नाम	पिता/पति का नाम	पंजीयन संख्या	पता
1	2	3	4	5
1	अनामिका कुमारी	श्री राम नारायण लाल	57959	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली

1	2	3	4	5
2	अनुराग श्रीवास्तव	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव	52489	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
3	आनन्द प्रकाश तिवारी	श्री गोर्वधन तिवारी	56964	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
4	आशीष गौतम	श्री जितेन्द्र बहादुर चौहान	60124	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
5	उमेश चौधरी	श्री श्याम नारायण चौधरी	53497	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
6	उमेश वर्मा	श्री लाल चन्द वर्मा	54672	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
7	ओमकार नाथ द्विवेदी	श्री बादूराम द्विवेदी	30788	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
8	कामिनी सिंह	श्री महेश सिंह	60234	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
9	गोपाल दास गुप्ता	स्व0 शिव प्रसाद केसरवानी	51445	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
10	डी0 आर0 सिंह	श्री योगी सिंह	33654	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
11	दिव्या सिंह	श्री शिवम	65208	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
12	धमेन्द्र कुमार सिंह	श्री नारायण सिंह	55207	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
13	प्रदीप जैन	श्री आई0जे0 जैन	42864	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
14	भावना गुप्ता	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	62285	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली

1	2	3	4	5
15	रश्मि वाष्णेय	श्री वेद प्रकाश वाष्णेय	52127	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
16	राजीव त्रिपाठी	श्री परशुराम त्रिपाठी	52345	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
17	रंजीत कुमार	श्री उमा दत्त शर्मा	53480	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
18	वर्षा रघुनाथ मोरे	श्री रघुनाथ शाह जी मोरे	65255	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
19	विनोद कुमार शर्मा	श्री केवल प्रसाद सिंह	45803	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
20	विनोद सक्सेना	श्री राजपति राम	62299	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
21	समीर सिंह राठौर	श्री इन्द्रजीत राठौर	37344	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
22	सरिता मिश्रा	श्री राम स्वरूप मिश्रा	53496	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
23	सुनील कुमार जायसवाल	श्री श्याम सुन्दर जायसवाल	51788	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
24	संगीता सिंह	श्री डी0आर0 सिंह	38397	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
25	संजय कुमार	श्री राम लाल	57976	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
26	संजय सिंह चौहान	श्री सेचन सिंह चौहान	56759	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली
27	हरिचन्द्र गिरि	श्री माहेश्वर गिरि	65490	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली

2-वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, खुर्जा जिला-बुलन्दशहर

28	अखिलेश कुमार सिंह	श्री बंशी सिंह	47794	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
29	अमित मिश्रा	श्री कृष्णा कुमार मिश्रा	45566	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
30	अशोक द्विवेदी	श्री बद्री नारायण द्विवेदी	47304	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
31	आशु	श्री राम बहादुर	54305	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 20313

1	2	3	4	5
32	ओम प्रकाश	श्री देवी प्रसाद तिवारी	41423	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
33	गिरीश नारायण राय	श्री के0आर0 शर्मा	45906	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
34	गौरी शंकर यादव	श्री हरिकेश यादव	58699	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
35	जागृति भारद्वाज	श्री देवेन्द्र कुमार स्वामी	61891	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
36	डिंपल	श्री निरंजन सिंह	50003	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
37	दिनेश कुमार	श्री कांची शर्मा	43744	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
38	दीवंशी अग्रवाल	श्री नरेद्र कुमार अग्रवाल	59809	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
39	देवकी नन्दन शर्मा	श्री राम चंद्र शर्मा	41424	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
40	बिपिन बिहारी केशरी	श्रीएस0 एल0 केशरी	50525	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
41	रामेश्वर पाण्डेय	श्री प्रधुम्न पाण्डेय	64654	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
42	रितु वशिष्ठ	श्री रामफल वशिष्ठ	60739	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
43	रेनु त्रिपाठी	श्री भास्कर नाथ त्रिपाठी	40285	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
44	वन्दना गुप्ता	श्री बिहारी लाल गुप्ता	50523	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131

1	2	3	4	5
45	शशी सिंह	श्री हरनाम सिंह	31282	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
46	सुधांशु दत्त शर्मा	श्री अरुण दत्त शर्मा	53129	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
47	सुवीर सिंह सिसौदिया	श्री वीरेन्द्र सिंह	57932	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
48	सूर्याशु दत्त शर्मा	श्री वरुण दत्त शर्मा	53119	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
49	संजीव श्याम नारायण तिवारी	श्री श्याम नारायण तिवारी	49271	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
50	संचय कुमार अग्रवाल	श्री आनन्द कुमार अग्रवाल	58724	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
51	संदीप अग्रवाल	श्री वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल	45451	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
52	हितश कुमार कौशिक	श्री बनवारी लाल कौशिक	49970	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131
53	श्रीराम चन्द्र मिश्रा	श्री पूर्णचन्द्र मिश्रा	65340	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कैम्पस, अपोजिट धरपा पावर हाउस, खुर्जा, बुलन्दशहर 203131

03-एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302

54	अजय चतुर्वेदी	स्व0 दयाशंकर चतुर्वेदी	42905	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
55	अजय कुमार	श्री बृजेश चन्द्र गुप्ता	57406	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
56	अमरेश्वर दास	श्री घनश्याम दास	59836	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
57	अमित	श्री कृपा शंकर लाल	47307	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
58	अमित कुमार	श्री इन्द्रजीत प्रसाद	60869	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)

1	2	3	4	5
59	अश्वनी कुमार श्री राम अनुराग मौर्या	56349	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)	
60	आदित्य कुमार श्री कपिलदेव सिंह	47341	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)	
61	आदिल रशीद श्री मो0 साबिर	59957	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)	
62	आफताब अहमद श्री हफीजुर्रहमान	58341	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)	
63	आलोक कुमार श्री शिवशंकर सिंह शास्त्री	59835	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)	
64	उषा रानी मिश्रा स्व0 लक्ष्मी नरायन मिश्रा	29220	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)	
65	कृष्ण कुमार श्री यदुनंदन तिवारी	46956	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)	
66	गिरीश चन्द्र पाल श्री अमृत लाल पाल	57408	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)	
67	चन्द्रेश कुमार श्री सदानंद पाण्डेय	40972	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)	
68	जफर इमाम श्री सनव्वर अली	59848	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)	
69	नादिया सिद्दिकी डा0 मो0 आजम कादरी	59376	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)	
70	प्रिया हरीभाऊ पत्नी श्री हेम सिंह पाटिल	52552	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)	
71	प्रेम सागर शुक्ला श्री पशुपति नाथ शुक्ला	41544	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)	
72	बृजेश कुमार वर्मा श्री मुसाफिर प्रसाद वर्मा	56692	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)	
73	महेन्द्र कुमार श्री फूलचन्द पटेल	45814	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)	
74	मोहसिन सिद्दिकी डा0 मो0 आजम कादरी	52664	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)	
75	राजेश कुमार श्री श्याम बिहारीलाल श्रीवास्तव	52458	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)	
76	राजेश यादव श्री राम विजय यादव	59491	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)	
77	राम नरायन श्री झगरू राम	56460	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)	

1	2	3	4	5
78	विक्रमादित्य मिश्रा	स्व0 श्री सच्चिदानंद मिश्रा	34875	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
79	विजय सेठ	श्री गोविन्द प्रसाद सेठ	45846	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
80	शहनवाज खान	श्री हमीदुल्लाह खान	53815	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
81	शशिकांत मिश्रा	श्री शिव प्रसाद मिश्रा	41060	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
82	शाजिया	श्री मोहउद्दीन सिद्दीकी	60941	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
83	शादाब सिद्दीकी	श्री मो0 आजम सिद्दीकी	55815	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
84	शेषधर पाण्डेय	श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय	56368	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
85	शैलेन्द्र कुमार सिंह	श्री रामशंकर सिंह	52218	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
86	शैलेन्द्र चौधरी	प्रताप श्री फेकन राम	60274	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
87	सचिन कुमार नन्दलाल	श्री नन्दलाल विश्वकर्मा	59607	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
88	सुभाष चन्द	स्व0 श्री विश्वनाथ चौबे	38888	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
89	सुरेन्द्र	श्री पन्नालाल	36035	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
90	सुरेन्द्र कुमार मिश्रा	श्री करे शंकर मिश्रा	43994	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
91	सुरेश कुमार यादव	श्री शारदा प्रसाद यादव	61666	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
92	हरीशंकर मिश्रा	स्व0 श्री दानकर मिश्रा	38254	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
93	हेमलता सिंह	श्री बचाऊ सिंह	56371	एस0जी0एम0पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
04-संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा-दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा				
94	अनील कुमार	श्री चवल सिंह	55508	यूनिवर्सिटी कैम्पस, संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा-दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन-281401
95	कल्पना राव	स्वर्गीय श्री हरिहर प्रसाद	63585	यूनिवर्सिटी कैम्पस, संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा-दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन-281401

1	2	3	4	5
96	नेहा शर्मा	लोकेश कुमार शर्मा	61020	यूनिवर्सिटी कैम्पस, संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा-दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन-281401
97	प्रतिमा रानी मिश्रा	श्री महन्त मिश्रा	32454	यूनिवर्सिटी कैम्पस, संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा-दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन-281401
98	प्रियंका वर्मा	गुरु प्रसाद वर्मा	61546	यूनिवर्सिटी कैम्पस, संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा-दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन-281401
99	प्रीति सिंह वर्मा	शिव आसरे वर्मा	55306	यूनिवर्सिटी कैम्पस, संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा-दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन-281401
100	मुकेश कुमार सक्सैना	श्री सतीश चन्द्र सक्सैना	44257	यूनिवर्सिटी कैम्पस, संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा-दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन-281401
101	राजेश कुमार वार्ष्णेय	श्री किशन मुरानी वार्ष्णेय	42557	यूनिवर्सिटी कैम्पस, संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा-दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन-281401
102	सुनील वर्मा	श्री रमेश चन्द्र वर्मा	32454	यूनिवर्सिटी कैम्पस, संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा-दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन-281401
103	सौरभ गुप्ता	जगत नारायण गुप्ता	32454	यूनिवर्सिटी कैम्पस, संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा-दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन-281401
104	हर्ष धिंगरा	श्री कमल किशोर	57987	यूनिवर्सिटी कैम्पस, संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा-दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन-281401

**05-प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट
एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस**

105	अजीतकृष्णन ई	ई राधाकृष्णन	21671	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस 204101
-----	--------------	--------------	-------	--

1	2	3	4	5
106	अनिल जैतवार	प्रसाद श्री ज्ञान जैतवार	प्रकाश 54872	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस 204101
107	अक्षय जीते	मुकुन्द श्री मुकुन्द जीते	केरोपन्त 63256	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस 204101
108	किरन खरबडे	राहुल श्री प्रकाश वाटकर	आर 47458	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस 204101
109	कुसुम	चांदरूप सिंह	25020	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस 204101
110	ज्योति कौशिक	हेमन्त	25750	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस 204101
111	निधि सचान	श्री राजेन्द्र प्रसाद	57485	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस 204101
112	प्रजाक्ता रसल	प्रवीन श्री अरविन्द एस वाग	31070	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस 204101
113	प्रवीन पंघमराव घोडमारे	श्री पंघमराव	27565	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस 204101
114	बृज किशोर	श्री देव नारायण प्रसाद	60309	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस 204101
115	भरत शर्मा	विष्णु कुमार शर्मा	58828	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस 204101
116	भानू टांक	महेश कुमार टेलर	26245	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस 204101
117	भूषण जंगली	मनोहर श्री मनोहर जंगली	मीठाराम 54078	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस 204101
118	योगेन्द्र चन्द कसत	मानक श्री मानक चन्द कसत	31114	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस 204101

1	2	3	4	5
119	रवि कुमार डी	श्री डी वेन्कटेश्वरा राव	21697	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस 204101
120	रीता धाकड़	बरेलाल धाकड़	54987	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस 204101
121	रोशनी कुदेशिया	श्री चन्द्र प्रकाश सक्सेना	59495	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस 204101
122	विवेक अवस्थी	श्री अवध किशोर अवस्थी	53215	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस 204101
123	स्वप्ना राजौरी	श्री राजेशाम	22054	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस 204101
124	सचिन गोविन्द राव डुमोरे	श्री गोविन्दराव डुमोरे	53714	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, निकट एम0जी0 पालिटेक्निक कालेज, आगरा रोड, हाथरस 204101

6. एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड, हरिपुर, गोण्डा

125	अजय कुमार गुप्ता	श्री परमसुख गुप्ता	60200	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
126	अपरा मिश्रा	श्री सुरेश चंद्र मिश्रा	61040	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
127	अभिषेक सिंह	श्री देवेंद्र प्रताप सिंह	57162	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
128	अमिता	संत सुरेमन चौधरी	56003	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
129	अविनाश चंद्र	श्री लालता प्रसाद श्रीवास्तव	39952	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
130	आशीष कुमार सिंह	श्री सभापति चौधरी	60070	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
131	अंजलि मिश्रा	अनिल कुमार मिश्रा	61616	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
132	अंजनी कुमार मिश्रा	श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा	59303	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
133	दीप चंद्र गोअन	श्री याम लाल गोअन	59468	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा

1	2	3	4	5
134	दीपिका सिंह	श्री लल्लन प्रसाद सिंह	59799	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
135	देवेन्द्र त्रिपाठी	मणि राम राज तिवारी	40693	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
136	धर्मेन्द्र सिंह	नारायण संत बहादुर सिंह	57274	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
137	नोगेन्द्र त्रिपाठी	मणि रामशिरो मणि द्विवेदी	47237	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
138	प्रभुनाथ दास	श्री बब्बन दास	58377	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
139	प्रवीन मिश्रा	कुमार श्री हरिकेश प्रसाद मिश्रा	57276	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
140	मनोज पाण्डेय	कुमार श्री जगदीश पाण्डेय	55465	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
141	महेश गुप्ता	कुमार मेवा लाल गुप्ता	60471	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
142	राधे श्याम तिवारी	देवता प्रसाद तिवारी	52803	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
143	राकेश गुप्ता	कुमार हरि शंकर गुप्ता	48514	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
144	शिखा मिश्रा	श्री राम प्रीत मिश्रा	54729	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
145	सिंपल चौहान	श्री धंशु सिंह चौहान	49726	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
146	सुमन श्रीवास्तव	राम देव अस्थाना	41552	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
147	सौरभ तिवारी	श्री भृगुदेव तिवारी	62048	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
148	सौरभ मेहरोत्रा	प्रवीन कुमार मेहरोत्रा	51461	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
149	हरि श्रीवास्तव	ओम श्री अवनीश कुमार श्रीवास्तव	59286	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा
150	त्रिविक्रम त्रिपाठी	मणि श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी	45737	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड हरिपुर गोण्डा

7-एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली

1	2	3	4	5
151	अजय कुमार	श्री भीष्म सिंह	43632	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली
152	अतुल कुमार	श्री जवाहर लाल वर्मा	43802	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली
153	अनिल कुमार	श्री सरजू प्रसाद	46020	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली
154	अरविन्द कुमार	श्री राम राज सिंह	49331	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली
155	अरुणेन्द्र कुमार सिंह	श्री ब्रह्मा सिंह	50427	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली
156	अविनाश वर्मा	डा0 रमेश चन्द्र वर्मा	48276	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली
157	उज्ज्मा फात्मी	डा0 इरफान हुसैन सिददीकी	53489	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली
158	जितेन्द्र कुमार	श्री लक्ष्मन प्रसाद	55705	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली
159	दिनेश कुमार	श्री बैजनाथ	49717	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली
160	दिनेश कुमार मौर्य	श्री राम दुलेर मौर्य	41964	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली
161	दीपशिखा जोशी	डा0 राघवेन्द्र शर्मा	46697	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली
162	देवकी नन्दन शर्मा	श्री सियाराम शर्मा	61303	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली
163	नितिन शर्मा	श्री सुनील कुमार शर्मा	59970	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली
164	पूर्णमा राव	डा0 जितेन्द्र कुमार	54737	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली
165	प्रीति शर्मा	डा0 आलोक शर्मा	44862	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली
166	प्रेमप्रकाश गंगवार	श्री झाझनलाल गंगवार	49899	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली
167	मनोज कुरील	स्व0 श्री सोने लाल	48207	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली
168	योगेश कुमार	श्री जयपाल सिंह	45711	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली

1	2	3	4	5
169	रमेश कुमार श्री नाथूराम गौतम	43052	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज / चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली	
170	राज कुमार गुप्ता श्री द्वरिका प्रसाद गुप्ता	43287	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज / चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली	
171	राजीत सिंह श्री सुरजीत सिंह	50326	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज / चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली	
172	रिंकी जाटव डा0 जबर सिंह	54099	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज / चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली	
173	शान्तुल कुमार श्री गौरी शंकर गुप्ता गुप्ता	47722	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज / चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली	
174	सीमा सचान डा0 संतोष कुमार	48202	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज / चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली	
175	सुनीति चौधरी डा0 के0पी0 सिंह	46416	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज / चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली	
176	सूर्य प्रकाश वर्मा श्री रामबहाल वर्मा	47715	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज / चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली	
177	संतोष कुमार श्री विजय पाल सिंह	48035	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज / चिकित्सालय, बाँसमण्डी, बरेली	
08—एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब,पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ				
178	अतुल कुमार उमाकान्त पाण्डेय गुप्ता	61926	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0-पखर पूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ	
179	अनिल कुमार रेवाती रमन शुक्ला शुक्ला	59083	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ	
180	अनुपमा गोतम श्री सतेंद्र सिंह	60854	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ	
181	अभय प्रताप शंकर सिंह तोमर भारतीया	50375	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ	
182	अभिषेक कुमार विश्वास चन्द्रा सिंह सिंह	55722	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ	
183	अभिषेक पाठक श्री महेंद्र पाठक	52853	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ	
184	अरविंद कुमार श्री भुपाल सिंह सिंह विसन	49533	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ	

1	2	3	4	5
185	अरुण गुप्ता	कुमार श्रीएम. एल. गुप्ता	40685	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
186	अरुण सिंह	कुमार श्री शिव राम सिंह	45305	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
187	अशोक श्रीवास्तव	कुमार विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव	40212	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
188	अंजना	श्री राम श्रृंगार सिंह	51389	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
189	अम्बिका डी पाण्डेय	प्रसाद देवी प्रसाद पाण्डेय	65602	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
190	इंद्रेश कुमार सिंह	श्री जगदम्बा सिंह प्रसाद	50340	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
191	कमल सचदेव	ओम प्रकाश सचदेव	37262	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
192	कुबेर गिरी	श्री जय प्रकाश गिरी	54591	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
193	कस्तूब त्रिपाठी	मणि लाल बहादुर त्रिपाठी	63260	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
194	गौरव कुमार शर्मा	मिथिलेश नाथ शर्मा	53036	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
195	चंद्र प्रताप सिंह	श्री ब्रिज भुसन सिंह	53109	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
196	जनार्दन पाण्डेय	प्रसाद श्री स्व0 भागवान पाण्डेय	40980	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
197	दिनेश उदैनिया	श्री ओ पी. उदैनिया	49673	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
198	धनंजय सिंह	श्री स्व0 डी. एन. सिंह	39791	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ

1	2	3	4	5
199	धर्मेन्द्र प्रताप सिंह	श्री इंद्रजीत सिंह	61271	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
200	नरेश चन्द्र गुप्ता	श्री श्रीराम गुप्ता	35160	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
201	पर्णिता दुबे	श्री जनार्दन फुलेरा	63447	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
202	प्रतिमा चक्रवर्ती	सुरेन्द्र प्रसाद	54544	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
203	बबिता वर्मा	श्री भगवति प्रसाद वर्मा	50015	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
204	बिनीता श्रीवास्तव	श्री विजय कुमार	50985	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
205	बिभा वर्मा	श्री श्रीश देव कुमार	57785	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
206	मनीष कटारे	श्री आर. के. कटारे	53315	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
207	मानू गुप्ता	राम प्रकाश पोरवाल	49355	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
208	मुरली अनुरागी	मनोहर चिन्ता मणि त्रिपाठी	63365	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
209	रजनीश कसौधन	श्री गंगा राम	57784	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
210	रवि कुमार शुक्ला	श्री अरविंद कुमार शुक्ला	59791	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
211	राम बाबू वर्मा	श्री राम स्वरूप वर्मा	52841	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ

1	2	3	4	5
212	राम मुनीश	श्री बंश लाल	49565	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
213	रेखा चतुर्वेदी	श्री गिरीश प्रसाद मिश्रा	48504	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
214	रूपल द्विवेदी	श्री हरिनारायण दुबे	56814	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
215	रंजना तिवारी	श्री इंद्र देव तिवारी	51405	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
216	वर्सा पाठक	श्री पुनम चंद्र जैन	52840	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
217	विश्राम प्रसाद अग्रहरी	श्री कलिका प्रसाद	46968	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
218	शशि पाण्डेय	चन्द्रा नारायण चतुर्वेदी	42800	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
219	शैलेश कुमार शर्मा	ब्रह्म स्वरूप शर्मा	36136	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
220	स्वप्निल खैतवास	प्रमोद कुमार खैतवास	57095	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
221	सत्य प्रकाश चौहान	बंजरंग बहादुर	51906	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
221	साक्षी सचान	रवीन्द्र सचान	60913	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
223	सीमा जैन	श्री गुलाब चंद्र जैन	59694	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
224	संजय कुमार	सुदामा प्रसाद गुप्ता	55240	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ
225	श्रीयश दुबे	श्री श्रीधर दुबे	59743	एन्क्राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रा0—पखरपूरब, पो0—मोहनलालगंज, लखनऊ

**09—ग्लोकल कालेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च
सेन्टर, यमुनोत्री मार्ग, मिर्जापुर पोल जिला—सहारनपुर**

1	2	3	4	5
226	चौदनी	राजेन्द्र सिंह चौहान	58316	ग्लोकल कालेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेन्टर, यमुनोत्री मार्ग, मिर्जापुर पोल जिला—सहारनपुर 247121
227	नितिन गोयल	सुनील कुमार	61874	ग्लोकल कालेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेन्टर, यमुनोत्री मार्ग, मिर्जापुर पोल जिला—सहारनपुर 247121
228	शशांक कुमार ने	श्री बहादुर सिंह	55627	ग्लोकल कालेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेन्टर, यमुनोत्री मार्ग, मिर्जापुर पोल जिला—सहारनपुर 247121

10—डॉ अनार सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, बेवर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद

229	अमरनाथ सिंह	श्री गुमान सिंह	65655	डॉ अनार सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ,बेवर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
230	अवधेश कुमार	राम केदार यादव	63274	डॉ अनार सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ,बेवर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
231	आराध्य देव मिश्रा	श्री संजीव मिश्रा	56563	डॉ अनार सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ,बेवर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
232	के. एम. शैलजा सिंह	तेज कुमार सिंह	56601	डॉ अनार सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ,बेवर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
233	नरेन्द्र कुमार बाजपेयी	श्री आर. एन. बाजपेयी	41570	डॉ अनार सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ,बेवर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
234	नेहा	रामधनी	59805	डॉ अनार सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ,बेवर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
235	नेहा अनिल गुप्ता	श्री अनिल गुप्ता	64645	डॉ अनार सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ,बेवर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
236	नेहा पाण्डेय	श्री सुशील कुमार पाण्डेय	63588	डॉ अनार सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ,बेवर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
237	पीयूष गुप्ता	श्री रमेश चन्द्र गुप्ता	60945	डॉ अनार सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ,बेवर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
238	रोहित कुमार सिंह	श्री कृष्ण कुमार सिंह	59855	डॉ अनार सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ,बेवर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद

11-बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झॉसी

1	2	3	4	5
239	अन्जू	श्री दयाराम	55263	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झॉसी
240	अरविन्द कुमार उपाध्याय	श्री जयनारायण उपाध्याय	46643	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झॉसी
241	आभा द्विवेदी	डा0 राजेश कुमार मिश्रा	43860	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झॉसी
242	आलोक सिंह सेगर	डा0 नरेन्द्र सिंह सेंगर	50242	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झॉसी
243	अंकुर दीक्षित	श्री विनोद कुमार	63553	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, झॉसी
244	उमेश चन्द शर्मा	श्री रामस्वरूप शर्मा	56872	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झॉसी
245	केदार नाथ	श्री कृष्णनन्द उपाध्याय	44691	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झॉसी
246	केदारनाथ यादव	श्री लालसा राम यादव	41385	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झॉसी
247	कृपा राम	श्री छोटेलाल	48279	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झॉसी
248	गोविन्द प्रसाद मंगल	श्री दामोदर प्रसादमंगल	64690	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झॉसी
249	चन्द्र भान सिंह	श्री भीकम सिंह	47978	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झॉसी
250	दिलीप कुमार	श्री चेत राम	45172	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झॉसी
251	दुर्गा प्रसाद दाश	श्री रबिन्द्रनाथ दाश	50957	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झॉसी
252	पवनकुमार विश्वकर्मा	श्री बागेश्वर विश्वकर्मा	49514	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झॉसी
253	पूनम अग्रवाल	राहुल जायसवाल	53692	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झॉसी
254	प्रदीप कुमार जैन	श्री कैलाश चन्द्र जैन	55657	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झॉसी
255	प्रदीप कुमार सचान	श्री जे0एन0 सचान	43223	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झॉसी
256	प्रीती सागर	डा0 मृदुल मिश्रा	49889	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झॉसी
257	बाल गोविन्द तिवारी	श्री शोभनाथ तिवारी	49318	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झॉसी
258	मदन मोहन झाँ	श्री शिवचरन झाँ	58205	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, झॉसी
259	मधु सिंह	डा0 दीपक कुमार गौतम	46323	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, झॉसी

1	2	3	4	5
260	महेन्द्र प्रसाद	श्री कैलास चन्द शर्मा	42734	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झाँसी
261	रवि प्रकाश	श्री दुर्गा शंकर	42961	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झाँसी
262	राजीव कुशवाहा	श्री हरदेव कुशवाहा	60790	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झाँसी
263	राम कृष्ण निरंजन	श्री हरगोविन्द निरंजन	47713	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झाँसी
264	रामकृष्ण राठौर	श्री बटेश्वर दयाल	46043	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झाँसी
265	विशाल कोदेशिया	श्री रविराज किशोर	46819	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झाँसी
266	शशि सिंह	डा० प्रवीण कुमार	48135	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झाँसी
267	साधना शाक्य	श्री गेंदा लाल	44992	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झाँसी
268	सुमन श्रीवास्तव	डा० विपुल सिंह	47595	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झाँसी
269	संजय कुमार सिंह	श्री वलदेव सिंह	44241	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय झाँसी

12. विवेक कालेज आफ आयुर्वेदिक साइंस एण्ड हास्पिटल, मुरादाबाद रोड, बिजनौर

270	अमोल विठल सोनुने	श्री विठ्ठल सोनुने	65614	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
271	अवधेश कुमार वरनवाल	श्री आ० एस० वरनवाल	51262	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
272	आरतीमल	श्री जे०एस० मल	65595	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
273	कुसुम सिंह	श्री डा० मनोज प्रताप सिंह	40016	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
274	कुं० आधार भटनागर	श्री अनिल कुमार भटनागर	58060	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
275	कोमल बिष्ट	श्री किशन सिंह बिष्ट	65707	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर

1	2	3	4	5
276	जसविन्दर कौर	डॉ0 कपिलदेव बंसल	65680	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
277	तनु चौहान	श्री सत्य व्रत सिंह	57338	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
278	धर्मेन्द्र कुमार	श्री राजेन्द्र सिंह	63225	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
279	नितिन कुमार कोठारी	श्री अमरीश कुमार कोठारी	58131	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
280	नृपेन्द्र कुमार आर्य	श्री रुद्रपाल सिंह	61193	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
281	पारूल चौहान	श्री एस0पी0 राजपूत	65579	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
282	प्रतीक कुमार अग्रवाल	श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	61058	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
283	प्रदीप जे0एम0	श्री मल्लिकार्जुनजे	65665	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
284	प्रज्ञा शर्मा	डॉ0 नृपेन्द्र कुमार आर्य	62543	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
285	प्रीति श्रीवास्तव	श्री प्रदीप श्रीवास्तव	62684	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
286	बलेश सिंह	श्री राम प्रसाद सिंह	59275	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
287	मनोज प्रताप सिंह	श्री हरि सिंह	40291	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
288	मोनिका सोनी	श्री सुरेन्द्र सिंह	61942	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर

1	2	3	4	5
289	रमेशपाल सिंह	श्री बाबूराम	41775	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
290	राजीव कुमार	श्री नरेश सिंह	60668	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
291	राजीव लोचन दास	श्री भगवानदास	65690	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
292	वी0 सेशु कुमार	श्री0 वी0 वेनु गोपाल राजू	65709	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
293	शंकरम्मा शिवना गौडा पाटिल	श्री शिवना गौडा पाटिल	65615	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
294	शुभा आर0 सोन्दूर	श्री रचप्पा एस	65695	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
295	सच्चिदानंद	श्री लल्लन प्रसाद यादव	60142	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
296	सुजीत कुमार	श्री राम गोपाल कुश्वाहा	62534	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
297	सुनीता	श्री हरवंश सिंह	65542	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
298	सुनील कुमार	श्री ओमपाल सिंह	55490	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
299	संदीप अग्रवाल	श्री आर0डी0 अग्रवाल	65596	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर
300	संतोष गुप्ता	श्री सनवरमल गुप्ता	48468	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट-अगरी, जनपद-बिजनौर

13. स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर

1	2	3	4	5
301	अजय चौधरी	श्री गंगाराम	44300	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
302	अतुल बाबू वाष्णेय	श्री भगवान दास वाष्णेय	43174	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
303	अनीता कनौजिया	श्री मुंशीराम कनौजिया	52455	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
304	अनूप कुमार	श्री छोटेलाल	48210	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
305	कृतपाल सिंह	श्री जगराम सिंह	47876	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
306	जितेन्द्र कुमार	श्री चन्द्रपाल सिंह	50383	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
307	तपन कुमार	श्री प्रेम सिंह	48231	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
308	देवेन्द्र जोशी	श्री जगदीश चन्द्र जोशी	64057	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
309	नम्रता कुलश्रेष्ठ	श्री गिरीश चन्द्र कुलश्रेष्ठ	65496	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
310	बसंत कुमार पराशर	श्री जगदीश प्रसाद पराशर	43652	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
311	बिपीन कुमार मिश्रा	श्री दूधनाथ मिश्रा	47658	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
312	मीनाक्षी शुक्ला	श्री विपिन कुमार मिश्रा	50172	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
313	रमाशंकर पाल	श्री हनुमान प्रसाद पाल	40696	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
314	रामशंकर गौतम	श्री धनश्याम	45454	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
315	रीता सिंह	श्री राजेन्द्र सिंह	43787	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
316	विपिन कुमार	स्व० श्री शंकर सिंह	47215	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
317	वंदना रानी	श्री राधेश्याम सिंह	61078	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर

1	2	3	4	5
318	शिवानी वर्मा	श्री सुरेन्द्र सिंह अघाना	45878	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
319	सबल प्रताप सिंह	श्री तरजन सिंह जादौन	54733	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
320	सीमा राणा	श्री रणबीर सिंह राणा	46827	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
321	सुदीप कुमार लाल	श्री संत लाल	48073	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
322	सुदीप सहाय बेदार	श्री आर एस बेदार	43362	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
323	सुभाष चन्द्र वर्मा	श्री रामरक्षपाल वर्मा	35561	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर
324	सुमन अग्रवाल	श्री हरिकृष्ण रावीश	59128	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर, मुजफ्फर नगर

14.सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज

एण्ड रिसर्च सेण्टर ,कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ

325	अजय कुमार उपाध्याय	श्री नागेन्द्र नाथ उपाध्याय	46483	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज, लखनऊ
326	अजय कुमार सिंह	श्री शिशुपाल सिंह	44656	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर ,कनकहा, मोहनलालगंज, लखनऊ
327	अर्चना वर्मा	श्री राज देव यादव	50060	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर ,कनकहा, मोहनलालगंज, लखनऊ
328	अनुराग दीक्षित	श्री आर0के0दीक्षित	47251	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर ,कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
329	अपराजिता सक्सेना	श्री मृदुल सक्सेना	62331	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर ,कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
330	अमित कुमार शुक्ला	श्री एच0एस0 शुक्ला	50070	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर ,कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
331	अरविन्द कुमार	श्री हरीश चन्द्र	60847	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर ,कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ

1	2	3	4	5
332	अरविन्द नाथ सिंह	श्री वी0पी0 सिंह	40362	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
333	अशोक विश्वकर्मा	कुमार श्री दसरथ लाल	60900	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर ,कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
334	अशोक भट्टाचार्य	रंजन श्री सी0के0 भट्टाचार्य	46408	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर ,कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
335	आशीष अग्रवाल	कुमार श्री हरी राम अग्रवाल	46699	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर ,कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
336	आस्था वर्मा	श्री अनिल कुमार वर्मा	63728	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर ,कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
337	अंकुर मणि त्रिपाठी	श्री दुर्गेश कुमार मणि	63178	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर ,कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
338	उदय कुमार गोयल	श्री शिव सहाय प्रसाद	54962	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर ,कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
339	ऋतुराज चौधरी	स्व0 श्री राम खेलावन	38429	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर ,कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
340	कमला यादव	श्री गंगा प्रसाद	38635	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर ,कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
341	कुँवर रत्नेश सिंह	श्री एल0बी0सिंह	50563	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर ,कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
342	गोविन्द राम पयासी	श्री जानकी प्रसाद पयासी	44656	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
343	जितेन्द्र कुमार गौर	श्री राम पाल सिंह गौर	40707	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर ,कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
344	तनुजा कुमारी	श्री गणेश प्रसाद	58918	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर ,कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ

1	2	3	4	5
345	धर्मेन्द्र शुक्ला	श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ला	55749	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज, लखनऊ
346	नम्रता मिश्रा	श्री राम चन्द्र मिश्र	61288	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज, लखनऊ
347	पल्लवी गुप्ता	श्री एम0एल0गुप्ता	64904	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज, लखनऊ
348	पूजा सिंह	श्री जे0पी0सिंह	59463	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज, लखनऊ
349	बिनोद कुमार पटेल	श्री कल्लूराम पटेल	56778	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
350	मनोज कुमार सिन्हा	श्री डी0एन0पी0 सिन्हा	50514	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
351	मंदाकनी प्रभा सिंह	श्री जयकरण सिंह	62700	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
352	रजत नारायण सिंह	श्री भूप नारायण सिंह	60298	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर ,कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
353	राजेश भट्ट	श्री के0एन0 भट्ट	44962	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
354	राकेश कुमार सिंह	श्री राम कुमार सिंह	45360	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
355	राकेश कुमार सिंह	श्री सूबेदार सिंह	47678	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
356	राजेश कुमार सिंह	श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह	51464	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
357	राधा कुमार	श्री मिजाजी लाल	60841	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ

1	2	3	4	5
358	विकास सिंह	श्री छत्रपाल सिंह	48756	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
359	विवेक कुमार गुप्ता	श्री लक्ष्मीकान्त	44656	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
360	शालिनी उपाध्याय	श्री अशोक उपाध्याय	62380	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
361	शिखा कटियार	श्री कैलाश चन्द्र कटियार	60877	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
362	शिवानी	श्री नवल किशोर	65504	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
363	शैलेन्द्र कुमार नैथानी	श्री विश्वनाथ नैथानी	42406	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
364	स्पृथी सी मिनाजिगी	श्री चन्द्रप्पा गोवडा	65742	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
365	स्वेता सहाय	श्री डी0एन0 सहाय	51140	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
366	सुशील कुमार गुप्ता	श्री लल्लू मल गुप्ता	40686	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ
367	हरकिरण मेहरा	श्री एच0एस0 मेहरा	65505	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, कनकहा, मोहनलालगंज लखनऊ

15. भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर

368	अभिषेक गोत्रा	श्री सत्य पाल सिंह	58344	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
369	उत्कर्ष नेहरा	श्री राम पाल सिंह	53024	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
370	कोमल प्रसाद सिंह	श्री शिव नारायण सिंह	65619	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर

1	2	3	4	5
371	चन्दन जैन	श्री विशाल चन्द जैन	61853	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
372	जावेद अख्तर	श्री सिराजुद्दीन	52717	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
373	नवीन कुमार	श्री बलबीर सिंह	47597	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
374	नेहा परमार	श्री राकेश सिंह	60225	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
375	प्रीति सिंह	श्री श्रीराम सिंह	60246	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
376	प्रशान्त चौहान	श्री ज्ञान प्रकाश चौहान	50529	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
377	मयूर नागर	श्री विनोद कुमार नागर	60189	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
378	महविश परवीन	श्री अमीर आजम	60974	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
379	राजीव कुमार पुण्डरी	श्री गिरवर सिंह ठाकुर	35791	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
380	रामाशंकर सिंह	श्री ललिता सिंह	65791	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
381	राहुल अग्रवाल	श्री हरिश्चन्द्र अग्रवाल	51584	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
382	विकास कुमार	श्री ओम प्रकाश	57532	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
383	विनीत राठी	श्री वीरेन्द्र सिंह राठी	58657	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर

1	2	3	4	5
384	श्वेता वर्मा	श्री आकाश वर्मा	63349	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
385	शिल्पा कान्त द्विवेदी	श्री यू0के0 द्विवेदी	51280	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
386	शालिनी	श्री देवेन्द्र सिंह	61079	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
387	सचिन गर्ग	श्री पवन कुमार गर्ग	49324	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
388	सुभाष चन्द्र	श्री महाबीर सिंह चौहान	40352	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
389	सुरेन्द्र कुमार शर्मा	श्री रामाकान्त शर्मा	42288	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
390	हेमन्ता राय	श्री उमेश चन्द राय	52029	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
391	हेमन्त कुमार शर्मा	श्री सुरेश कुमार शर्मा	52030	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
392	हेमा पीटर	श्री सर्वेश कुमार	63398	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर
393	श्रद्धा जैन	श्री जे0के0 जैन	49499	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, 10 किमी0 रुड़की रोड़, मुजफ्फर नगर

16—गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया

जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड़, बरेली, उ0प्र0

394	चित्त्यानन्द तिवारी	श्री बद्री प्रसाद तिवारी	61361	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड़, बरेली, उ0प्र0, 243123
395	ज्योतिमा पाण्डे	श्री अनिल पाण्डेय	62312	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड़, बरेली, उ0प्र0, 243123
396	दिनेश चन्द्र द्विवेदी	श्री बासुदेव द्विवेदी	36552	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड़, बरेली, उ0प्र0, 243123
397	दिव्या तिवारी	श्री एम0एम0 तिवारी	49081	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड़, बरेली, उ0प्र0, 243123

1	2	3	4	5
398	धीरज शर्मा	श्री किशोरी लाल शर्मा	49952	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड, बरेली, उ0प्र0, 243123
399	एन0सी0 त्रिपाठी	श्री प्रेम नाथ तिवारी	29279	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड, बरेली, उ0प्र0, 243123
400	नरेन्द्र कुमार गुप्ता	श्री बाबूलाल गुप्ता	49415	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड, बरेली, उ0प्र0, 243123
401	नीतू स्वरूप	श्री कश्मीरी लाल	51286	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड, बरेली, उ0प्र0, 243123
402	नेहा अग्रवाल	श्री आर0के0 अग्रवाल	53843	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड, बरेली, उ0प्र0, 243123
403	पल्लवी माहेश्वरी	श्री विनीत कुमार	53127	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड, बरेली, उ0प्र0, 243123
404	प्रतिमा शुक्ला	श्री ए0आर0 शुक्ला	38416	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड, बरेली, उ0प्र0, 243123
405	मन्दीप	श्री सतेन्द्र कुमार	55174	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड, बरेली, उ0प्र0, 243123
406	मनीष अग्रवाल	श्री जी0के0 अग्रवाल	49046	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड, बरेली, उ0प्र0, 243123
407	रम्मिका सिंह	स्व0 श्री काली प्रसाद सिंह	39180	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड, बरेली, उ0प्र0, 243123
408	आर0सी0 राय	श्री फूल चन्द्र राय	40753	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड, बरेली, उ0प्र0, 243123
409	राकेश कटियार	श्री आर0डी0 कटियार	40938	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड, बरेली, उ0प्र0, 243123
410	राहुल निगम	श्री रवीन्द्र कुमार निगम	58800	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड, बरेली, उ0प्र0, 243123
411	विभा द्विवेदी	स्व0 श्री मदन मोहन	47130	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड, बरेली, उ0प्र0, 243123
412	विशाल अग्रवाल	डा0 राम निवास अग्रवाल	50624	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड, बरेली, उ0प्र0, 243123

1	2	3	4	5
413	विशाल अग्रवाल	श्री शशि भूषण अग्रवाल	46489	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड, बरेली, उ0प्र0, 243123
414	शालिनी सिंह	श्री नन्हे सिंह	65188	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड, बरेली, उ0प्र0, 243123
415	स्वाती तिवारी	श्री भोला तिवारी	65190	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद, कमुआ, विलासपुर रोड, बरेली, उ0प्र0, 243123

17-जी0एस0 आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, पिलखुवा, हापुड़, उ0प्र0

416	अर्चना सिंह	श्री भगवान दास सिंह	54500	जी0एस0 आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, पिलखुवा, हापुड़, उ0प्र0
417	अंकुर सिंघल	श्री रविन्द्र सिंघल	53372	जी0एस0 आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, पिलखुवा, हापुड़, उ0प्र0
418	गरिमा चौधरी	सुरेन्द्र पाल सिंह	59572	जी0एस0 आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, पिलखुवा, हापुड़, उ0प्र0
419	गौरव शर्मा	श्री प्रदीप शर्मा	57251	जी0एस0 आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, पिलखुवा, हापुड़, उ0प्र0
420	छाया गुप्ता	श्री राम प्रकाश गुप्ता	55715	जी0एस0 आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, पिलखुवा, हापुड़, उ0प्र0
421	दिलीप कुमार वर्मा	श्री रामाधार वर्मा	53512	जी0एस0 आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, पिलखुवा, हापुड़, उ0प्र0
422	भावना सिंह	श्री ललित मोहन भारती	44786	जी0एस0 आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, पिलखुवा, हापुड़, उ0प्र0
423	वस्वी जाखड़	श्री मोहिन्द्र सिंह जाखड़	64761	जी0एस0 आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, पिलखुवा, हापुड़, उ0प्र0
424	शुभम गर्ग	श्री संजीव कुमार गर्ग	57762	जी0एस0 आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, पिलखुवा, हापुड़, उ0प्र0
425	स्वाती चौहान	श्री जयपाल सिंह	63520	जी0एस0 आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, पिलखुवा, हापुड़, उ0प्र0
426	सोम दत्त शर्मा	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	59057	जी0एस0 आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, पिलखुवा, हापुड़, उ0प्र0
427	संतोष भाटिया	श्री सोहन लाल भाटिया	36563	जी0एस0 आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, पिलखुवा, हापुड़, उ0प्र0

**18-अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल,
एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर,**

428	अमित कुमार	श्री तालुकेदार सिंह	51530	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
429	अरविन्द गौतम	श्री बाबूलाल गौतम	59531	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
430	अशोक कुमार सोनकर	श्री के0पी0 सोनकर	41489	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर

1	2	3	4	5
431	आभा सिंह	श्री विजय शंकर सिंह	59461	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
432	आरती चौरसिया	श्री रामसूरत चौरसिया	59530	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
433	आशीष कुमार यादव	श्री दीनानाथ यादव	58290	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
434	आशीष चन्द	श्री ओम प्रकाश	60446	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
435	अंकित जैन	श्री यतेन्द्र कुमार जैन	60858	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
436	अंजू सिंह	श्री संकटा प्रसाद श्रीवास्तव	44329	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
437	कुलकीर्ति सिंह	श्री हरिश्चन्द्र यादव	55842	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
438	प्रवीन कुमार राय	श्री मथुरा प्रसाद राय	51396	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
439	प्रीति मौर्या	श्री ज्ञानचन्द मौर्या	56748	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
440	मनोज कुमार सिंह	श्री विन्धाचंल प्रसाद	56488	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
441	मीनाक्षी चौबे	श्री कृष्णलाल गर्ग	51393	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
442	यशपाल सिंह	श्री मृत्युंजय सिंह	56748	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
443	यशवन्त चौहान	स्व0 श्री बलराम चौहान	42955	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
444	रजनीश पाठक	श्री जयप्रकाश पाठक	52281	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
445	रण विजय कुमार सिंह मौर्या	श्री राजनीति सिंह	59477	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर

1	2	3	4	5
446	राज कुमारी गुप्ता	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	49755	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
447	रीचा राय	श्री भानु प्रकाश राय	51392	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
448	रुबिका देवी	श्री लाल जी शर्मा	60244	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
449	रोमेश जायसवाल	श्री अवधेश कुमार जायसवाल	61001	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
450	विनीता सिंह	श्री शिवकरण सिंह	61367	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
451	विरेन्द्र कुमार	श्री देवी प्रसाद	42644	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
452	वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	श्री राजकुमार श्रीवास्तव	43790	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
453	स्तुति शर्मा	श्री बृजेन्द्र कुमार शर्मा	62284	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर
454	सुनिल कुमार सिंह	श्री राम भजन सिंह	61298	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल, एन एच 7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार, मिर्जापुर

19.डा0 कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, सरमऊ, झांसी, उ0प्र0

455	अर्चना सुलेरे	श्री रामेश्वर सुलेरे	64737	डा0 कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, सरमऊ, झांसी, उ0प्र0
456	अविनाश पास्तोरे	श्री महावीर प्रसाद पास्तोरे	49958	डा0 कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, सरमऊ, झांसी, उ0प्र0
457	अंकित गुप्ता	श्री सुरेश कुमार गुप्ता	61573	डा0 कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, सरमऊ, झांसी, उ0प्र0
458	चारु शीला शरण	श्री राम शरण सोनी	39677	डा0 कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, सरमऊ, झांसी, उ0प्र0
459	दिवाकर बिस्वास	श्री दुलाल कृष्ण बिस्वास	54351	डा0 कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, सरमऊ, झांसी, उ0प्र0
460	दीपिका दिवान	श्री करण दिवान	59665	डा0 कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, सरमऊ, झांसी, उ0प्र0
461	नेहा गर्ग	श्री अजय कुमार गर्ग	60138	डा0 कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, सरमऊ, झांसी, उ0प्र0
462	ममता वर्मा	श्री गयासी लाल	61009	डा0 कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, सरमऊ, झांसी, उ0प्र0

1	2	3	4	5
463	रुची	श्री विनय कुमार	61423	डा0 कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, सरमऊ, झांसी, उ0प्र0
464	शिव कुमार त्रिपाठी	श्री श्याम सुन्दर त्रिपाठी	30381	डा0 कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, सरमऊ, झांसी, उ0प्र0
20—मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़—फर्रुखाबाद (उ०प्र०)				
465	अर्चा मिश्रा	श्री एल0 एन0 पाण्डेय	50126	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़—फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
466	अतुल उपाध्याय	श्री राजेन्द्र नाथ उपाध्याय	57655	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़—फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
467	अविनेश कुमार गुप्ता	श्री राम भरोसे	50530	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़—फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
468	अंकुर सक्सेना	श्री दिनेशचन्द्र सक्सेना	49782	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़—फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
469	अंजना दीक्षित	श्री केशव दत्त दीक्षित	47922	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़—फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
470	इति श्री दास	श्री निरंजन दास	65489	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़—फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
471	उपासना सोनकर	श्री ओम प्रकाश सोनकर	61944	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़—फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
472	उर्मिला मौर्या	श्री राधेश्याम मौर्या	60904	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़—फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
473	ज्योति गुप्ता	श्री रमेश चन्द्र गुप्ता	44044	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़—फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
474	जौली सक्सेना	श्रीएस0बी0 माथुर	49382	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़—फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
475	दीपिका सिंह	श्री राजभुवन सिंह	58914	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़—फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
476	धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा	श्री श्रीराम मिश्रा	58829	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़—फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
477	नन्दन श्रीवास्तव	श्रीएच0पी0 श्रीवास्तव	51077	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़—फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601

1	2	3	4	5
478	निरंजन एस०	श्री सुभ्रमन्या रामकृष्णा	65367	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
479	नीतिका गौतम	श्री शिवचरन	61465	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
480	पवन कुमार	श्री रामपाल सिंह	63227	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
481	पुष्पेन्द्र कुमार	श्री शीषपाल सिंह	59013	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
482	पूजा गुप्ता	श्री बैकुण्ठ नाथ गुप्ता	56142	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
483	प्रीती अग्रवाल	श्री कंचन अग्रवाल	65364	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
484	पंकज कुमार शुक्ला	श्री के०के० शुक्ला	58233	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
485	फिनबे बेबी	श्री बेबी जॉन	65384	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
486	मनीष जैन	श्री भूपेन्द्र जैन	51820	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
487	मनोज चतुर्वेदी	श्री कैलाशचन्द्र चतुर्वेदी	40856	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
488	रमेश चन्द्र आर्या	श्री सिद्धीराम	36544	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
489	रवि शंकर मौर्या	श्री बाबूराम मौर्या	65366	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
490	राघवेन्द्र	श्री मंगला प्रसाद सिंह	63259	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
491	रीता सिंह	श्री चन्द्रभान सिंह	56558	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
492	विकास व्रत मिश्रा	श्री राजकिशोर	59438	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601

1	2	3	4	5
493	विजय मोहन गुप्ता	श्री रामेश्वर दयाल वैश्य	46690	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
494	विघ्नेश्वर मिश्रा	श्री वनमाली मिश्रा	65491	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
495	वीरेन्द्र सिंह यादव	श्री बादाम सिंह यादव	40795	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
496	श्वेता यादव	श्री राकेश कुमार यादव	58782	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
497	शिवओम दीक्षित	श्री विवेक कुमार दीक्षित	63270	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
498	शीलू गुप्ता	श्री काशी प्रसाद गुप्ता	45839	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
499	सरिता वर्मा	श्री गुलाबचन्द वर्मा	64588	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
500	सीमा सक्सेना	श्री जगीश चन्द्र सक्सेना	40303	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
501	सुनीता सिंह	श्री राज कुमार सिंह	51947	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
502	सुनील कुमार गुप्ता	श्री शिवनारायण गुप्ता	43561	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
503	सोनी वर्मा	श्री राम जीवन	53601	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
504	संकल्प सिंह	श्री देशराज सिंह	59016	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601
505	हरनारायन डे	श्री राधागोविन्द डे	45258	मेजर एस0डी0 सिंह पी0जी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बेबर रोड, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ०प्र०) 209601

21. श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास रोड, मेरठ

506	अनिल कुमार राय	स्व0 श्री नरेन्द्र राय	34846	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास रोड, मेरठ
507	अमित कुमार	श्री आदेश कुमार	51294	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास रोड, मेरठ

1	2	3	4	5
508	अमित गौड़	श्री गुरुदत्त शर्मा	54185	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रोड, मेरठ ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास
509	उषा सिंह	श्री भीम सिंह	24894	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रोड, मेरठ ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास
510	गरिमा कश्यप	श्री देवेन्द्र कश्यप	56288	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रोड, मेरठ ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास
511	गौरव त्रिपाठी	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी	57297	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रोड, मेरठ ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास
512	तरुन शर्मा	श्री प्रभाकर शर्मा	54209	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रोड, मेरठ ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास
513	नितिका शर्मा	श्री सुरेन्द्र शर्मा	26900	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रोड, मेरठ ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास
514	नीतू सिन्हा	श्री निर्भया कुमार सिन्हा	60943	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रोड, मेरठ ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास
515	नेहा बरनवाल	श्री रमेश चन्द्र बरनवाल	35859	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रोड, मेरठ ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास
516	प्रियंका	श्री राधेश्याम	61287	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रोड, मेरठ ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास
517	मोनिका कुमारी	श्री विदेशी राम	59737	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रोड, मेरठ ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास
518	मो0 गुलफाम	श्री मो0 इस्लामुद्दीन	62039	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रोड, मेरठ ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास
519	रविकान्त शर्मा	श्री श्रीनिवास शर्मा	59735	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रोड, मेरठ ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास
520	रविन्द्र कुमार निर्वाल	श्री ओमकार सिंह	43599	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रोड, मेरठ ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास
521	रामपाल सिंह	श्री खाजान सिंह	35859	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रोड, मेरठ ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास
522	रूबी दहिया	रामकुमार श्री राम कुमार	63906	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रोड, मेरठ ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास

1	2	3	4	5
523	रेनू चौधरी	श्री रणवीर चौधरी	51260	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास रोड, मेरठ
524	लक्ष्मी देवी	श्री श्याम किशोर गुप्ता	60891	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास रोड, मेरठ
525	विपिन जोशी	श्री बी0डी0 जोशी	49803	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास रोड, मेरठ
526	सोलानकर रणजीत मरुति	श्री लक्ष्मण मरुति	63551	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास रोड, मेरठ
527	हरिश्चन्द्र गुप्ता	श्री बैजनाथ प्रसाद गुप्ता	33214	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, ग्रा0—डुगरावली, परतापुर बाइ पास रोड, मेरठ

22—चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट— सैयद सरांवा, जनपद— कौशाम्बी

528	अजय कुमार श्रीवास्तव	श्री शिव कुमार लाल श्रीवास्तव	35219	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट— सैयद सरांवा, जनपद— कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
529	अजय कान्त द्विवेदी	विष्णु शंकर द्विवेदी	57971	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट— सैयद सरांवा, जनपद— कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
530	अर्चना बाजपेयी	श्री परमानन्द बाजपेयी	60198	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट— सैयद सरांवा, जनपद— कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
531	अमित सिंह	श्री रामसुमिरन सिंह	54707	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट— सैयद सरांवा, जनपद— कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
532	अमिता शर्मा	श्री राम बिहारी शर्मा	64083	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट— सैयद सरांवा, जनपद— कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
533	आकांक्षा सिंह	श्री श्रीराम सिंह	62580	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट— सैयद सरांवा, जनपद— कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
534	उपासना मिश्रा	श्री महेश मिश्रा	62663	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट— सैयद सरांवा, जनपद— कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
535	गिरजा शंकर शर्मा	श्री कौसल प्रसाद शर्मा	45121	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट— सैयद सरांवा, जनपद— कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
536	ज्योति पटेल	श्री सन्तोष कुमार पटेल	62359	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट— सैयद सरांवा, जनपद— कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
537	जिस्नू नन्दी	श्री किरन संकर नन्दी	12123	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट— सैयद सरांवा, जनपद— कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
538	दीपक सिंह	श्री गौरी शंकर कुशवाहा	64042	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट— सैयद सरांवा, जनपद— कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
539	दीपा सिंह	श्री बाल करन सिंह	65019	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट— सैयद सरांवा, जनपद— कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
540	धीरज विष्णू जोपे	श्री विष्णू निर्वुत्ती जोपे	64084	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट— सैयद सरांवा, जनपद— कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
541	नीरज खन्ना	श्री निरंजन लाल खन्ना	42763	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट— सैयद सरांवा, जनपद— कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
542	नीरज बाजपेयी	श्री ओम प्रकाश बाजपेयी	42642	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट— सैयद सरांवा, जनपद— कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
543	बालेंद्र सिंह	श्री रामानंद सिंह	56535	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट— सैयद सरांवा, जनपद— कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
544	पवन कुमार पाण्डेय	श्री उमाकान्त पाण्डेय	53473	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट— सैयद सरांवा, जनपद— कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213

1	2	3	4	5
545	प्रभाकर पाण्डेय	शंकर श्री दिवाकर प्रसाद पाण्डेय	43838	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
546	प्रभात तिवारी	कुमार श्री मान सरोवर तिवारी	65631	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
547	प्रहलाद चन्देल	सिंह श्री वृज जीवन सिंह चन्देल	30519	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
548	प्रियंका मौर्या	श्री राम विकृष मौर्य	65630	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
549	बीना त्रिपाठी	श्री राजेश त्रिपाठी	44281	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
550	भूपेन्द्र चौधरी	कुमार श्री वी.के.चौधरी	56965	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
551	मंयक केशरवनी	श्री राजेन्द्र प्रसाद	55709	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
552	राज सिंह	नारायण श्री रविनंदन सिंह	58692	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
553	राजीव सिंह	श्री सूर्यभान सिंह	51463	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
554	राजीव सिंह	कुमार श्री मान सिंह	57311	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
555	रावेन्द्र सिंह	श्री कल्लू सिंह	59618	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
556	विनोद कुमार	श्री जगन्नाथ प्रसाद	39524	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
557	शेखर बरनवाल	श्री पी,पी,बरनवाल	45239	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
558	शैलेन्द्र सेंगर	सिंह श्री राजेन्द्र सिंह सेंगर	50743	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
559	साल्का देबर्मा	श्री श्रीमान्त देबर्मा	65702	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
560	सुधीर सिंह	कुमार श्री के०डी० सिंह	47784	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
561	सुशील मिश्रा	कुमार श्री शिव अवतार मिश्रा	27861	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
562	सुधीर श्रीवास्तव	कुमार श्री रघुनन्दन प्रसाद श्रीवास्तव	43619	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
563	संतोष मौर्य	कुमार श्री करेदीन मौर्य	53538	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
564	त्रिवेणी शुक्ला	शंकर श्री जगदीश नारायण शुक्ला	42238	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213
565	ज्ञान बाबू केशरी	श्री ठाकुर प्रसाद गुप्ता	39445	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, पोस्ट-सैयद सरांवा, जनपद-कौशाम्बी (उ0प्र0) 212213

23-आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा

1	2	3	4	5
566	अनिल कुमार	श्री राम स्वरूप	65548	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा
567	ईश्वर चन्द राय	श्री छबीनाथ	53079	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा
568	कविता मॉमिला	री एम0 रमनाथ्याह	63533	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा
569	कौमिक वर्मा	श्री बाबूराम वर्मा	58410	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा
570	गीता निखरा	श्री मुकेश गुप्ता	64469	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा
571	गौरव गुप्ता	श्री सत्य प्रकाश गुप्ता	54877	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा
572	गुंजन गुप्ता	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	54879	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा
573	ज्योति धाकर	श्री पुष्पेन्द्र सिंह	63250	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा
574	प्रशान्त सिंह भदौरिया	श्री ब्रजेन्द्र पाल सिंह भदौरिया	65484	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा
575	पंकज यादव	श्री राम चन्द्र यादव	59484	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा
576	मंजू पटेरिया	श्री लखनलाल पटेरिया	44874	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा
577	रजनी सिंह	श्री दुलीप चन्द सिंह	63424	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा
578	आर0के0 गुप्ता	श्री खिलानन्द गुप्ता	39809	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा
579	आर0के0 शर्मा	श्री कल्याण प्रसाद शर्मा	43946	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा
580	रेनू मिश्रा	श्री रमाकान्त मिश्रा	55075	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा
581	विजय श्री भारती	श्री संतोष कुमार	61726	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा
582	विनय कुमार वर्मा	श्री श्रीकान्त वर्मा	59772	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा
583	शिखा नायक	श्री अवध शर्मा	55314	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा
584	सिद्धार्थ जैन	श्री अजय जैन	62696	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा
585	सुकन्या वर्मा	श्री भोपाल सिंह नोहर	48848	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा
586	हर्ष गुप्ता	श्री यशदेव गौतम	54306	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ,जलेसर रोड, आगरा

**24-अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0
हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूप शहर रोड, अलीगढ**

1	2	3	4	5
587	अमित शर्मा	श्री जगदीश शर्मा	25598	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
588	आशिया नन्दा	श्री अशोक कुमार	55158	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
589	आशिया शर्मा	श्री जय प्रकाश शर्मा	59826	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
590	आशुतोष कुमार	श्री शरद चन्द	52912	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
591	जगदीश सिंह	श्री भागवत सिंह	48402	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
592	निधी मिश्रा	श्री सदा शिव त्रिपाठी	56810	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
593	पूजा रानी	श्री राम कुमार सिंह	25420	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
594	प्रिया पाटिल	श्री हरि भानू पाटिल	52552	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
595	बी विनय कुमार शर्मा	श्री त्रिलोक चन्द शर्मा	30901	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
596	भावना शर्मा	श्री प्रेम दत्त शर्मा	61246	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
597	मथुरा प्रसाद त्रिपाठी	श्री छोटे लाल त्रिपाठी	42243	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
598	ललित कुमार	श्री खूबचन्द तिवारी	50768	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
599	सतेन्द्र कुमार	स्व0श्री पुत्तू गुप्ता	38473	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
600	सन्नी राय	श्री शैलेन्द्र राय	36368	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ

1	2	3	4	5
601	सप्ता कुमारी	श्री एस0के0 चतुर्वेदी	64890	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
602	सोनिया गुप्ता	श्री श्याम सुन्दर गुप्ता	61603	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
603	संजय कुमार सिंह	श्री भोला नाथ सिंह	44855	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
604	एच0एन0पाण्डेय	श्री वी0एन0 पाण्डेय	36154	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ

25. श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0

605	अनिल कुमार त्रिपाठी	श्री धर्मेश कुमार त्रिपाठी	52531	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
606	अनिल कुमार सिंह	श्री राम प्रसाद सिंह	44018	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
607	अमित कुमार वैभव	श्री उमापति मिश्रा	52529	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
608	अशोक कुमार अग्रहरि	श्री बसंत लाल अग्रहरि	51404	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
609	आयुष कुमार गर्ग	श्री मोतीलाल गर्ग	26528	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
610	उम्मेद सिंह	श्री गुमान सिंह	26506	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
611	गोपाल चौबे	श्री रामनाथ चौबे	60736	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
612	पुष्कर मिश्रा	श्री देवी प्रसाद मिश्रा	62296	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
613	प्रदीप कुमार	श्री प्रभुराम	62176	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
614	पंकज द्विवेदी	श्री इन्द्र देव दूबे	53398	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
615	मनोरमा मिश्रा	श्री महेश्वर पाण्डेय	51706	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
616	मो0 इजराइल	श्री मो0 हनीफ	54735	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
617	राजेश दत्त तिवारी	श्री सर्वजीत तिवारी	42790	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
618	रेनू सिंह	श्री रामजी सिंह	41017	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
619	रंजू चौरसिया	श्री राम मिलन चौरसिया	53491	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
620	विकास सिंह	श्री जगदीश प्रसाद सिंह	57977	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0

1	2	3	4	5
621	विनोद कुमार पटेल	श्री रमेश सिंह पटेल	62309	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
622	शवंक दुबे	श्री शिव प्रसाद दुबे	59958	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
623	सत्य प्रकाश गुप्ता	श्री मिश्री लाल गुप्ता	57609	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
624	सुदर्शन पाण्डेय	श्री रमेश पाण्डेय	56036	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
625	सुप्रिया शिवाजी गावलकर	श्री लक्ष्मण शिवाजी गावलकर	63595	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
626	सुशील तिवारी	श्री राममूर्ति तिवारी	51787	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
627	संध्या यादव	श्री विनोद कुमार यादव	57956	श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0
26-कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, गोरहा, कासगंज, उ0प्र0,				
628	अजय कुमार गोस्वामी	श्री रघुराज	58444	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, गोरहा कासगंज, उ0प्र0, 207123
629	अभय प्रकाश	श्री लालता प्रसाद	53872	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, गोरहा कासगंज, उ0प्र0, 207123
630	अभिनव चौहान	श्री अजयवीर सिंह	55426	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, गोरहा कासगंज, उ0प्र0, 207123
631	अभिषेक शाह	श्री दलीप शाह	59870	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, गोरहा कासगंज, उ0प्र0, 207123
632	अम्बुज शर्मा	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	60379	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, गोरहा कासगंज, उ0प्र0, 207123
633	देवेन्द्र सिंह	श्री अनार सिंह	64778	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, गोरहा कासगंज, उ0प्र0, 207123
634	प्रगति गुप्ता	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	59739	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, गोरहा कासगंज, उ0प्र0, 207123
635	प्रीती मधुसूदन तिवारी	श्री आनंद त्रिपाठी (पत्नी)	49121	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, गोरहा कासगंज, उ0प्र0, 207123
636	पंकज पाल	श्री अमृत लाल पाल	61940	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, गोरहा कासगंज, उ0प्र0, 207123
637	मनीष तारे	श्री विष्णु मरतारॉव तारे	65034	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, गोरहा कासगंज, उ0प्र0, 207123
638	राजीव कुमार	श्री रमेश दत्त शर्मा	43529	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, गोरहा कासगंज, उ0प्र0, 207123
639	राम अवतार	श्री राम सहाय	60852	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, गोरहा कासगंज, उ0प्र0, 207123
640	रूपेन्द्र शर्मा	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	60380	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, गोरहा कासगंज, उ0प्र0, 207123
641	शिवांशु अग्रवाल	श्री विपिन विहारी अग्रवाल	58843	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, गोरहा कासगंज, उ0प्र0, 207123
642	सुनीता सिंह	श्री देवेन्द्र सिंह	63727	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, गोरहा कासगंज, उ0प्र0, 207123

**27-श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा,
देहलीरोड, पो0आ0-पकबरा जिला-मुरादाबाद**

1	2	3	4	5
643	अनूप कुमार अग्रवाल	श्री वेद प्रकाश अग्रवाल	40759	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहली जिला-मुरादाबाद
644	अंकित सक्सेना	श्री महेन्द्र सक्सेना	63376	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहली जिला-मुरादाबाद
645	कपिल कुमार शर्मा	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	50001	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहली जिला-मुरादाबाद
646	खुशबू शर्मा	श्री शशि आनन्द शर्मा	58957	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहली जिला-मुरादाबाद
647	नरेन्द्र कुमार दलेला	श्री जंगबहादुर दलेला	31541	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहली जिला-मुरादाबाद
648	नितेश कुमार दास	श्री रविन्द्र नाथ दास	61130	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहली जिला-मुरादाबाद
649	प्रभाकर शुक्ला	श्री राज कुमार शुक्ला	61931	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहलीरोड, पो0आ0-पकबरा जिला-मुरादाबाद
650	प्रज्ञा दीक्षित	श्री चन्द्र प्रकाश दीक्षित	60874	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहलीरोड, पो0आ0-पकबरा जिला-मुरादाबाद
651	प्रीति शर्मा	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	57389	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहली जिला-मुरादाबाद
652	भावना वर्मा	श्री मुनीश कुमार	63567	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहली जिला-मुरादाबाद
653	मनीष गोस्वामी	श्री राकेश गोस्वामी	63078	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहली जिला-मुरादाबाद
654	मुकुल प्रताप सिंह	श्री ऋषिराम सिंह	62389	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहली जिला-मुरादाबाद
655	मोनिका	श्री युधिष्ठिर	61359	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहलीरोड, पो0आ0-पकबरा जिला-मुरादाबाद
656	रविन्द्र शर्मा	श्री राम सुख शर्मा	65499	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहली जिला-मुरादाबाद
657	रेखा शर्मा	श्री चन्द्र किशोर दबे	50002	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहली जिला-मुरादाबाद

1	2	3	4	5
658	रोमा आनन्द	श्री आनन्द कुमार	57934	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहली रोड, पो0आ0-पकबरा जिला-मुरादाबाद
659	वसुन्धरा चौधरी	श्री सुभाष सिंह	51230	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहली रोड, पो0आ0-पकबरा जिला-मुरादाबाद
660	विनय शर्मा	श्री मनीष चन्द्र शर्मा	54929	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहली रोड, पो0आ0-पकबरा जिला-मुरादाबाद
661	सचित्रा सिंह	श्री मुन्शी लाल	62129	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहली रोड, पो0आ0-पकबरा जिला-मुरादाबाद
662	सौरभ कुमार	श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता	60751	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहली रोड, पो0आ0-पकबरा जिला-मुरादाबाद
663	हिमांशु वर्मा	श्री पुरुषोत्तम लाल	62347	श्री सत्य आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हॉस्पिटल, धनुपुरा, देहली रोड, पो0आ0-पकबरा जिला-मुरादाबाद

28-एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड, हरहुआ, वाराणसी

664	अजित सिंह	श्री जगत नारायण सिंह	49458	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड ,हरहुआ वाराणसी
665	अनिल कुमार पाण्डेय	श्री राम कुमार पाण्डेय	51935	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड ,हरहुआ वाराणसी
666	अनुराधा सिंह	श्री हरी ओम सिंह	50030	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड ,हरहुआ वाराणसी
667	अभिजीत डग्यानू कुम्भकार	श्री डग्यानू गनपत कुम्भकार	56803	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड ,हरहुआ वाराणसी
668	आनन्द सिंह	श्री राज कुमार सिंह	63457	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड ,हरहुआ वाराणसी
669	आशा राम वर्मा	श्री देव राज वर्मा	46870	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड ,हरहुआ वाराणसी
670	गिरीश मिश्रा	श्री श्याम नारायण मिश्रा	53588	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड ,हरहुआ वाराणसी
671	चन्द्रेश पाण्डेय	श्री सदानन्द पाण्डेय	40962	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड ,हरहुआ वाराणसी
672	दयानेश्वर जर्नादन देशातवर	श्री जे0 पी0 देशातवर	52391	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड ,हरहुआ वाराणसी
673	दिग्विजय नाथ शर्मा	श्री राम नारायण शर्मा	31910	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड ,हरहुआ वाराणसी
674	देवेन्द्र कुमार सिंह	श्री उमेश प्रताप सिंह	46710	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड ,हरहुआ वाराणसी
675	एन0के0 सिंह	श्री राम राज सिंह	40898	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड ,हरहुआ वाराणसी
676	पवन कुमार शर्मा	श्री सुरेन्द्र नाथ विश्वकर्मा	36107	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड ,हरहुआ वाराणसी
677	प्रशान्त मिश्रा	श्री हरे राम मिश्रा	56315	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड ,हरहुआ वाराणसी
678	प्रियंका राय	श्री रमेश कुमार राय	46859	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड ,हरहुआ वाराणसी
679	पंकज कुमार पाल	श्री कृपा शंकर पाल	61717	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड ,हरहुआ वाराणसी

1	2	3	4	5
680	ब्रिजेश कुमार	श्री चन्द्र भान गुप्ता	55721	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड, हरहुआ वाराणसी
681	भूपेन्द्र सिंह	श्री प्रदीप कुमार सिंह	57978	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड, हरहुआ वाराणसी
682	मधुलिका प्रिया	श्री रामानुज पोद्दार	63752	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड, हरहुआ वाराणसी
683	मसूरुद्दीन	श्री रियाजुद्दीन	60147	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड, हरहुआ वाराणसी
684	महेश राय	श्री वीरेन्द्र राय	54761	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड, हरहुआ वाराणसी
685	मुकेश राय	श्री लाल बहादुर राय	45805	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड, हरहुआ वाराणसी
686	मोनिका अग्रवाल	श्री राम गोपाल अग्रवाल	51138	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड, हरहुआ वाराणसी
687	रवि शुक्ला	श्री नरेन्द्र देव शुक्ला	55718	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड, हरहुआ वाराणसी
688	राजेश सिंह	श्री विजय बहादुर सिंह	43822	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड, हरहुआ वाराणसी
689	राम चन्द्र पाण्डेय	श्री लाल भूषण पाण्डेय	32468	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड, हरहुआ वाराणसी
690	विनय तिवारी	श्री शीतल प्रसाद तिवारी	59904	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड, हरहुआ वाराणसी
691	विनोद कुमार सिंह	श्री राजपति सिंह	45802	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड, हरहुआ वाराणसी
692	विभा सिंह पटेल	श्री राजेन्द्र कुमार पटेल	57954	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड, हरहुआ वाराणसी
693	स्मृति सिंह	श्री पवन कुमार सिंह	61360	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड, हरहुआ वाराणसी
694	सुवर्णा मारुति काले	श्री अकरम मारुति काले	53382	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड, हरहुआ वाराणसी
695	सौम्या मेहता	श्री अवधेश मेहता	52805	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड, हरहुआ वाराणसी
696	हरि ओम सिंह	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह	46063	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रामेश्वर रोड, हरहुआ वाराणसी
29—दून आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, दिल्ली देहरादून रोड, सुन्दरपुर जिला—सहारनपुर				
697	उम्र खान	श्री मुस्सरत अली खान	62599	दून आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, दिल्ली देहरादून रोड, सुन्दरपुर जिला—सहारनपुर
698	अंकित कुमार	श्री निर्भय सिंह	61188	दून आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, दिल्ली देहरादून रोड, सुन्दरपुर जिला—सहारनपुर
699	जय कुमार सिंह	श्री प्रीतम सिंह	53454	दून आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, दिल्ली देहरादून रोड, सुन्दरपुर जिला—सहारनपुर
700	पूजा नन्दा	श्री स0के0नन्दा	54332	दून आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, दिल्ली देहरादून रोड, सुन्दरपुर जिला—सहारनपुर
701	प्रतिभा चंदानी	श्री अशोक राम चंदानी	60159	दून आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, दिल्ली देहरादून रोड, सुन्दरपुर जिला—सहारनपुर

1	2	3	4	5
702	प्रनव प्रकाश सिंह	श्री हरि प्रकाश सिंह	58295	दून आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, दिल्ली देहरादून रोड, सुन्दरपुर जिला-सहारनपुर
703	प्रवीन सिंह	श्री रणधीर सिंह	24273	दून आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, दिल्ली देहरादून रोड, सुन्दरपुर जिला-सहारनपुर
704	वर्षा सिंह	श्री अशोक कुमार सिंह	23018	दून आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, दिल्ली देहरादून रोड, सुन्दरपुर जिला-सहारनपुर
705	विक्रान्त कुमार	श्री धर्म सिंह	62736	दून आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, दिल्ली देहरादून रोड, सुन्दरपुर जिला-सहारनपुर
706	शिप्रा पाठक	श्री आशुतोष पाठक	53335	दून आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, दिल्ली देहरादून रोड, सुन्दरपुर जिला-सहारनपुर
707	सुदीप विश्वास	श्री विमल विश्वास	61039	दून आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, दिल्ली देहरादून रोड, सुन्दरपुर जिला-सहारनपुर
708	सौरभ वर्मा	श्री किशन पाल सिंह	56590	दून आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, दिल्ली देहरादून रोड, सुन्दरपुर जिला-सहारनपुर
30-प्रकाश इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च ,झाँझर, रबूपुरा रोड, जिला-बुलन्दशहर				
709	अनिल कुमार	श्री चवल सिंह	55508	प्रकाश इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च ,झाँझर, रबूपुरा रोड, जिला- बुलन्दशहर
710	अशोक कुमार शर्मा	श्री शिव कुमार शर्मा	35279	प्रकाश इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च ,झाँझर, रबूपुरा रोड, जिला- बुलन्दशहर
711	अंकित शर्मा	श्री जय कुमार शर्मा	58576	प्रकाश इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च ,झाँझर, रबूपुरा रोड, जिला- बुलन्दशहर
712	कविता शर्मा	श्री राजबीर शर्मा	64793	प्रकाश इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च ,झाँझर, रबूपुरा रोड, जिला- बुलन्दशहर
713	नितिन	श्री हकीकत राय	62294	प्रकाश इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च ,झाँझर, रबूपुरा रोड, जिला- बुलन्दशहर
714	मल्लिका शर्मा	श्री मुकुल श्रीवास्तव	53620	प्रकाश इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च ,झाँझर, रबूपुरा रोड, जिला- बुलन्दशहर
715	योगेश शर्मा	श्री जय प्रकाश शर्मा	59201	प्रकाश इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च ,झाँझर, रबूपुरा रोड, जिला- बुलन्दशहर
716	रमेश पाण्डेय	श्री राम चन्द पाण्डेय	49807	प्रकाश इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च ,झाँझर, रबूपुरा रोड, जिला- बुलन्दशहर
717	वर्णिका रानी	श्री कंवर पाल सिंह	63515	प्रकाश इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च ,झाँझर, रबूपुरा रोड, जिला- बुलन्दशहर
718	सुरेन्द्र कुमार	श्री धर्मवीर सिंह	61316	प्रकाश इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च ,झाँझर, रबूपुरा रोड, जिला- बुलन्दशहर
31-प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेडा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ				
719	अर्चित सिंह	श्री अजय पाल सिंह	60040	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेडा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ
720	अनामिका दुबे	श्री आलोक कुमार दुबे	60032	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेडा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ
721	अरुण वर्मा	श्री केशव राम सिंह	59246	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेडा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ
722	अलोक द्विवेदी	श्री रविकान्त द्विवेदी	62445	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेडा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ

1	2	3	4	5
723	आदित्य वर्मा	श्री ओ0पी0 वर्मा	48840	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेड़ा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ
724	कल्याणी पाण्डुरंग निशाने	श्री पाण्डुरंग श्रवण जी निशाने	65743	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेड़ा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ
725	निधि गुप्ता	श्री प्रदीप नारायण राठिया	65353	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेड़ा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ
726	प्रियंका कनौजिया	श्री अरविन्द कुमार कनौजिया	60845	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेड़ा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ
727	मधुलिका अस्थाना	श्री नरेन्द्र देव श्रीवास्तव	49897	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेड़ा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ
728	रिचा शर्मा	श्री योगेश शर्मा	53240	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेड़ा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ
729	राकेश कुमार	श्री अगम राम	40676	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेड़ा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ
730	राठौर अमर सिंह उदल सिंह	श्री उदल सिंह	65792	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेड़ा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ
731	रूपाली रंगराव महादिक	श्री रंगराव महादिक	65103	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेड़ा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ
732	रोमी गुप्ता	श्री ललित प्रसाद गुप्ता	62292	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेड़ा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ
733	विजय कुमार मिश्रा	श्री चन्द्रा मिश्रा	55828	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेड़ा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ
734	विरेन्द्र वर्मा	श्री राम कृष्ण वर्मा	40722	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेड़ा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ
735	विवेक कुमार अग्रहरि	श्री अक्षेवर नाथ अग्रहरि	59817	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेड़ा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ
736	श्वेता उपाध्याय	श्री गणेश शंकर उपाध्याय	62205	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेड़ा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ
737	शमिष्ठा वर्मा	श्री अश्वनी कुमार वर्मा	61221	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेड़ा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ
738	सुबोध अस्थाना	श्री जय शंकर अस्थाना	48791	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेड़ा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ
739	हिमांशु सिंह	श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	65663	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, बक्का खेड़ा, माल, मलीहाबाद, लखनऊ

32.जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0

740	अखिलेश जैन	श्री सतीश चन्द्र जैन	61939	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
741	आशीष मिश्रा	श्री केशव लाल मिश्रा	65583	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
742	ऋषिकान्त वशिष्ठ	श्री राम निवास वशिष्ठ	54175	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
743	केतन मंगवाल	श्री वचन मंगवाल	65522	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
744	खान शाजिया	श्री इस्लामुद्दीन खान इस्लामुद्दीन	60990	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0

1	2	3	4	5
745	खुशबू अग्रवाल	श्री पूरन चन्द अग्रवाल	62282	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
746	गौरव कुमार शर्मा	श्री हरी दत्त शर्मा	52068	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
747	दीपक सिंह	श्री राज बहादुर सिंह	54539	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
748	दीपिका गुप्ता	श्री श्याम सुन्दर गुप्ता	55070	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
749	नरेन्द्र कुमार सिंह	श्री अमर सिंह	57063	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
750	निधी बाजपेयी	श्री हरि मोहन बाजपेयी	62475	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
751	प्रज्ञा शर्मा	श्री सत्यदेव निगमलंकर	65523	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
752	पूनम वर्मा	श्री लालता प्रसाद	61819	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
753	यति तिवारी	श्री बृजेन्द्र कुमार तिवारी	51211	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
754	रबि नारायण महन्त	श्री कुहुरा चरण महन्त	65718	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
755	राम किशोर पाण्डेय	श्री राम सनेही पाण्डेय	35034	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
756	रेखा पलावत	श्री देवेन्द्र सिंह	55076	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
757	शोभा नायक	श्री धनेश्वर सेठी	65714	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
758	सतीश चन्द गुप्ता	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	65713	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
759	सरोज गौतम	श्री हीरालाल गौतम	55685	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
760	सीमा	श्री राम निवास	61551	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
761	सुभेन्दु बिकास साहू	श्री सुशील चन्द्र साहू	65715	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
762	सुरजीत कुमार	श्री राम दास	60388	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
763	सौरभ नायक	श्री छायाकान्त नायक	65719	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
764	संजय कुमार छीपा	श्री भगवान दास छीपा	65623	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
765	संजीव सिंह	श्री नवाब सिंह	65270	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0
766	संतोष कुमार शाव	श्री उदय भान शाव	65609	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़, उ0प्र0

**33—श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार,
निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ**

1	2	3	4	5
767	अखिलेश कुमार	श्री सतगुरुप्रसाद	57355	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
768	अमित चौधरी	श्री एस0डी0 अस्थाना	48090	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
769	अमित मिश्रा	श्री कैलाश नाथ मिश्रा	62924	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
770	अरविन्द कुमार	श्री कुंज बिहारी	57065	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
771	आनन्द सिंह	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह	62680	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
772	कमलेश कुमार पाठक	श्री लालमणि पाठक	45799	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
773	छाया टी मुण्डे	श्री त्रियम्बक राव	65764	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
774	धीरज एस पाइ	श्री सुन्दर रामापाइ जी आर	65508	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
775	परनिता अस्थाना	श्री इन्द्र प्रताप	53819	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
776	प्रदीप जायसवाल	श्री पन्नालाल जायसवाल	59944	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
777	प्रियंका गुप्ता	श्री अमृत लाल गुप्ता	65424	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
778	प्रियंका त्रिपाठी	श्री सुरेन्द्र पति त्रिपाठी	61278	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
779	प्रियांशु चौधरी	श्री प्रमोद कुमार मलिक	59329	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
780	प्रीती मिश्रा	श्री विजय प्रकाश मिश्रा	59552	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
781	प्रेम चन्द्र	श्री रामेश्वर दयाल	64974	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ

1	2	3	4	5
782	पंकज मिश्रा	कुमार श्री जानकी प्रसाद	48520	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
783	ममतेश त्रिपाठी	श्री सूर्य प्रकाश त्रिपाठी	54971	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
784	योगेश लोहडे	श्री रत्न पाल बाबूलाल लोहडे	65575	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
785	राजेश कुमार	श्री चुखुरी गुप्त	47438	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
786	रूपा डी पाइ	श्री दासा संभग	65765	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
787	विद्या योगेश मोरे	श्री रमेश	65576	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
788	शक्ति सिंह	श्री शेर बहादुर सिंह	56279	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
789	शिवानी चतुर्वेदी	श्री मदन मोहन चतुर्वेदी	62681	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
790	सुप्रिया शुक्ला	श्री रमेश चन्द शुक्ला	50507	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
791	सुभाष चन्द	श्री राम चन्द	60887	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ
792	संदीप मिश्रा	श्री सुरेश कुमार मिश्रा	56251	श्रीराम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, यमुना विहार, निकट, एल्लिको तिराहा, मल्हौर स्टेशन रोड, चिनहट, लखनऊ

**34—श्री बाबू सिंह ददू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल,
कृष्णा नगर (बघार), कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद**

793	अनिरुद्ध यादव	श्री राम कुमार यादव	54981	श्री बाबू सिंह ददू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कृष्णा नगर (बघार), कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
794	अम्बरीश कुमार बाथम	श्री जगदीश बाथम	50727	श्री बाबू सिंह ददू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कृष्णा नगर (बघार), कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
795	अमिता चौहान	श्री अनिल कुमार चौहान	58991	श्री बाबू सिंह ददू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कृष्णा नगर (बघार), कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
796	अशीष दूबे	श्री राम नरेश दूबे	56203	श्री बाबू सिंह ददू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कृष्णा नगर (बघार), कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद

1	2	3	4	5
797	कमलेश कुमार	श्री राम सागर	59330	श्री बाबू सिंह दददू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कृष्णा नगर (बघार), कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
798	कुन्दन मिश्रा	श्री रंग नाथ मिश्रा	59322	श्री बाबू सिंह दददू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कृष्णा नगर (बघार), कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
799	दिनेश कुमार झा	श्री मनोहर लाल	32014	श्री बाबू सिंह दददू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कृष्णा नगर (बघार), कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
800	नरेन्द्र सिंह सैंगर	श्री भीष्म सिंह	35075	श्री बाबू सिंह दददू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कृष्णा नगर (बघार), कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
801	प्रदीप कुमार मिश्रा	श्री लाल बहादुर शर्मा	37022	श्री बाबू सिंह दददू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कृष्णा नगर (बघार), कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
802	भावना जैन	श्री नरेन्द्र कुमार जैन	55810	श्री बाबू सिंह दददू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कृष्णा नगर (बघार), कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
803	महिमा मिश्रा	श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा	47932	श्री बाबू सिंह दददू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कृष्णा नगर (बघार), कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
804	मिथिलेश पाठक	श्री राम औतार पाठक	57358	श्री बाबू सिंह दददू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कृष्णा नगर (बघार), कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
805	रतन सिंह	श्री राम सिंह	57779	श्री बाबू सिंह दददू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कृष्णा नगर (बघार), कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
806	विजय कुमार	श्री राधा गोविन्द शर्मा	37758	श्री बाबू सिंह दददू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कृष्णा नगर (बघार), कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
807	शिप्रा कटियार	श्री चन्द्र मोहन	55629	श्री बाबू सिंह दददू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कृष्णा नगर (बघार), कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
808	सोनी गुप्ता	श्री राजेश गुप्ता	56793	श्री बाबू सिंह दददू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कृष्णा नगर (बघार), कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
809	सन्तोष कुमार मिश्रा	श्री जुगुल किशोर मिश्र	46949	श्री बाबू सिंह दददू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कृष्णा नगर (बघार), कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद

35—डब्लू0टी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल ग्राम—फतेहपुर माफी पोस्ट—पलौला जिला—अमरोहा

810	अरविंद कुमार पटेल	श्री राम शंकर पटेल	59818	डब्लू0टी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कालेज कैम्पस ग्राम—फतेहपुर माफी पोस्ट—पलौला जिला—अमरोहा 244222
811	परीक्षित कुमार	श्री धर्मपाल सिंह	62593	डब्लू0टी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कालेज कैम्पस ग्राम—फतेहपुर माफी पोस्ट—पलौला जिला—अमरोहा 244222

1	2	3	4	5
812	पल्लवी	श्री सुरेश सिंह	62046	डब्लू0टी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कालेज कैम्पस ग्राम —फतेहपुर माफी पोस्ट—पलौला जिला—अमरोहा 244222
813	फहीम अहमद	श्री अलाउद्दीन सिद्दीकी	58250	डब्लू0टी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कालेज कैम्पस ग्राम —फतेहपुर माफी पोस्ट—पलौला जिला—अमरोहा 244222
814	माधव शर्मा	श्रीराजेश्वर दत्त शर्मा	58569	डब्लू0टी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कालेज कैम्पस ग्राम —फतेहपुर माफी पोस्ट—पलौला जिला—अमरोहा 244222
815	मोनाली अनिल लोनकर	श्री अनिल बाबूराव लोनकर	65515	डब्लू0टी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कालेज कैम्पस ग्राम—फतेहपुर माफी पोस्ट—पलौला, जिला—अमरोहा 244222
816	मंशा देवी	श्री सुखपाल सिंह	63526	डब्लू0टी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कालेज कैम्पस ग्राम —फतेहपुर माफी पोस्ट—पलौला जिला—अमरोहा 244222
817	रिया सिन्हा	श्रीगौरंगा प्रसाद सिन्हा	60042	डब्लू0टी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कालेज कैम्पस ग्राम —फतेहपुर माफी पोस्ट—पलौला जिला—अमरोहा 244222
818	वैभव राणा	श्री राजपाल सिंह	59660	डब्लू0टी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कालेज कैम्पस ग्राम —फतेहपुर माफी पोस्ट—पलौला जिला—अमरोहा 244222
819	शोभित मिश्र	श्री अवधेश मिश्र	61381	डब्लू0टी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कालेज कैम्पस ग्राम —फतेहपुर माफी पोस्ट—पलौला जिला—अमरोहा 244222
820	सीमा अग्रवाल	श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल	47493	डब्लू0टी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कालेज कैम्पस ग्राम —फतेहपुर माफी पोस्ट—पलौला जिला—अमरोहा 244222

36—संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर

821	अजय कुमार सिंह	श्री प्रेम नारायण सिंह	60077	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
822	अमित कुमार सिंह	श्री ए0एन0सिंह	49598	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
823	अमित सिंह	श्री जय प्रकाश सिंह	60127	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
824	अशोक कुमार तिवारी	श्री मूल नारायण तिवारी	49256	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
825	कुलकर्णी अश्वनी गंगाधर	श्री गंगाधर कुलकर्णी	49021	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
826	दीक्षा केशरवानी	श्री ज्ञान चन्द वैश	58096	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
827	नरेन्द्र कुमार यादव	श्री रामधनी यादव	65648	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
828	पवन कुमार चौरसिया	श्री घनश्याम	52887	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
829	प्रतिवा कुमारी समल	श्री पी0बी0समल	65488	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर

1	2	3	4	5
830	प्रमोद कुमार जैसवाल	श्री ईश्वर चन्द जैसवाल	51266	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
831	प्रियंका सिंह	श्री अरुण कुमार सिंह	56903	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
832	बीती सिंह	श्री कृतराज सिंह	55305	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
833	योगेश पाण्डेय	श्री सत्य नारायण पाण्डेय	49856	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
834	रश्मि सिंह	श्री लक्ष्मण सिंह	64689	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
835	राजेश कुमार श्रीवास्तव	श्री धर्मनाथ श्रीवास्तव	47151	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
836	रिचा त्रिपाठी	श्री ओम प्रकाश नारायण त्रिपाठी	60455	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
837	रितेश कुमार पाण्डेय	श्री जगदीश पाण्डेय	56732	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
838	रोहित मौर्या	श्री विजय कुमार मौर्या	59915	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
839	वर्तिका श्रीवास्तव	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	59829	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
840	वन्दना शा	श्री चन्द्र कुमार शा	55473	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
841	विजय कान्त तिवारी	श्री भाबू प्रताप तिवारी	48435	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
842	एस0एन0तिवारी	श्री गिरजा शंकर तिवारी	38960	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
843	सत्य पाल सिंह	श्री बलराम सिंह	52565	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
844	सुनील कुमार गुप्ता	श्री श्याम लालगुप्ता	59460	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
845	सुभाष गुप्ता	श्री सत्येन्द्र नाथ गुप्ता	42765	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
846	सुभ्रमन्यणम भट्ट	श्री एस0महालिंगा भट्ट	65368	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
847	सौम्या त्रिपाठी	श्री कोटी पुजारी	59892	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
848	संजय कुमार सिंह	श्री अलगू सिंह	52726	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर
849	हरि आनन्द त्रिपाठी	श्री जय शंकर त्रिपाठी	60208	संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हिनौती , डगमगपुर, चुनार , मिर्जापुर

**उ0प्र0 में विधि द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध यूनानी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की सूची –
कालेज का नाम—1. राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज**

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	पिता/पति का नाम	पंजीयन संख्या	पता
1	2	3	4	5
1	अनवार अहमद	श्री अब्दुल वहीद	6983	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
2	अनीस अहमद	श्री जरीफ अहमद	6648	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
3	अनीसुरहमान	श्री नसीमुल हसन	6743	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
4	अब्दुल्लाह	श्री अल्ताफ हुसैन	14660	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
5	अब्दुल वहीद	श्री मो० सगीर	7731	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
6	अब्दुल वहीद अंसारी	श्री अब्दुल रज्जाक	12800	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
7	अब्दुल हकीम	श्री मो० सर्द	10011	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
8	अर्शी अंजुम	श्री याहिया बिनजिया	17158	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
9	इनायत उल्ला अंसारी	स्व० श्री मुबारक अली	6768	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
10	इरफान अहमद	श्री बद्रुद्दीन	13871	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
11	उसामा अहमद	श्री अफजाल अहमद	9826	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
12	कमरुल हसन लारी	श्री मोहम्मद तैय्यब लारी	9671	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
13	गुलनाज फातिमा	श्री शाहिद अख्तर खॉ	17936	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
14	जियाउर्रहमान	श्री मुश्ताक अहमद	17922	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
15	नजीब हन्जला अम्मार	श्री नजीब अमीर अम्मार	8064	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
16	निकहत सज्जाद	श्री इसरत अली	17233	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
17	नसरीन एखलाक	श्री एखलाक अहमद	17512	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
18	नुसरत परवीन	श्री खालिद अहमद खान	8040	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
19	फिरदौस अनीस	श्री अनीस अहमद	11574	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
20	बुशरा आफताब	श्री आफताब अहमद खान	9380	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज

1	2	3	4	5
21	बेलाल अहमद	श्री अजीजउल्लाह	12545	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
22	मशहुरदुरहमान	श्री अंसार अहमद	12310	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
23	मुबश्शीर अब्बास	श्री अशफाक हुसैन	17604	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
24	मो0 असलम	श्री असगर अली	13919	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
25	मोहम्मद आसिफ हुसैन उस्मानी	श्री मो0 गय्यूर हुसैन उस्मानी	8405	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
26	मो0 उस्मान	श्री मो0 मूसा	10410	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
27	मोहम्मद जिया बेग	स्व0 श्री मिर्जा मुहम्मद रियाज चुख्ताई	7466	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
28	मो0 तौसिफ	श्री याहिया	14632	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
29	मो0 परवेज	श्री अब्दुल मुग्नी खान	6734	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
30	मो0रिजवान खान	श्री मो0 शफीक खान	8752	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
31	मोहम्मद शाहिद	श्री मोहम्मद इस्लाम	7902	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
32	राफे एखलाक अंसारी	श्री एखलाक अहमद अंसारी	16720	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
33	शमीम इरशाद	श्री इरशाद अहमद	11026	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
34	शहनावाज	श्री अफताब आलम	14530	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
35	समीउल्लाह	श्री मुबारक अली	9951	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज
36	हफीजुरहमान	श्री बदरुज्जमा	6699	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज

2. देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, सहारनपुर

37	अख्तर अली	श्री मीर हसन	9239	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस, नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
38	अफजल अहमद	श्री बशीर अहमद	10307	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस, नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
39	अब्दुल्लाह	श्री मो0 फारुकी	6268	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस, नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
40	अब्दुल मोईद	श्री अब्दुल हाफिज खान	14847	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस, नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554

1	2	3	4	5
41	अब्दुल मलिक	अब्दुल समद	16507	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
42	अब्दुल हक	अब्दुस सलाम	08665	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
43	इम्तियाज अहमद	श्री सगीर अहमद	15775	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
44	इरफान अहमद	श्री हबीब अहमद	11534	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
45	इरशाद अहमद	श्री महमूदुल हसन	15777	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
46	इश्तियाक मोहम्मद	श्री इरफानुल हक	09585	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
47	कमरुज्जमा	श्री जरीफ अहमद	06798	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
48	काशिफ नाज	श्री मकसूद अहमद	10402	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
49	टी०एच० हाशमी	श्री जमीरुल हसनैन हाशमी	08278	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
50	ताजवर खानम	श्री शहीर हसन खान	09645	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
51	ताहिर हसन	श्री मो० हारुन	7196	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
52	नीरज कुमार	श्री भूपेंद्र सिंह	14605	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
53	नूर आलम	श्री मंजूर आलम	14020	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
54	नौशाद खान	अली दिलशाद अली खान	9255	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
55	फराज रिजवी	श्री आफताफ अहमद रिजवी	10102	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554

1	2	3	4	5
56	महमूद अहमद	गुलाम नबी	15027	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
57	मुजफ्फर हुसैन	श्री कौरी अब्दुल गफ्फूर	08565	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
58	मो0 अबिद	श्री मो0 अरिफ	10468	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
59	मो० अली	श्री नसीबुद्दीन	09028	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
60	मो० असलम	श्री अख्तर हुसैन	7271	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
61	मो0 खालिद	श्री मो0 यासीन	10645	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
62	मो0 गुल हसन	श्री अनवर हुसैन	10156	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
63	मो0 नासिर	श्री अब्दुल सत्तार	11971	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
64	मो० फैसल	श्री जाकिर हसन	16109	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
65	मो० याह्या	श्री मो० अब्बास	10397	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
66	मो० युसुफ	श्री मंगता हसन	19753	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
67	मो० वसीम खान	श्री मो० नसीम खान	12430	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
68	यास्मीन अंसारी	श्री छोटे खान	19748	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
69	राम प्रकाश चक्रवर्ती	श्री आर०सी० चक्रवर्ती	11920	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
70	रुक्मिण्या परवीन	श्री अब्दुल गफ्फार	19769	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554

1	2	3	4	5
71	विनय कुमार सिंह	श्री ओमपाल सिंह	15589	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
72	शगुफ्ता फातिमा	श्री सत्तार हुसैन	13391	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
73	शफीउर रेहमान	श्री मो० अहमद	1524	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
74	सईद जी सैयादैन	श्री एस०जी० हसनैन	7289	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
75	सबीहा जमाल	श्री अब्दुल कय्यूम	19751	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
76	सैफुल इस्लाम	श्री ताहिर हुसैन	15576	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554
77	हिलाल हमीद	श्री ऐनुद्दीन अंसारी	10440	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, देवबन्द, मो0-नयाबॉस ,नियर तल्लेडी चुंगी, देवबन्द सहारनपुर 247554

3. हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम -मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्मल-244301 (उ० प्र)

78	अदनान अतीक	श्री अतीक अहमद	16394	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्मल-244301 (उ० प्र)
79	अब्दुल सलाम	श्री मौहम्मद अनीस	10961	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्मल-244301 (उ० प्र)
80	असद अब्बास	श्री अख्तर अब्बास	9079	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्मल-244301 (उ० प्र)
81	अहसान इलाही	रुकनुद्दीन	09771	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्मल-244301 (उ० प्र)
82	इजहार अहमद	इकरार अहमद	17365	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्मल-244301 (उ० प्र)
83	इरशाद अहमद	नजर अहमद खान	09246	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्मल-244301 (उ० प्र)
84	उबेदुल हई	श्री अब्दुल हई	16898	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्मल-244301 (उ० प्र)
85	एहतिशाम	मौ० नवाब	14017	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्मल-244301 (उ० प्र)
86	खालिद अफज़ाल	श्री अफज़ाल अहमद	08717	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्मल-244301 (उ० प्र)
87	जमषेद आलम	श्री गुलाम मुस्तफा	19764	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्मल-244301 (उ० प्र)
88	जुनैद अहमद	श्री मौहम्मद इदरीस	13697	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्मल-244301 (उ० प्र)
89	जुबैर अहमद	श्री अख्लाख अहमद	07353	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्मल-244301 (उ० प्र)

1	2	3	4	5
90	नसरीन ऐनुद्दीन	ऐनुद्दीन	17848	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्भल-244301 (उ0 प्र)
91	मोईनुद्दीन	निजामुद्दीन	12897	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्भल-244301 (उ0 प्र)
92	मोईन उद्दीन	फरीदुद्दीन	17358	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्भल-244301 (उ0 प्र)
93	मुश्ताक अहमद	श्री हबीब अहमद	11229	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्भल-244301 (उ0 प्र)
94	मुसव्विर हुसैन	श्री मुजम्मिल हुसैन	10003	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्भल-244301 (उ0 प्र)
95	मूसब अहमद	शमीम अहमद	17359	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्भल-244301 (उ0 प्र)
96	मौहम्मद आरिफ	श्री मौहम्मद आबिद	11314	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्भल-244301 (उ0 प्र)
97	मौहम्मद आसिम खान	श्री षमषाद अली	13776	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्भल-244301 (उ0 प्र)
98	मौहम्मद कमर अली	श्री निजाम अली	11436	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्भल-244301 (उ0 प्र)
99	मौहम्मद खालिद	श्री सिराज उल्लाह	09130	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्भल-244301 (उ0 प्र)
100	मौ0 फहद अकरम	मौ0 अकरम	17204	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्भल-244301 (उ0 प्र)
101	रुश्द अहमद सादिक	हकीम ज़फ़र अहमद सादिक	15923	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्भल-244301 (उ0 प्र)
102	वकार अहमद	मौहम्मद अहमद	11000	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्भल-244301 (उ0 प्र)
103	शादाब अख्तर	श्री मुस्ताज़ अहमद	12973	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्भल-244301 (उ0 प्र)
104	शारिक अली खान	स्व0 श्री वारिस अली खान	6604	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्भल-244301 (उ0 प्र)
105	सऊद हसन	श्री मकबूल हसन	11958	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्भल-244301 (उ0 प्र)
106	सलमा मिर्जा	श्री अषुपता चंगेजी	11994	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्भल-244301 (उ0 प्र)
107	साजिद हबीब	श्री हबीब उर रहमान	17356	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, ग्राम मखदूमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्भल-244301 (उ0 प्र)
4. संस्कृति यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा-दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0				
108	अमरीन जैहरा	मजलूम हुसैन	18427	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा-दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन-281401
109	आयशा अन्सारी	अमन उल्लाह अंसारी	19706	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा-दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन-281401
110	इरफान	चौधरी यासमीन	15535	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा-दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन-281401
111	इरम नसीर	मोहम्मद नसीर	18453	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा-दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन-281401

1	2	3	4	5
112	इमराना हफीज	मोहम्मद अबुल हफीज	08041	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
113	इप्फत नाज	मोहम्मद यासीन	16671	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
114	एजाज अहमद	चौधरी यासमीन	15513	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
115	कुदसिया जैहरा	आरिफ	14245	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
116	केहकशा	मुबीन अहमद	18424	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
117	निघात परवीन	श्री जलालुद्दीन खान	16719	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
118	फराह नफीस	श्री नफीस अहमद	16680	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
119	फारुकुए सलीम शैख	श्री सलीम शैख	152070	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
120	मतीउर रहमान	अब्दुल माजिद	18441	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
121	मन्जर हसन	श्री अहमद हसन	7600	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
122	मरयम जफर	नकी उज जफर	18425	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
123	मोहम्मद अनीस	श्री अब्दुल हमीद	7251	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
124	मोहम्मद आरिफ अंसारी	श्री नूर मोहम्मद अन्सारी	12398	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
125	मोहम्मद जावेद	श्री मोहम्मद अख्लक	14961	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
126	मोहम्मद नदिम सिद्दिकी	श्री अब्दुल रशीद सिद्दिकी	9987	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
127	यासरा फारुकी	हाजी मुख्तार	17841	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
128	रेहाना खातून	श्री इब्ने हसन	15767	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
129	वकार अहमद	श्री इकतिदार अहमद	6443	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
130	शमीम अख्तर	मोहम्मद अब्बू बाकर	12659	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
131	शाह फेसल	श्री मुख्त्यार अहमद	18065	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
132	साईमा सलीम	सलीम खान मेव	17839	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
133	सबीहा मंजूर	अब्दुल मोबीन	16670	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401
134	सवबद अहमद	मतीउर रहमान	71357	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा—दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन—281401

1	2	3	4	5
135	हिना मुख्तार	हाजी मुख्तार	17838	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा-दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन-281401
136	हूर अंसारी	शकील अहमद	10646	संस्कृति यूनिवर्सिटी, 28 कि.मी. स्टोन, मथुरा-दिल्ली मार्ग, छाता, मथुरा, उ0प्र0, पिन-281401
5. जामिया तिब्बिया देवबन्द, जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर				
137	अख्तर सईद	श्री शमीम अहमद सईदी	09264	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
138	अनवर सईद	श्री शमीम अहमद सईदी	09256	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
139	अब्दुस्सत्तार	श्री अब्दुर्रज्जाके	16521	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
140	आमना खान	ताहिर खान	17699	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
141	एजाज	श्री मो० इकबाल	15417	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
142	नफीस अहमद	श्री नजीर अहमद	11695	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
143	नावेद अख्तर	श्री शमीम अख्तर	15790	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
144	नासिर अली खान	श्री शमशाद अली खान	18644	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
145	फकरुल इस्लाम	श्री अब्दुल समद	7616	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
146	फतेह अली टीपो	श्री फिरोज अनवर	16721	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
147	बेनाजिर खानम	श्री नाजिम खान	16664	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
148	मसरत जहाँ	श्री मो० शमी खान	10568	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
149	महफूज अहमद	श्री मो० ताकि	19306	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
150	मुजम्मिल	श्री हाजी वाजिद हसन	13411	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
151	मुजीबुल हसन	श्री वाजिद हसन	9308	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
152	मो० आजम उस्मानी	श्री इखलास उस्मानी	9259	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
153	मो०आसिफ	श्री शरीफ अहमद	15492	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
154	मो० आसिफ खान	श्री अफरोज खान	17861	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
155	मो० इकराम	श्री मो० फारुक	17199	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
156	मो० जफर	श्री अब्दुल्लाह	15071	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
157	मो० नईम सलमानी	श्री मो० यासीन	9365	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
158	मो० नदीम	श्री मो० जमील	14675	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
159	मो०फसीह	श्री मो० कवी	6162	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
160	मो० फुरकान	श्री मो० कामिल	11440	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
161	मो० शीराज बदर	श्री मो० बदरुल इस्लाम	09262	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
162	मो० यूनुस	श्री दीन मोहम्मद	6705	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
163	रिजवान अहमद	श्री मो० मंजूर अहमद	15407	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
164	रिफत अली मीर	श्री अली मो० मीर	11415	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
165	रेहाना अल्वी	श्री जलीस अहमद	09312	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
166	रुश्दा सईदी	श्री फरीद ए सईदी	17842	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
167	शकील अहमद	श्री रईस अहमद	08605	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर

1	2	3	4	5
168	शाइस्ता परवीन	श्री शमीम अहमद	09260	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
		सईदी		
169	सईद नय्यर अली	श्री सईद महमूद अली	10375	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
170	सदाफ रिजवी	श्री तय्यब रिजवी	12396	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
171	सलीम उर रहमान	श्री कुंवर मो० इकबाल	12306	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
172	सुहैल उस्मानी	श्रीएच०एम० इशके	11413	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर
173	हसिबुर्रहमान	श्री अताउर्रहमान	09586	जामिया तिब्बिया देवबन्द जी0टी0रोड देवबन्द, सहारनपुर

06. डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ

174	अफजल अहमद	श्री मो० नसीम खान	99161	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
175	अब्दुल हलीम	श्री लते अल्ताफ हुसैन	5650	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
176	अब्दुल हलीम	श्री वलीउल्लाह खान	14725	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
177	अबुसद	श्री मो० मुनीर	6522	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
178	इरसाद अहमद फारुकी	श्री मुमताज अहमद आजमी	8096	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
179	इहातीशमउददीन	जलील अहमद	14032	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
180	कौसर सईद	श्री सईदुद्दीन	10034	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
181	तुफैल अहमद सिद्दीकी	श्री सेराज अहमद	17275	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
182	दानिश इमरान	इनामुल हसन	8855	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
183	फरेहा हसन	श्री काजी सईद शबीहुल हसन	9972	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
184	बुशरा अबरार	श्री मो० अबरार	16673	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
185	बुशरा शाहिद	श्री अब्दुल शाहिद	12639	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
186	मजहरुल हक	श्री मो० फारुक	13387	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
187	मुशर्रफ अली	श्री नाजिर हसन	6978	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
188	मैमूना खातून	श्री अब्दुल कय्यूम	14951	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
189	मो० इमरान	श्री अब्दुल हलीम	8961	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
190	मो० बेलाल खान	श्री मो० निजामुद्दीन खान	13043	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
191	मो० शमीम खान	श्री मो० नईम खान	8962	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ

1	2	3	4	5
192	रिजवान उर रजा	श्री बरकत अली	9841	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
193	वसीमउद्दीन	श्री अनीसुद्दीन	8370	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
194	शकील अजाज	श्री लते अजहर हुसैन किदवई	8773	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
195	शफीक अहमद खान	मो0 जौहर	16696	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
196	शहबाज अली	श्री नूरुल इस्लाम	11329	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
197	शहीरुल्लाह कादरी	श्री लते अहमद अंसारी	9623	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
198	शामिया नाज	श्री जियाउद्दीन	13849	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
199	शाहिया यासमीन	लेट रफीउददीन खान	5150	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
200	शैफकानुल्ला अंसारी	हिदायतउल्ला अंसारी	9395	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
201	सईद अहमद	श्री अब्दुल जाहिद	15845	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
202	सईद मो० इरफान	श्री सईद कुद्दूस अहमद	8907	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
203	सदीअ अजरा	श्री मो० शोएब कासमी	11922	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
204	सिददीकी शबाना नाहिद	मो0 शमीम खान	11485	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
205	सिराजुद्दीन खान	श्री मो० हबीब अहमद खान	10855	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
206	हिना तालत	शमशुददीन अंसारी	15039	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ
207	हुमा मकसूद	श्री मकसूद हसन	13798	डा अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ

7. शम्मे गौसिया माइनारिटी (एस0जी0एम0) यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेड़ी गाजीपुर

208	अतीक अहमद	मो0 अहद	09856	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
209	अफजाल अहमद	मो0 इलियास	09061	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
210	अफरोज अहमद खां	फिरोज अहमद खां	14691	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
211	आसिफ मुमताज	मुमताज अहमद	7081	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
212	उजमा अब्दुलाह सिदिदीकी	अब्दुल्लाह सिदिदीकी	17076	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
213	काविश इलियास	मो0 इलियास	13141	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)

1	2	3	4	5
214	गजनफर इमाम	शब्बीर इमाम	7264	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
215	जफर हुसैन	सैयद जफर हुसैन	12742	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
216	जियाउददीन अहमद	मो0 नसीरुददीन	12480	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
217	जैनुल आबदीन	अबदुल कादिर	15461	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
218	तरन्नुम खानम	अब्दुल हमीद खान	13882	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
219	तारिक कमाल	स्व0 मो0 अकील अंसारी	10203	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
220	दरक्शा परवीन	मजहर आलम	13202	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
221	दानिश	रशीद	12177	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
222	नेसार अहमद	मो0 हासिम	17917	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
223	परवेज अहमद	अब्दुल कलाम	12513	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
224	फैज अहमद	हसीन अहमद	16292	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
225	मजहरुददीन	मसीहुददीन	14055	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
226	मो0 अली खान	मो0 वसी खान	13883	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
227	मो0 अशरफ	सगीर अहमद	12744	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
228	मो0 उजैर बेग	मो0 साबिर बेग	17355	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
229	मो0 फैयाज	कमरुददीन	8612	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
230	मो0 साजिद	स्व0 प्यारे अली	12745	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
231	शाह अहमद गजाली	गुलाम मोहम्मद	16280	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
232	वजीउल्लाह	कलीमुल्लाह	13075	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
233	शमशुल इस्लाम	वलीउददीन अहमद	12479	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
234	शहजादी गुलनार	स्व0 मो0 अकील अंसारी	12193	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
235	शहनवाज अख्तर खान	सेराजुददीन खान	12731	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
236	शाह खालिद खान	एम0ए0 खान	11207	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)

1	2	3	4	5
237	सैयद आबिद हुसैन	स्व0 जफर हुसैन	12743	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)
238	सैयद वसीम अशरफ	स्व0 सैयद अब्दुल कासिम	9515	एस0जी0एम0 यूनानी मेडिकल कालेज व हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर-233302 (उ0प्र0)

8. अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़

239	अजीजुर रहमान	श्री के. एम. ऐ. सिद्दीकी	11967	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
240	अब्दुल अजीज खान	श्री अब्दुल हफीज खान	9620	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
241	अब्दुर रउफ	श्री अब्दुल्लाह	8892	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
242	अबीहा अहमद खान	श्रीपरवेज खलील खान	15680	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
243	अम्मार इब्ने अनवर	श्री अनवर रफीक सिद्दीकी	8739	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
244	अर्शी रिआज	श्री रिआजुर रहमान	8928	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
245	उबैदुल्लाह	श्री हबीबुल्लाह खान	6722	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
246	एशिया सुल्ताना	श्री मोहम्मद अजहर अली खान	8068	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
247	ऐसा ऐजाज	श्री एजाजुद्दीन	11911	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
248	काजी जैद अहमद	श्री काजी मुशीर अहमद	10590	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
249	निदा सुल्ताना	श्री मोहम्मद शाहरुख अली खान	14856	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
250	फहमीदा जीनत	श्री अनीस अहमद	14252	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
251	एफ. एस. शीरानी	श्री एफ. एस. शीरानी	6473	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
252	फारुक अहमद दर	श्री अब अहद दर	8889	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
253	फिरासत अली	श्री अब्दुल अलीम खान	6740	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
254	बी. डी. खान	श्री मोहम्मद सिद्दीकी खान	7453	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
255	तपसीर अली	श्री रेश्वा अली	7454	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
256	तबरसुम लताफत	श्री लताफतुल्लाह खान	6428	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
257	तंजील अहमद	श्री जाहिद हुसैन	7393	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
258	एम अनस	श्री एस. मसरूर अली शम्षी	9307	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैंकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़

1	2	3	4	5
259	एम मोहसिन	श्री फैजुल्लाह	9294	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
260	एम. साद ऐ. खान	श्री मोहम्मद सईद खान	11332	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
261	मुघीस ऐ. अंसारी	श्री मोहम्मद इदरीस	6715	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
262	मुर्सलीन नसीर	श्री एस. नसीरुद्दीन	10965	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
263	मोहम्मद अनवर	श्री मोहम्मद जमील	6870	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
264	मो0 नदीम खान	श्री एम0नसीम खान	9673	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
265	मोहम्मद रशीद	श्री हबीब अहमद	12966	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
266	रहिंदा हिलाल	श्री हिलालुद्दीन	12572	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
267	शमशाद आलम	श्री असहाब आलम	11475	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
268	शोएब अहमद	श्री मोहम्मद नियाज	11964	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
269	सना तौफीक	श्री तौफीक अहमद	15723	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
270	सबा जैदी	श्री सईद सुल्तान हैदर जैदी	9111	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
271	एस. एम. अहमर	श्री सईद बहार उद्दीन	14018	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
272	एस. एम. सफदर अषरफ	श्री एस. कमरुद्दीन अषरफ	6674	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
273	सुबूही मुस्तफा	श्री मोहम्मद मुस्तफा	7613	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
274	सुम्बुल रहमान	श्री खलीलूर रहमान	12015	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
275	हाफिज इकितदार अहमद	श्री ऐजाज अहमद	14227	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
276	हुदा नफीस	श्री करि नफीस अहमद	17230	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़
277	हुमा नूर	श्री चौधरी नूरुद्दीन	16667	अजमल खाँ तिब्बिया, कालेज, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ए.म.यू. अलीगढ़

9—इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पुलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ

278	अनवारुल इस्लाम सिद्दीकी	श्री निसीरुद्दीन सिद्दीकी	10772	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पुलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
279	अनीस अहमद	श्री शरीफ अहमद	13321	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पुलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
280	असिया परवीन	श्री कफील अहमद	11469	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पुलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ

1	2	3	4	5
281	अब्दुल्लाह	श्री अब्दुल अजीज	9147	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
282	अब्दुल वहाब	श्री मोहम्मद सईद	11563	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
283	अब्दुल हलीम	श्री अब्दुल हकीम कासमी	11265	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
284	इरशाद अहमद अंसारी	श्री खलील अहमद	12126	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
285	खुर्शीद आलम	श्री अपफान अहमद	10373	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
286	जुबैर अहमद	श्री मो0 हयात खान	9972	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
287	जुबैर अहमद खान	श्री मो0 सधीर खान	7690	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
288	निजामुलहक	श्री सिराजुल हक	12954	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
289	फरजाना खातून	श्री जीमल अहमद	17351	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
290	फसीउर रहमान	श्री मुजीबुर रहमान	17105	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
291	महजबीन खान	श्री अफजल हुसैन खान	8976	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
292	मुईद अहमद	श्री मोहम्मद यासीन	8753	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
293	मुफीद अहमद	श्री मोहम्मद यासीन	10515	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
294	मोहम्मद अतीक खान	श्री मुबीन खान	12732	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
295	मोहम्मद अरिफ इस्लाही	श्री इस्तियाक अहमद	7464	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
296	मोहम्मद अलीम	श्री नियाज अहमद	11228	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
297	मो0 तारिक	श्री मसूद अहमद	17523	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
298	मोहम्मद सकिब	श्री मोहम्मद तैय्यब	10667	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
299	मो0यासिर खान	श्री नईम अहमद	11303	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
300	मो0 सलीम	श्री मो0 रजा	15665	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
301	रईस अहमद	श्री स्व0 रफी अहमद	6851	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
302	राशिद शमीम	श्री शमीम अहमद	9466	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
303	वरिस अली	श्री जमालुद्दीन	13298	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ

1	2	3	4	5
304	शकील अहमद	श्री अतहर खान	13898	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
305	शाहिद सुहैल	श्री समीउल्लाह फैजी	13829	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
306	सबीहा मलिक	श्री मो0 अहमद मलिक	8754	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
307	सीमा अजीम	श्री इमरानुरहमान	14317	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
308	सरफराज मुस्लिम सिद्दीकी	श्री मोहम्मद याकूब सिद्दीकी	12558	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कुर्सी रोड, निकट पोलिस स्टेशन गुडम्बा, लखनऊ
10. अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर				
309	अब्दुल रहमान	श्री मुकर्रम अली	15423	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
310	अब्दुर रहीम	श्री अब्दुर रेहमान	15787	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
311	कयूम हुसैन	श्री अहमद हुसैन	8294	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
312	कहकशां मुजीब	श्री मुजीब उज जमा	15679	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
313	जुबैर बेग	श्री इश्तियाक बैग	9359	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
314	दानिश अली	श्री इजहार अली	15703	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
315	दिलसाद अहमद	श्री इकरार अहमद	9498	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
316	नदीम अहमद	श्री अब्दुल मोजीब	17045	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
317	नसीम अहमद	श्री अब्बदुल सलाम	10608	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
318	मतीन अहमद खान	श्री नसीम अहमद खान	13593	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
319	महबूब अली	श्री इंसाफ अली	11715	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
320	मुश्ताक हुसैन	श्री खलील अहमद	10922	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर

1	2	3	4	5
321	मोकर्रम अली	श्री आशिक अली	17954	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
322	मो० आबिद	श्री मो० कासिम	12209	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
323	मो0 जाबेद	श्री शहाबुद्दीन	17176	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
324	मो० नबी	श्री जिआउद्दीन	11681	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
325	मो० नाजिश फारूकी	श्री इकबाल अहमद फारूकी	11606	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
326	मो० परवेज सैफी	श्री इकबाल अहमद	11682	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
327	मो0 शरीफ	श्री सदरुद्दीन	9364	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
328	रुही	श्री नईम अख्तर कासमी	13629	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
329	वसीम अहमद त्यागी	श्री अनीस अहमद त्यागी	9362	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
330	शजिया बेगम	श्री शाहिद अली खान	16234	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
331	सगीर अहमद	श्री मो० इकबाल	10007	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
332	सोनिया अली	श्री रियासत अली	16173	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर
333	हिलाल अख्तर	श्री मो० अख्तर	12959	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज ए0सी0एन0 हास्पिटल, रुड़की रोड़, निकट सतसंग भवन, मुजफ्फरनगर

11.राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002

334	अताउल्ला खॉन	श्री जमादार खान	13858	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
335	अब्दुल कवी	श्री सिबगत उल्लाह	18671	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
336	अब्दुल खालिक	श्री मो0 अब्दुल्लाह	15051	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002

1	2	3	4	5
337	अबसार अहमद	श्री सलाहुद्दीन	8640	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
338	अरशद अली	स्व0 श्री अतहर अली	6669	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
339	अलबिना	श्री मो0 इब्राहिम	10262	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
340	इरफानुद्दीन	श्री मो0 शफी	7685	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
341	उम्मेकुलसूम	श्री वकील अहमद	16685	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
342	कफील अहमद	श्री अमीर अहमद	8166	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
343	जमाल अख्तर	श्री मन्जूरुल हसन	7338	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
344	जमाल अख्तर	श्री निसार अहमद	12087	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
345	नईमुद्दीन अंसारी	श्री जान मोहम्मद	7354	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
346	नफासत अली अंसारी	श्री शौकत अली अंसारी	6685	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
347	बच्चू सिंह	श्री लालाराम	11582	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
348	मनीराम सिंह	श्री सूरजपाल सिंह	11577	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
349	मो0अबूबकर	श्री मो0 अहमद	14810	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
350	मो0 अबूबकर कादरी	श्री मो0 शफीकादरी	3893	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
351	मो0 आशिफ	श्री मजहर हुसैन	7276	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
352	मो0 खालिद सिद्दीकी	श्री नसीर अली सिद्दीकी	6316	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
353	मो0 जुबैर	श्री अब्दुल जब्बार	11962	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
354	मो0 नसीरुद्दीन	श्री मो0 इस्लाम	13517	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
355	मो0 मजाहिर आलम	श्री मन्जूरुल वहीद	7303	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
356	मो0 हसन	श्री वसी हसन	5626	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
357	रक्विन्दा बेग	श्री मिर्जा इन्तेजार अली बेग	10844	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
358	शगुफ्ता परवीन	श्री रफीक अहमद	14302	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
359	साफिया लोखण्डे	श्री अकबर आगा	17916	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002

1	2	3	4	5
360	सुहैब मोहम्मद जैद	श्री मो0 कासमी	12520	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
361	सुबोध कुमार	श्री कश्मीर सिंह	12221	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
362	सुहैल अहमद	श्री मो0 यूनस	6658	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
363	सैयूद फजलुर्रहमान काजमी	श्री सै0 मोईनुल हक काजमी	8896	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002
364	हफीज अहमद अंसारी	श्री शफीउररहमान	9786	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रामाबाई स्थल, लखनऊ, 226002

12—अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0

हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ

365	अजमत उल्लाह	श्री अहमद उल्लाह खान	7563	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
366	अनीसुर्रहमान	श्री अब्दुल कलम	14019	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
367	अनीसुर्रहमान खान	श्री अब्दुल रहमान खान	8095	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
368	अब्दुल अजीज	श्री इम्तियाज अली	16745	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
369	अहमद नदीम खान	श्री सलाहुद्दीन खान	15254	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
370	अहमद सलीम	श्री हकीम अब्दुल गफूर	7285	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
371	आलिया परवीन	श्री सिराजुद्दीन	14679	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
372	उज्मा खालिक	श्री खालिक अहमद अंसारी	12775	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
373	उज्मा राहत	श्री रफत हुसैन राहत	11302	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
374	कुँवर जमीर अहमद	श्री अब्दुल जीमल खान	8741	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
375	गजाला अहमद	श्री वली अहमद	17564	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ

1	2	3	4	5
376	गजाला यास्मीन	श्री वली मोहम्मद	10801	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
377	जरीना अकबाल	श्री मो0 अकबाल	17037	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
378	जरार हुसैन रिजवी	श्री सर्फराज अली	8965	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
379	जाकिरा इकरार	श्री मो0 इकरार	12972	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
380	नईम	श्री सलीम खान	14948	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
381	नवीला सुभान	श्री सुभान उल्लाह	17360	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
382	नीलोफर	श्री मो0 जान	8848	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
383	नुजहत अख्तर	श्री अख्तर अली खान	12146	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
384	मो0आजम	श्री मो0 हुसैन	11137	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
385	मो0 जावेद खान	श्री मूवीन खान	11165	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
386	मो0तारिक	श्री अब्दुल अजीम	17194	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
387	मो0 फैसल	श्री फहीमुद्दीन फारुकी	10291	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
388	मो0 सकलैन	श्री जवाहर अब्बास	15961	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
389	रिहाना कमल	श्री सिकन्दर अहमद	9231	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
390	रुखसार बशीर	श्री बशीर अहमद खान	18406	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ

1	2	3	4	5
391	रुमाना खान	श्री सदीक अली खान	12967	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
392	शबाना सिद्दीकी	श्री फिरोज अहमद	1981	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
393	सना अख्तर	श्री शमीम अख्तर	17157	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
394	सना रहमान	श्री मो0 खालीलुरहमान	17175	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
395	सबीहा इकबाल	श्री वसी इकबाल	8167	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
396	सुभाना खान	श्री सदीक अली खान	12967	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
397	हाफिज जुबैर आलम	श्री उजैर आलम	10182	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
398	हिना तरन्नुम आफरीदी	श्री आर0ए0 आफरीदी	11342	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ
399	साजिद कबीर	श्री अहमद जैसी	8038	अलीगढ यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अपोजिट एफ0एम0टावर, अनूपशहर रोड, अलीगढ

13-गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0-बिन्दकी, फतेहपुर

400	अनवर जहीर	श्री गुलाम जिलानी	11225	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0-बिन्दकी, फतेहपुर
401	अनिस खान	श्री युसुफ खान	13990	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0-बिन्दकी, फतेहपुर
402	अब्दुर रहमान	श्री मो0 मुत्तावकिल	13724	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0-बिन्दकी, फतेहपुर
403	अब्दुल कादिर अंसारी	श्री अब्दुल हादी अंसारी	10170	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0-बिन्दकी, फतेहपुर
404	अब्दुल वजूद खान	श्री जमशेद खान	9371	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0-बिन्दकी, फतेहपुर
405	आफताब आलम	स्व0 श्री वजीर मो0	12901	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0-बिन्दकी, फतेहपुर
406	उनैजा फारुकी	श्री हकीम फारुकी	16914	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0-बिन्दकी, फतेहपुर
407	एजाज अहमद	श्री इम्तयाज अहमद	13326	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0-बिन्दकी, फतेहपुर

1	2	3	4	5
408	एजाज अहमद सिद्दीकी	श्री नियाज अहमद सिद्दीकी	8279	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
409	कादरी मो0 महबूब	श्री मो0 याकूब	12977	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
410	खुर्शीद आलम	श्री अजाजुल्लाह खान	17367	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
411	गौसिया इस्लाम	श्री इस्लामुद्दीन	14534	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
412	जमाल अहमद	श्री अमिर अहमद	11812	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
413	जमीर अहमद	स्व0 श्री इदरीश अहमद	7917	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
414	तबस्सुम	श्री राशिद हुसैन	15957	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
415	नौशाद अहमद	श्री मो0 इश्राफील	11697	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
416	फैय्याज अहमद	श्री इम्तियाज अहमद	8372	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
417	मलीह असगर	श्री हाफिज उल्लाह	6469	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
418	महताब आलम	श्री अब्दुल मोबीन	16688	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
419	मो0 अदिल अंसारी	श्री अब्दुल वली अंसारी	10166	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
420	मो0 अली सिद्दीकी	श्री मो0 अब्बास सिद्दीकी	13901	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
421	मो0 इरफान नजफ आलमी	श्री दरवेश नजफ आलमी	5918	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
422	मो0 इरशाद खान	श्री हकीमुद्दीन खान	11746	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
423	मो0 कलीम अहसान	श्री मो0 समीउल्लाह	7296	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
424	मो0 वसीम	श्री हशमत अली	15776	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
425	मो0 शाहिद खान	श्री अब्दुल वाहिद खान	7458	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
426	मो0 समीम	श्री मो0 हदीस	14021	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
427	शम्सुल अरफीन	स्व0 श्री सदरे आलम सिद्दीकी	8537	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
428	शाह अगर मलिक	श्री अबरार अहमद	15864	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर

1	2	3	4	5
429	सज्जाद जिलानी	हुसैन श्री सैयद अफाक हुसैन जिलानी	19072	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
430	सय्यद अख्तर	परवेज स्व0 श्री सैयद अब्दुल कासिम	11376	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
431	सरफराज खान	अख्तर श्री सिराजुद्दीन खान	14589	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
432	सिदीक अहमद	श्री मकबूल अहमद	15844	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
433	सुहैल अहमद	श्री इकबाल अहमद हैदरी	6687	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर
434	सैयद इशरत अली	श्री सैयद असगर अली	7564	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर, देवमई, तह0—बिन्दकी, फतेहपुर

**14. ग्लोकल कालेज ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेंटर,
न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0**

435	अतीकुर्रहमान	श्री मोहम्मद मुस्तफा	8882	ग्लोकल कालेज ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
436	अब्दुल्लाह खान	डॉ० खान अब्दुल हई	11873	ग्लोकल कालेज ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
437	अमजद जमाल	श्री सईद जमाल अहमद	10494	ग्लोकल कालेज ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
438	अंजुम जावेद	श्री जिंदा हसन	9735	ग्लोकल कालेज ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
439	कमरुज्जमा	श्री मोहम्मद इकराम	12924	ग्लोकल कालेज ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
440	खान नजमा अब्दुल हई	श्री खान अब्दुल हई	11755	ग्लोकल कालेज ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
441	जुलविकार अनवर	श्री मोहम्मद अली	14321	ग्लोकल कालेज ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
442	दीबा कुरैशी	श्री मकसूद अहमद	10332	ग्लोकल कालेज ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
443	फौजिया मुख्तार	श्री हाजी मुख्तार अहमद	15682	ग्लोकल कालेज ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
444	मिस्बा नईम	श्री मोहम्मद नईम	16691	ग्लोकल कालेज ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0

1	2	3	4	5
445	मोहम्मद अरशद खान	श्री मोहम्मद अकरम खान	9536	ग्लोकल कालेज ऑफ रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
446	मोहम्मद इमलाक	श्री कमरुद्दीन	15393	ग्लोकल कालेज ऑफ रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
447	मोहम्मद कलीम	श्री मोहम्मद शरीफ	15899	ग्लोकल कालेज ऑफ रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
448	मोहम्मद शोएब खान	श्री जमीर हुसैन	15442	ग्लोकल कालेज ऑफ रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
449	मंसूर अहमद	श्री मोहम्मद अय्यूब	10714	ग्लोकल कालेज ऑफ रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
450	राशिद सिद्दीकी	श्री शफीक सिद्दीकी	10427	ग्लोकल कालेज ऑफ रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
451	रियाजुद्दीन	श्री अब्दुल हमीद	8245	ग्लोकल कालेज ऑफ रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
452	रेहाना परवीन	श्री जैनुद्दीन	17847	ग्लोकल कालेज ऑफ रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
453	वासिफ	श्री जफर सादिक	13770	ग्लोकल कालेज ऑफ रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
454	शमा अब्दुल हई	श्री खान अब्दुल हई	15362	ग्लोकल कालेज ऑफ रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
455	शरीफ	श्री रहमुल्लाह	7436	ग्लोकल कालेज ऑफ रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
456	शाइस्ता अनवर मंसूरी	श्री अनीस अनवर	18187	ग्लोकल कालेज ऑफ रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
457	शाहनवाज मुस्तफा खान	श्री जमाल मुस्तफा खान	11646	ग्लोकल कालेज ऑफ रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
458	सना जकी	श्री जकीउजजमा	15896	ग्लोकल कालेज ऑफ रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0
459	साबिर हसन	श्री सब्बीर हसन	14731	ग्लोकल कालेज ऑफ रिसर्च सेंटर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजौरिया रोड, सहारनपुर, उ0प्र0

डा0 मनोज यादव
निदेशक/रिटर्निंग अधिकारी।

पी0एस0यू0पी0-15 हिन्दी गजट-भाग 1-क-2021 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 10 जुलाई, 2021 ई० (आषाढ़ 19, 1943 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख-नगर पंचायत,
खण्ड-ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत

23 अप्रैल, 2021 ई०

सं० स्था०नि०सहा०/इक्कीस-1(2016-17) 504-उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961, जो उ०प्र० पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम सन् 1994 द्वारा संशोधित है, की धारा 143 के साथ पठित धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, अम्बेडकरनगर द्वारा शासन स्तर से प्रेषित मॉडल बाइलाज के अनुसार जिला पंचायत क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लाइसेन्स फीस की दरों में किये गये संशोधन को नियंत्रित व विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधि बनायी गयी है। मेरे द्वारा उक्त उपविधि की पुष्टि कर दी गयी है एवं उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 143 के साथ पठित धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत अम्बेडकरनगर द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में मिल/कारखाना/फैक्ट्री लगाये जाने के सम्बन्ध में विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु उ०प्र० शासन द्वारा मॉडल बाइलाज लागू किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 1152/33-2-2017-62जी/2017, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 के क्रम में मिल/कारखाना/फैक्ट्री के उपविधि के दरों का विवरण निम्नवत् है। जिसकी पुष्टि करते हुए उक्त अधिनियम की उपधारा 242 (2) के प्रयोजन हेतु प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन होने के दिनांक से लागू होगी।

उपविधि

1-यह मिल/कारखाना/फैक्ट्री उपविधि कहलायेगी।

2-ये उपविधि जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होगी और ग्रामीण क्षेत्र की वर्तमान और आगे लगने वाले मिल/कारखाना/फैक्ट्रियों को नियंत्रित करेगी।

3-परिभाषाएँ—(क) ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 2(10) में दी गयी परिभाषा के अनुसार होगा।

(ख) शक्ति का अर्थ 1948 के मिल/कारखाना/फैक्ट्री अधिनियम की धारा 63(2) "ज" की परिभाषा के अनुसार होगा।

(ग) मिल/कारखाना/फैक्ट्री का अर्थ ऐसे परिसर अथवा भूमि से है, जिसके किसी भाग में किसी वस्तु के उत्पादन क्रिया में साधारणतः शक्ति का उपभोग किया जाता है। मिल/कारखाना/फैक्ट्री की शुल्क दरें निम्नवत् हैं—

क्र०सं०	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	
1	2	3
		रु०
1	चीनी मिल	50,000.00
2	क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
3	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
4	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक नॉन सल्फीटेशन	2,500.00
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	400.00
6	शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	1,000.00
7	हस्त चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	200.00
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	300.00
9	धान कूटने का मिल (राइस सेलर)	2,500.00
10	एक्सपेलर	500.00
11	आरा मशीन	2,000.00
12	खराद मशीन	1,000.00
13	पावर लूम (प्रत्येक)	1,000.00
14	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	4,000.00
15	सरिया बनाने का कारखाना	15,000.00
16	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्ठी)	5,000.00
17	बर्फ बनाने का कारखाना (200 सिल्ली तक)	2,000.00
18	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	4,000.00
19	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	7,000.00
20	पेपरकोन बनाने का कारखाना	4,000.00
21	पेपर रोल बनाने का कारखाना	8,000.00
22	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)	10,000.00
23	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता तक)	15,000.00
24	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	30,000.00
25	कागज बनाने का कारखाना (30 टन से अधिक)	50,000.00
26	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	10,000.00
27	चिलिंग प्लाण्ट	8,000.00
28	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2" मोटाई तक)	25,000.00

1	2	3
		रु०
29	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2" मोटाई से अधिक)	50,000.00
30	मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना	7,000.00
31	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग तक)	10,000.00
32	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग से अधिक तक)	15,000.00
33	पिक्चर ट्युब बनाने का कारखाना	5,000.00
34	हाटमिक्स प्लाण्ट	10,000.00
35	रबड़ की वस्तुएं बनाने का कारखाना	2,000.00
36	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का छोटा कारखाना	2,000.00
37	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का बड़ा कारखाना	7,000.00
38	मसाले की ईट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	8,000.00
39	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, शीशा, तांबा व टीन आदि से वस्तुएं बनाना	4,000.00
40	वनस्पति/देशी घी या रिफाइण्ड आयल बनाने का कारखाना	15,000.00
41	शराब, स्पिरिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	50,000.00
42	कृषि सम्बन्धी यंत्र बनाने का कारखाना	4,000.00
43	फर्टीलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	10,000.00
44	खाण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना	5,000.00
45	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	4,000.00
46	प्लास्टिक के पाइप, टैंक बनाने का कारखाना	7,000.00
47	बिजली के सामान बनाने का कारखाना	4,000.00
48	कपड़ा कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	2,000.00
49	कपड़ा कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (बड़ा)	8,000.00
50	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	10,000.00
51	फ्लोर मिल	10,000.00
52	दाल मिल	5,000.00
53	रिईनफोर्ड, सीमेन्ट क्रकीट आदि के ह्यूम पाइप बनाने का कारखाना	10,000.00
54	टेलीविजन बनाने का कारखाना	10,000.00
55	माचिस बनाने का कारखाना	10,000.00
56	बटन बनाने का कारखाना	6,000.00

1	2	3
		रु०
57	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	3,000.00
58	विनियर एण्ड शॉ मिल	7,000.00
59	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	50,000.00
60	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	15,000.00
61	साकिट बनाने का कारखाना	5,000.00
62	प्लाईवुड या माइका बनाने का कारखाना	10,000.00
63	दवाई बनाने का कारखाना	7,000.00
64	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	3,000.00
65	लैमिनेशन का कारखाना	5,000.00
66	दूध का पैकिंग का कारखाना	6,000.00
67	केमिकल बनाने का कारखाना	8,000.00
68	डबलरोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	5,000.00
69	गैस आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
70	गैस सिलेण्डर बनाने का कारखाना	8,000.00
71	बेल्लिंग राइस बनाने का कारखाना	6,000.00
72	पीतल की राइस बनाने का कारखाना	6,000.00
73	ढलाई करने का कारखाना	6,000.00
74	स्टील, अलमारी, बक्से, मेज आदि बनाने का कारखाना	6,000.00
75	पशु आहार बनाने का कारखाना	5,000.00
76	धागा बनाने का कारखाना	4,000.00
77	धागा डबलिंग बनाने का कारखाना	7,000.00
78	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	7,000.00
79	साबुन बनाने का कारखाना	2,000.00
80	डिटर्जेंट बनाने का कारखाना	7,000.00
81	पट्टा बनाने का कारखाना	3,000.00
82	कमानी बनाने का कारखाना	7,000.00
83	रबड़ के टायर, ट्यूब बनाने का कारखाना	15,000.00
84	टायर रिट्रेडिंग	4,000.00
85	तिरपाल बनाने का कारखाना	10,000.00
86	आतिशबाजी सम्बन्धी सामान बनाने का कारखाना	10,000.00
87	ग्रीस, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
88	चार पहिया बनाने का कारखाना	1,00,000.00

1	2	3
		रु०
89	दो पहिया बनाने का कारखाना	50,000.00
90	तार बनाने का कारखाना	15,000.00
91	तार की जाली बनाने का कारखाना	3,500.00
92	लालटेन बनाने का कारखाना	3,000.00
93	रेगमाल बनाने का कारखाना	4,000.00
94	बैट्री बनाने का कारखाना	5,000.00
95	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	5,000.00
96	रंग बनाने का कारखाना	5,000.00
97	गम, टेप बनाने का कारखाना	4,000.00
98	आटो मोटर्स बनाने का कारखाना	5,000.00
99	निकिल पालिस (प्लेटिंग) करने का कारखाना	5,000.00
100	रांगा बनाने का कारखाना	5,000.00
101	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	5,000.00
102	हड्डी मिल	25,000.00
103	सरेश मिल	5,000.00
104	पेट्रोल मिल	4,000.00
105	डीजल मिल	5,000.00
106	गैस बाटलिंग प्लाण्ट	25,000.00
107	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	2,000.00
108	प्रिंटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	2,500.00
109	सिनेमा हाल	4,000.00
110	बिडियो सिनेमा हाल	2,500.00
111	मुर्गा/मुर्गी दाना का कारखाना/फैक्ट्री	3,000.00
112	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	10,000.00
113	रेडीमेड गारमेन्ट्स का कारखाना	15,000.00
114	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	15,000.00
115	स्लाटर हाउस/इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट	1,00,000.00
116	ट्रांसफार्मर फैक्ट्री	20,000.00
117	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	15,000.00
118	एयर कंडीशनर बनाने का कारखाना	10,000.00
119	जूट, सन व नायलान बनाने का कारखाना	5,000.00
120	शीशा बनाने का कारखाना	3,000.00

1	2	3
		रु0
121	पिपरमिण्ट बनाने का कारखाना	2,000.00
122	चमड़ा टेनरी का कारखाना	25,000.00
123	जैविक कारखाना	5,000.00
124	फिक्स चिमनी ईट भट्ठा (20 पाये तक)	10,000.00
125	फिक्स चिमनी ईट भट्ठा (20 पाये से अधिक)	15,000.00
126	स्टोन क्रेशर	15,000.00
127	सूक्ष्म/कुटीर उद्योग (micro)(लागत 25 लाख तक)	1,000.00से 5,000.00
128	लघु उद्योग (small)(लागत 25 लाख से 5 करोड़ तक)	6,000.00से 20,000.00
129	मध्यम उद्योग (Medium)(लागत 5 करोड़ से 10 करोड़ तक)	21,000.00से 50,000.00
130	भारी उद्योग (Heavy)(लागत 10 करोड़ से अधिक तक)	51,000.00से 1,00,000.00

5—कोई भी व्यक्ति जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत मिल/कारखाना/फैक्ट्री नहीं चला सकेगा, जब तक उसके निर्धारित शुल्क भुगतान के उपरान्त जिला पंचायत, अम्बेडकरनगर से पूरे वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस (अनुज्ञा-पत्र) प्राप्त न कर लिया हो।

6—इन उपनियमों के अधीन लाइसेंस पाने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा व सुविधा के लिए नीचे लिखी बातों का पालन करना होगा।

(1) फैक्ट्री के परिसर का जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला पंचायत के अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

(2) 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मिल/कारखाना/फैक्ट्री को सेवा में नहीं रखा जा सकता है।

(3) किसी संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति को मिल/कारखाना/फैक्ट्री में नहीं रखा जा सकता है।

(4) मिल/कारखाना/फैक्ट्री का अहाता सभी समय स्वच्छ स्वास्थ्यप्रद और अच्छी दशा में रखना होगा।

(5) मिल/कारखाना/फैक्ट्री में लगे चिमनी को पड़ोस की सबसे ऊंची इमारत से 5 मीटर से कम ऊंचाई पर नहीं होनी चाहिए।

(6) असाधारण शोरगुल रोकने के लिए मिल/कारखाना/फैक्ट्री के परिसर शोरगुल रोकने का यन्त्र लगाना चाहिए।

(7) जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करनी होगी।

(8) मिल/कारखाना/फैक्ट्री में फर्श और नालियां पक्के व तालाब पक्के हों तथा समय-समय पर उनकी संतोषजनक मरम्मत होनी चाहिए। प्रयोग किये हुए पानी के निकासी के लिए ऐसी नालियां बनाई जाय, जिसे लाइसेंस अधिकारी उचित समझें।

(9) इन उपविधियों के शर्तों के परिपालन में लाइसेंस निर्गत किया जायेगा।

(10) जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी लाइसेंस अधिकारी होंगे।

(11) लाइसेंसिंग अधिकारी इन उपविधियों का पालन न करने पर कोई लाइसेंस, निलम्बित अथवा निरस्त कर सकता है।

(12) समस्त मिल/कारखाना/फैक्ट्री मालिकों/संचालकों के लिए प्रदूषण के सम्बन्ध में समय-समय पर पारित केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के आदेशों एवं निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(13) लाइसेंस की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी और प्रत्येक लाइसेंस लेने वाला अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए अवधि समाप्त के एक माह पूर्व अपने पिछले लाइसेंस की संख्या और दिनांक के साथ प्रार्थना-पत्र प्रति वर्ष देगा।

(14) प्रत्येक प्रार्थना-पत्र में मिल/कारखाना/फैक्ट्री सम्बन्धी सभी विवरण और प्रार्थी का पूरा नाम अंकित होना चाहिए।

(15) एक वर्ष अथवा वर्ष के किसी भाग के लाइसेंस का शुल्क निम्न होगा। प्राप्त करने और उसे उसका नवीनीकरण कराने का उत्तरदायित्व कारोबार करने वाले व्यक्ति का होगा। लाइसेंस अधिकारी कार्यालय के बाहर भी जिला पंचायत कर्मचारियों द्वारा लाइसेंस शुल्क वसूल करने लाइसेंस निर्गत करने की व्यवस्था कर सकता है।

(16) जिन मिल/कारखाना/फैक्ट्री में अश्व शक्ति का प्रयोग नहीं होता है तथा जहां पर कम से कम 20 मजदूर कार्यरत हों, उनके लाइसेंस शुल्क की दर रु0 100.00 प्रति मजदूर प्रति वर्ष होगी, जिसकी अधिकतम सीमा रु0 2000.00 प्रति वर्ष होगी।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार जिला पंचायत आदेश जारी करती है कि इन उप नियमों का उल्लंघन करने वाले को अर्थ दण्ड देना होगा, जो रु0 250.00 होगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि इसमें अपराधी, अपराध करता रहा है, रु0 10.00 प्रतिदिन हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास से दण्डित होगा, जो तीन मास तक हो सकेगा।

एम0पी0 अग्रवाल,

आयुक्त,

अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

26 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 स्था0नि0सहा0/इक्कीस-1(2017-18) 512-उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961, जो उ0 प्र0 पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम सन् 1994 द्वारा संशोधित है, की धारा 143 के साथ पठित धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, अम्बेडकरनगर द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बालू, गिट्टी, पत्थर, बोल्टर, सुर्खी, चूना एवं भस्सी लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले के बाहर भेजने व संग्रह करने पर ट्रैक्टर, ट्रक आदि पर परिवहन शुल्क लगाने हेतु उपविधि बनायी गयी है। मेरे द्वारा उक्त उपविधि की पुष्टि करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के प्रयोजन हेतु प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 को धारा 143 के साथ पठित धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, अम्बेडकरनगर द्वारा जनपद अम्बेडकरनगर अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र के नदियों या उनके तट से बालू मोरंग, रेत, या अन्य खनिजों-मिट्टी कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले में या जिले से बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन यथा टैक्टर, ट्राली, ट्रक मिनी ट्रक, डम्पर, पशु गाड़ी या मानव अथवा शक्ति चालित नौका को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उ0प्र0 की सरकारी गजट में दिनांक 19 जुलाई, 2003 को प्रकाशित उपविधि के संशोधन हेतु उपविधि बनायी गयी है। उक्त अधिनियम की उपधारा 242 (2) के प्रयोजन हेतु प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन होने के दिनांक से लागू होगी।

उपविधि

1-यह उपविधि, जिला पंचायत, अम्बेडकरनगर अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मोरंग, रेत या अन्य खनिजों- मिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने या एकत्रित करने तथा उसे जिले में या जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन

करने वाले शक्ति चालित वाहन यथा ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक, मिनी ट्रक, डम्पर, पशु गाड़ी या मानव अथवा शक्ति चालित नौका को नियंत्रित एवं विनियमित करने की उपविधि कही जायेगी।

2-परिभाषाएँ—इन उपविधियों में—

1—अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) से है।

2—जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार संघटित जिला पंचायत, अम्बेडकरनगर से है।

3—ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र से है।

4—मा0 अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, अम्बेडकरनगर से है।

5—अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य जिला पंचायत, अम्बेडकरनगर के अपर मुख्य अधिकारी से है।

6—सार्वजनिक मार्ग का तात्पर्य उस सड़क, पुल, सामान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है जिस पर होकर आने जाने का जनसाधारण को विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो और जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत भी है में निहित हो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो।

7—नदी मार्ग का तात्पर्य प्राकृतिक नदी का आवागमन के लिये प्रयोग से है।

8—पशु गाड़ी का तात्पर्य बैल या भैंसा या ऊँट या घोड़ा या खच्चर द्वारा जाने वाली गाड़ियों से है।

9—स्थान का तात्पर्य उस स्थल से है जो कि किसी सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग पर शुल्क वसूली हेतु सुविधानुसार अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अम्बेडकरनगर द्वारा नियत किया जाये।

10—शुल्क का तात्पर्य इस उपविधि के क्रमांक 6 द्वारा निर्धारित शुल्क से है।

3—यह उपविधि ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उसके तट, नालों, पोखरों, क्वेरीज आदि से खनिजों को लेने एकत्रित करने या व्यावसायिक दृष्टि से सार्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के चालकों या मालिकों पर लागू होगी।

4—कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था आदि जनपद अम्बेडकरनगर के ग्रामीण क्षेत्र या अन्य जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों—गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्टी को एकत्रित करने या श्रमिकों द्वारा एकत्रित कराकर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक सड़क या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन, पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर ट्राली, ट्रक, मिनी ट्रक, डम्पर, या मानव अथवा शक्ति चालित नौका से परिवहन करेगा तो उसको जिला पंचायत, अम्बेडकरनगर द्वारा निर्धारित शुल्क अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अम्बेडकरनगर द्वारा निर्धारित स्थल पर जिला पंचायत द्वारा नियुक्त कार्मिक अथवा ठेकेदार को अदा करना होगा।

5—जिला पंचायत शुल्क वसूली अपने कर्मचारियों या अपने ठेकेदार द्वारा करा सकती है। ठेके की अवधि सामान्यतः वित्तीय वर्ष की होगी जो किसी 01 अप्रैल से आरम्भ होकर अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक होगी।

6—जिला पंचायत, अम्बेडकरनगर द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की दरें निम्न प्रकार की होंगी। संशोधित दरें निम्नवत् हैं—

क्र0 सं0	मद	वर्तमान दर	संशोधित दर
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	ट्रक	20.00	100.00 प्रति फेरी
2	ट्रैक्टर ट्राली	10.00	50.00 प्रति फेरी
(1)	पशुओं द्वारा खींचे जानी वाली गाड़ी	—	10.00 प्रति फेरी
(2)	मानव अथवा शक्ति चालित नाव	—	20.00 प्रति फेरी
(3)	ट्रक—		
	(क) मिनी ट्रक (लाइट गुड्स विहिकिल्स)	—	100.00 प्रति फेरी
	(ख) ट्रक (लाइट गुड्स विहिकिल्स 6 चक्का)	—	150.00 प्रति फेरी
	(ग) भारी ट्रक (हैवी गुड्स विहिकिल्स 10 चक्का या अधिक)	—	200.00 प्रति फेरी

7—उपविधि द्वारा निर्धारित शुल्क में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रत्येक 3 वर्ष के अन्तराल पर की जायेगी। जिस वित्तीय वर्ष में उपविधि लागू होगी, गणना हेतु वह पूर्ण वित्तीय वर्ष माना जायेगा। बढ़ोत्तरी की गणना करने पर जो धनराशि आयेगी उसे दहाई के पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

8—यदि शुल्क वसूली के ठेके दिया जाना है तो खुली सार्वजनिक नीलामी या सीलड टेण्डर पद्धति से दिया जायेगा, जिसका प्रचार दो प्रचलित समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किया जायेगा तथा यह सूचना जनपद या राज्य सरकार या जिला पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी जिसके अधीन टेण्डर फार्म डाउनलोड करने की भी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इसके साथ शासन द्वारा ठेके के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देशों का भी पालन किया जायेगा।

9—पंचायतीराज अनुभाग के शासनादेश संख्या 819-33/2-2007-190जी0/2007, दिनांक 10 अप्रैल, 2007 के अनुसार ठेके में भाग लेने वाले व्यक्ति को जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

10—ठेके की धनराशि रु0 1 करोड़ तक होने की स्थिति में पूरी धनराशि एकमुश्त जमा करना अनिवार्य होगा। रु0 1 करोड़ से अधिक धनराशि की स्थिति में रु0 1 करोड़ की धनराशि तत्काल जमा की जायेगी, इससे ऊपर की शेष धनराशि 02 समान किस्तों में जमा की जा सकती है। प्रथम किस्त 30 जून तक एवं द्वितीय किस्त 30 सितम्बर तक जमा करनी होगी। किस्त जमा न करने पर ठेका निरस्त एवं जमा धनराशि जब्त हो जायेगी एवं पुनः ठेके छोड़ने में यदि जिला पंचायत को कोई क्षति होती है तो वह उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी।

11—ठेकेदार को ठेका स्वीकार होने पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।

12—जिला पंचायत, अम्बेडकरनगर के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अधिकृत कार्मिक/ठेकेदार शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त शुल्कदाता को जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी मुद्रित एवं क्रमांक युक्त सह हस्ताक्षरित रसीद देना अनिवार्य होगा। रसीद के प्रतिपण को जिला पंचायत में वापस करना अनिवार्य होगा।

13—ठेकेदार वसूली स्थल पर सहज दृश्य स्थान पर एक 6' × 4' का रेट बोर्ड कार्य प्रारम्भ करने से पहले लगाना अनिवार्य होगा।

14—इस रेट बोर्ड पर वसूली स्थल का नाम, ठेकेदार का नाम व पता, ठेके की अवधि एवं ठेकेदार का मोबाइल नं0 लिखना अनिवार्य होगा।

15—ठेकेदार द्वारा वसूली में लगाये गये कार्मिक को अपर मुख्य अधिकारी द्वारा एक फोटो युक्त पहचान-पत्र जारी कराया जायेगा जो कि कार्मिक को प्रदर्शित करना होगा। शुल्क वसूली में लगाये कार्मिकों की सूची अपर मुख्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने को उपलब्ध करानी होगी।

16—शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर किये जाने की दशा में ठेकेदार को रसीद बही रखनी होगी, जिसको जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के मांगे जाने पर दिखाना अनिवार्य होगा।

17—ठेके की नीलामी एक 03 सदस्यीय नीलाम समिति द्वारा की जायेगी जिसमें अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी, कार्य अधिकारी, अभियन्ता, वित्तीय परामर्शदाता या कर अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी सदस्य होंगे।

18—ठेके स्वीकार करने का अधिकार नीलाम समिति की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत को होगा। यदि किसी प्रकरण में नीलाम समिति की संस्तुति एवं अध्यक्ष, जिला पंचायत में मत भिन्नता है या नीलाम समिति की संस्तुति के प्राप्त होने के 01 सप्ताह में निस्तारण नहीं होता है तो प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को सन्दर्भित कर दिया जायेगा जिनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

19—ठेके की अवधि में ठेके शर्तों एवं उपविधि के अनुपालन की जांच जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी द्वारा की जा सकेगी। जांच में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर ठेकेदार से

सन्तोषजनक मांगा जायेगा तथा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न होने पर नीलाम समिति की संस्तुति पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी तथा अन्तिम निर्णय अध्यक्ष, जिला पंचायत का होगा, जो कि उभय पक्षों को बाध्यकारी होगा।

20—गम्भीर अनियमितताओं की स्थिति में ठेका निरस्त किये जाने पर जमा धनराशि जब्त की जायेगी एवं पुनः ठेके किये जाने पर यदि जिला पंचायत को आर्थिक कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।

21—वसूली स्थल पर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अम्बेडकरनगर के द्वारा सार्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग पर ऐसे स्थान पर नियत किये जायेंगे जहां पर यातायात अवरुद्ध न हो। वसूली स्थल पर गाड़ियों को रोकने हेतु किसी प्रकार का बैरियर का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

22—वसूली स्थल पर ठेकेदार को पर्याप्त सफाई, पेयजल, रोशनी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

23—इन उपविधियों के अनुसार बालू, मौरंग, गिट्टी, बजरी, भस्सी, खारों से निकालने वाली मिट्टी, कोयला के अभिवहन के समय मालिक/वाहन चालक/पशुगाड़ी/नाव चालक के द्वारा शुल्क न देने या जांच के समय प्रमाण स्वरूप शुल्क की रसीद न दिखाने पर ऐसा समझा जायेगा कि नियत शुल्क की अदायगी नहीं की गयी है और ऐसे व्यक्ति का वसूली हेतु नियत जिला पंचायत कार्मिक/ठेकेदार की आख्या पर चालान की कार्यवाही कर दी जायेगी।

24—जिला पंचायत, अम्बेडकरनगर को इन उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क की वसूली में से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय का 20 प्रतिशत अंश अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में विकास कार्यों में जिला पंचायत द्वारा व्यय किया जायेगा।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के किसी अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी जो अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगी जो रु0 1000.00 (एक हजार रुपये) तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी, अपराध करता रहा है रु0 50.00 (पचास रुपये) तक हो सकेगा अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जायेगा तो करावास से दण्डनीय होगा, जो तीन मास तक हो सकेगा।

एम0पी0 अग्रवाल,
आयुक्त,
अयोध्या मण्डल, अयोध्या।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 10 जुलाई, 2021 ई० (आषाढ़ 19, 1943 शक संवत्)

भाग-4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

08 जुलाई, 2021

सं० मा०शि०प०/सिस्टम सेल/154-सर्व सम्बन्धित की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित किया जाता है कि बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ शासनादेश संख्या 392/अरसठ-4-2021-9(16)/2020, दिनांक 06 जून, 2021 के द्वारा उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र की वैधता पूर्व व्यापी प्रभाव दिनांक 11 फरवरी, 2011 से रिवैलिडेट करते हुए 05 वर्ष के स्थान पर आजीवन मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

तदक्रम में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित करायी गयी उत्तर प्रदेश, अध्यापक पात्रता परीक्षा-2011 के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्र की वैधता को भी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रिवैलिडेट करते हुए 05 वर्ष के स्थान पर आजीवन मान्य किया गया है।

दिब्यकान्त शुक्ल,

सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 10 जुलाई, 2021 ई० (आषाढ़ 19, 1943 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत तिन्दवारी, बाँदा

26 जून, 2021 ई०

सं० 98/ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि/2021-22-नगर पंचायत तिन्दवारी, बाँदा में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम संख्या 2, सन् 1916 की धारा 298 के अधीन प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत सीमान्तर्गत "विविधकर (शुल्क) उपविधि" लागू किये जाने हेतु तैयार की गई है। प्रस्तावित उपविधि उक्त अधिनियम की धारा 301(1) के अपेक्षानुसार जनसामान्य के अवलोकनार्थ राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय प्रकाशित दो समाचार-पत्रों में "दैनिक भास्कर झॉसी" दिनांक 31 जनवरी, 2021 व दैनिक "मन्दाकिनी धारा" बाँदा में दिनांक 04 फरवरी, 2021 को प्रकाशन कराकर जन सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उपरान्त नियत समय में कोई आपत्ति प्राप्त न होने के दृष्टिगत नगर पंचायत की बोर्ड बैठक दिनांक 26 मार्च, 2021 में प्रस्ताव संख्या 05 के तहत उपविधि को निकाय की आय में वृद्धि हेतु प्रकाशन राजकीय गजट में कराने के पश्चात् में लागू किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2021

1-संक्षिप्त नाम प्रकार एवं प्रारम्भ-

- (1) यह उपविधि "विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2021" कहलायेगी।
- (2) यह नगर पंचायत तिन्दवारी, बाँदा की सीमा में प्रवृत्त होगी।
- (3) यह उपविधि उ०प्र० राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत तिन्दवारी, बाँदा में प्रभावी होगी।

2-परिभाषाएँ-

उपरोक्त नियमावली में विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जायेगा-

- (1) "अधिनियम" का तात्पर्य उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।
- (2) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत, तिन्दवारी, बाँदा से है।
- (3) "अध्यक्ष/प्रशासक" का तात्पर्य नगर पंचायत, तिन्दवारी, बाँदा से अध्यक्ष/प्रशासक से है।
- (4) "अधिशाली अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत, तिन्दवारी, बाँदा के अधिशाली अधिकारी से है।
- (5) "लाइसेंसिंग अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत, तिन्दवारी के अधिशाली अधिकारी से है।

(6) "करसमाहर्ता" का तात्पर्य नगर पंचायत, तिन्दवारी, बौदा के करसमाहर्ता से है।

3-विविधकर/शुल्क की दरें-

(1) प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 100.00 प्रति प्रमाण-पत्र।

(2) पत्रावली/अभिलेखों/दस्तावेजों के निरीक्षण एवं उनकी नकल शुल्क रु0 100.00 प्रति प्रकरण।

(3) अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण/नामान्तरण पर शुल्क-

(क) वरासतन/रजिस्टर्ड वसीयत/न्यायालय निर्णय/रजिस्टर्ड हिबानामा के आधार पर नामान्तरण शुल्क रु0 1,000.00।

(ख) रु0 01 से 49,999 बाजारु मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क रु0 500.00

(ग) रु0 50,000 से 99,999 बाजारु मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 1,000.00

(घ) रु0 1,00,000 से 2,99,999 बाजारु मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 2,000.00

(ङ.) रु0 3,00,000 से 4,99,999 बाजारु मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 3,000.00

(च) रु0 5,00,000 से 9,99,999 बाजारु मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 5,000.00

(छ) रु0 10,00,000 से 14,99,999 बाजारु मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 7,000.00

(ज) रु0 15,00,000 से 19,99,999 बाजारु मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 10,000.00

(झ) रु0 20,00,000 से अधिक बाजारु मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 15,000.00

उपरोक्त समस्त प्रकरणों में तत्काल नामान्तरण करना आवश्यक होगा अन्यथा की स्थिति में रु0 100.00 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा।

4-सड़क, नाला, नाली या सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण।

5-सड़क, नाला, नाली या सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने की पुनरावृत्ति करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 2,000.00 प्रति प्रकरण।

6-डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु शुल्क रु0 50.00 प्रति माह (प्रति भवन)।

7-नगर सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर शुल्क रु0 500.00 प्रति व्यक्ति।

8-50 माइक्रोन मोटाई से कम की मोटाई की पालिथीन प्रयोग करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 100.00 (रु0 एक सौ मात्र) प्रति प्रकरण तथा पुनरावृत्ति करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 500.00 (रुपया पांच सौ मात्र प्रति प्रकरण)। पुनरावृत्ति करने पर सम्बन्धित के खिलाफ एफ0आई0आर0 की जायेगी।

9-सड़क के किनारे मौरंग, बालू, ईट भवन सामग्री पाये जाने पर, नालियों के ऊपर अतिक्रमण, सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने पर शुल्क रु0 500.00 प्रतिदिन, प्रति प्रकरण 20 वर्ग फुट तक, 20 वर्ग फुट से अधिक होने पर रु0 1,000.00 प्रतिदिन प्रति प्रकरण देय होगा।

10-वाटर टैंक (पंचायत सीमा में घरेलू/सार्वजनिक कार्य हेतु) शुल्क रु0 1,000.00 प्रतिदिन प्रति प्रकरण देय होगा।

11-वाटर टैंक (पंचायत सीमा में व्यवसायिक कार्य हेतु) शुल्क रु0 1,200.00 प्रति टैंकर प्रति चक्कर (08 घण्टे हेतु)

12-जे0सी0बी0 मशीन व्यक्तिगत उपयोग हेतु किराया शुल्क रु0 1,000.00 प्रति घण्टा।

13-नगर पंचायत के मोबाइल टॉयलेट किराया शुल्क रु0 1,500.00 प्रति दिन (08 घण्टे हेतु)।

14-नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थित रेस्टोरेन्ट/ढाबा पर व्यवसायिक शुल्क रु0 3,000.00 वार्षिक।

15-नगर पंचायत सीमा में स्थित पेट्रोल पम्प पर व्यवसायिक शुल्क रु0 5,000.00 वार्षिक।

16-नगर पंचायत सीमा में स्थित कोचिंग संस्थानों पर व्यवसायिक शुल्क रु0 3,000.00 वार्षिक।

17-नगर पंचायत सीमा में व्यवसाय करने वाले गेस्ट हाउस/विवाह घर/पैलेस आदि पर व्यवसायिक शुल्क रु0 10,000.00 वार्षिक।

18-पैलेस/विवाह घर/गेस्ट हाउस पर स्वच्छता शुल्क रु0 500.00 प्रति कार्यक्रम। नगर पंचायत को सूचना न देने पर कचड़ा इधर-उधर फेंकने पर रु0 1,000.00 का जुर्माना देय होगा। पुनरावृत्ति पर रु0 1,500.00 जुर्माना देय होगा।

19-नगर पंचायत के सीमा के अन्दर रोड कटिंग हेतु नगर पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जिसका शुल्क रु0 2,000.00 प्रति रोड कटिंग होगा।

20-नगर पंचायत दुकानों की किरायेदारी में नाम परिवर्तन निम्न प्रकार से किया जायेगा।

(क) विरासतन (मूल आवंटी की मृत्यु के उपरान्त उसके विधिक उत्तराधिकारी) सरकारी मूल्य का 25% प्रीमियम धनराशि जमा करना होगा तथा 90 दिन के अन्दर नाम परिवर्तन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में रु0 500.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा एवं वर्तमान किराये में 50% वृद्धि की अनिवार्य होगी।

(ख) नगर पंचायत दुकानों की किरायेदारी में प्रति 05 वर्ष में 12.5% की वृद्धि की जायेगी।

(ग) नगर पंचायत दुकानों के निर्माण/पुनः निर्माण में पूर्व आकार में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। सुपर वीजन शुल्क नगर पंचायत कोष में रु0 25,000.00 जमा करने के उपरान्त नगर पंचायत द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी तथा किराये में 50% की वृद्धि की जायेगी।

21—नगर पंचायत सीमा में स्थापित टॉवरों पर व्यवसायिक शुल्क रु0 10,000.00 वार्षिक।

22—नगर पंचायत सीमान्तर्गत श्वान/कुत्ता पालकों को नगर पंचायत तिन्दवारी, बॉदा में कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, पंजीकरण शुल्क रु0 100.00 प्रतिवर्ष प्रति श्वान/कुत्ता।

23—सड़क के किनारे (पटरी एवं नाली पर) एवं अन्य सार्वजनिक स्थल पर जानवर बांधने एवं अतिक्रमण करने पर रु0 1,000.00 जुर्माना प्रति प्रकरण पुनरावृत्ति करने पर सम्बन्धित के खिलाफ एफ0आई0आर0 की जायेगी।

24—कान्हा गौशाला/कांजी हाउस में रखे जाने वाले छोटे जानवर का खुराकी रु0 50.00 प्रतिदिन प्रति जानवर।

25—कान्हा गौशाला/कांजी हाउस में रखे जाने वाले बड़े जानवर का खुराकी रु0 100.00 प्रतिदिन प्रति जानवर।

26—कान्हा गौशाला/कांजी हाउस में बंद किये गये निजी पशु पालकों के गोवंश/जानवर छुड़ाने पर रु0 500.00 प्रति गोवंश/जानवर जुर्माना/शुल्क देय होगा।

27—नगर पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली ट्रांसफार्मर पर शुल्क रु0 1,000.00 वार्षिक प्रति ट्रांसफार्मर।

28—नगर पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस/सबस्टेशन पर शुल्क रु0 10,000.00 वार्षिक।

29—मुर्गा, मछली, भैंसा, बकरा, व अन्य मीट की दुकान हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की फीस रु0 1,000.00 वार्षिक।

30—नगर पंचायत सीमा में स्थित नाला, नाली, सड़क अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 2,000.00 तथा पुनरावृत्ति करने पर शुल्क रु0 5,000.00 प्रति प्रकरण।

31—नगर पंचायत सीमान्तर्गत सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु सीवर सेक्शन मशीन का किराया रु0 2,500.00 प्रथम चक्कर तथा अन्य चक्करों हेतु रु0 2,000.00 प्रति चक्कर शुल्क देय होगा। नगर पंचायत सीमा क्षेत्र से बाहर जाने पर रु0 3,000.00 प्रति चक्कर देय होगा।

32—छोटी बाउण्ड्रीयुक्त या मकानों के मध्य खाली भू-खण्ड पर पड़ोसियों के द्वारा कूड़ा फेंकने को दृष्टिगत रखते हुये उनके द्वारा अपने खाली भू-खण्डों व छोटी बाउण्ड्रीवाल पर न्यूनतम 02 मी0 ऊंची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 2,000.00 प्रति प्रकरण तथा पुनरावृत्ति करने पर सम्बन्धित के खिलाफ एफ0आई0आर0 की जावेगी।

33—नगर पंचायत सीमान्तर्गत चलने वाले ई-रिक्शा का लाइसेंस शुल्क रु0 600.00 वार्षिक प्रति ई-रिक्शा।

34—नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थित मेडिकल स्टोर का लाइसेंस शुल्क रु0 5,000.00 वार्षिक।

35—नगर पंचायत तिन्दवारी, बॉदा की सीमान्तर्गत संचालित निजी स्वामित्व के स्कूल/कालेज पर व्यवसायिक शुल्क निम्न प्रकार से है।

(क) प्लेग्रुप से कक्षा 12 तक शुल्क रु0 5,000.00 वार्षिक।

(ख) डिग्री कालेज पर शुल्क रु0 10,000.00 वार्षिक।

36—नगर पंचायत तिन्दवारी, बॉदा की सीमान्तर्गत जन्म मृत्यु पंजीकरण हेतु शुल्क की दरें निम्न हैं—

(क) 01 वर्ष तक शुल्क रु0 10.00।

(ख) 01 वर्ष से 10 वर्ष तक का बिलम्ब शुल्क रु0 25.00।

(ग) 10 वर्ष से अधिक तक का बिलम्ब शुल्क रु0 50.00।

37—नगर पंचायत तिन्दवारी, बॉदा की सीमान्तर्गत स्थित बियर, देशी शराब एवं विदेशी शराब की दुकानों का लाइसेंस शुल्क (एक वर्ष के लिए) निम्न प्रकार से देय होगा—

(1) बियर की दुकान — रु0 4,000.00 प्रति दुकान।

(2) देशी शराब की दुकान — रु0 5,000.00 प्रति दुकान।

(3) विदेशी शराब की दुकान — रु0 6,000.00 प्रति दुकान।

38—नगर पंचायत तिन्दवारी, बौदा की सीमान्तर्गत भवनों के निर्माण स्वीकृत शुल्क/भवन मानचित्र शुल्क निर्धारण निम्न प्रकार से देय होगा—

क्र०सं०	आवासीय भवन		व्यवसायिक भवन	
	क्षेत्रफल	शुल्क	क्षेत्रफल	शुल्क
1	प्रति वर्ग फिट	रु० 05.00	प्रति वर्ग फिट	रु० 07.00

39—ठेकेदारों के पंजीयन एवं नियंत्रित करने हेतु मानक—

निविदा शुल्क—

(क) 0.00 से 1,00,000 तक	—	रु० 500.00
(ख) 1,00,001 से 5,00,000 तक	—	रु० 1,000.00
(ग) 5,00,000 से 10,00,000 तक	—	रु० 1,500.00
(घ) 10,00,000 से ऊपर	—	रु० 3,000.00

40—सचिव उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-9, शासनादेश सं० 406/नौ-9-1997-95 जनर/96, दिनांक 10 फरवरी, 1997 के अनुपालन में नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

(क) डिश एन्टीना शुल्क—

[1] नगर पंचायत तिन्दवारी, बौदा की सीमान्तर्गत डिश एन्टीना के माध्यम से टी0वी0 प्रसारण किया जाता है या डिश एन्टीना का व्यवसाय किया जाता है।

[2] प्रत्येक डिश एन्टीना स्वामी/साझेदार पर उनके दिये गये कनेक्शनों पर प्रति कनेक्शन शुल्क रु० 20.00 प्रति माह लिया जायेगा।

[3] डिश एन्टीना स्वामी माह के अन्तिम सप्ताह में संचालित कनेक्शन की सूची अनिवार्य रूप से पंचायत में उपलब्ध करायेगा।

[4] कनेक्शनों की जांच/निरीक्षण नगर पंचायत अधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी किया जा सकेगा।

[5] केबिल तार इस प्रकार से लगाया जाये जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना/विद्युत आपूर्ति में बाधा की समस्या न हो।

(ख) विज्ञापन शुल्क—

सचिव, उ०प्र० नगर विकास अनुभाग-9 शासनोदश सं० 618/नौ-9-2012-277-ज/2011, दिनांक 05 अप्रैल 2012 के द्वारा विज्ञापन/प्रचार के सम्बन्ध में दिशा निर्देश—

(1) विज्ञापन एवं विज्ञापन पट के लिए ऐसे स्थल चिन्हित किये जायेंगे जो प्रत्येक स्थिति में निरापद, निर्बाध, गमनागमन और सुगम यातायात के लिए सर्वथा उपयुक्त हो।

(2) विज्ञापन पटों की सुदृढ़ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये, ताकि कोई दुर्घटना न होने पाये।

(3) विज्ञापनों को वृक्षों, बल्लियों, बांस या लकड़ी से बांधा नहीं जायेगा, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापन के आस-पास कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हो और लोक सम्पत्ति किसी प्रकार विरूपित न हो।

(4) व्यक्तिगत सम्पत्ति/भवन पर विज्ञापन शुल्क रु० 04.00 प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह देय होगा।

(5) सार्वजनिक स्थल पर विज्ञापन शुल्क रु० 06.00 प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह देय होगा।

(6) किसी भी विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भी दशा में जनहित व निकाय हित के प्रतिकूल नहीं होने चाहिये, उसमें सम्प्रदर्शित विज्ञापन किसी भी प्रकार से अशिष्ट, अश्लील, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अथवा आपत्तिजनक प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिये।

(7) किसी भी विज्ञापन को नगर पंचायत सीमान्तर्गत लगाने से पहले नगर पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य है।

नगर पंचायत की उपरोक्त दरों को समय-समय पर संशोधित करने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

नोट—उपरोक्त नगर पंचायत तिन्दवारी, बौदा विविधकर शुल्क उपविधि नियमावली, 2021 उ०प्र० राजपत्र में प्रकाशन/मुद्रण की तिथि से प्रभावी होगी। इस उपविधि में उल्लिखित विविधकर की दरों में एवं पूर्व प्रकाशित नगर पंचायत तिन्दवारी, बौदा की उपविधि दरों में कोई विरोधाभास हो तो विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2021 में उल्लिखित दरें प्रभावी मानी जायेंगी।

मुन्नी देवी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, तिन्दवारी,
बौदा।

कार्यालय, नगर पंचायत तिन्दवारी, बाँदा

26 जून, 2021 ई0

सं0 99 / उपविधि / 2021-22-उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) की धारा 298 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी सीमान्तर्गत चलने वाले वाहनों को नियन्त्रित/विनियमित करने हेतु टैक्सी, टैम्पो/सवारी वाहन/भार वाहन स्टैण्ड उपविधि लागू किये जाने हेतु तैयार की गयी है। उक्त अधिनियम की धारा 301(1) के अपेक्षानुसार जनसामान्य के अवलोकनार्थ राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय 02 समाचार-पत्रों में दिनांक 31 जनवरी, 2021 व दिनांक 02 फरवरी, 2021 को प्रकाशन कराकर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, किन्तु नियत समय में कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। तदोपरान्त नगर पंचायत की बोर्ड बैठक दिनांक 26 मार्च, 2021 में प्रस्ताव संख्या 06 के तहत उपविधि का प्रकाशन राजकीय गजट में कराने के पश्चात् में लागू किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

टैक्सी-टैम्पो/सवारी गाड़ी/भार वाहन उपविधि/नियमावली, 2021

उपविधि

उपनियम का प्रारूप-

1-शीर्षक-यह उपविधि टैक्सी, टैम्पो आदि सवारी वाहन एवं भार वाहन स्टैण्ड शुल्क उपविधि नियमावली, 2021 कहलाएगी।

2-यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत तिन्दवारी, बाँदा की सीमा में प्रभावी होगी।

3-परिभाषाएँ-विषय के प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

- (1) "नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत तिन्दवारी, बाँदा से है।
- (2) "नगर पंचायत की सीमाओं" से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित टैक्सी, टैम्पो/सवारी वाहन स्टैण्ड के भविष्य में बढ़ने से निर्धारित से है।
- (3) "अधिकांसी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत तिन्दवारी, बाँदा के अधिकांसी अधिकारी से है।
- (4) "अध्यक्ष" से तात्पर्य नगर पंचायत तिन्दवारी, बाँदा के अध्यक्ष से है तथा निर्वाचित अध्यक्ष के न होने की दशा में प्रभारी अधिकारी से है।
- (5) "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम" का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।
- (6) "वाहनों" का तात्पर्य नगर पंचायत तिन्दवारी, बाँदा की सीमा से गुजरने वाले टैक्सी, टैम्पो/सवारी वाहन व माल लाने व ले जाने वाले वाहनों से है।
- (7) "कर्मचारी" का तात्पर्य नगर पंचायत तिन्दवारी, बाँदा के संस्था से है।
- (8) "सड़क, पटरियों" का तात्पर्य नगर पंचायत तिन्दवारी, बाँदा की सीमा के अन्तर्गत आने वाले भागों प्रान्तों से है।
- (9) "टैक्सी, टैम्पो/सवारी वाहन स्थान" से तात्पर्य इस उपविधि के द्वारा निर्धारित स्टैण्ड/स्थल से होगा।

4-शुल्क का विवरण/अधिरोपण संग्रह नगर पंचायत तिन्दवारी, बाँदा की सीमा के अन्तर्गत स्टैण्ड टैम्पो, टैक्सी, मेटाडोर, जीप, पिकअप, फ़ैमली कैब/मैक्सी कैब, भारी वाहन-बस मिनी ट्रक, ट्रक भार वाहन अन्य डीजल या पेट्रोल से चलने वाले वाहनों जो सवारी उतारने व चढ़ाने एवं ठहरने वाले वाहनों को नियंत्रित करने हेतु उपविधि बनाई जाती है। जिन पर यह शुल्क लागू होंगे।

5-नगर पंचायत तिन्दवारी, बाँदा की सीमा से सवारी भरकर जाने वाले टैक्सी, टैम्पो/सवारी वाहन/भार वाहन जो रोड पटरी का प्रयोग करते हैं, को उपविधि में दर्शायी गई शुल्क नगर पंचायत तिन्दवारी, बाँदा के उस कर्मचारी को देय होगा जिसे इस कार्य हेतु नियुक्त किया गया है, यदि शुल्क की वसूली हेतु ठेका दिया गया हो तो देय धनराशि ठेकेदार को देय होगी।

6-टैक्सी, टैम्पो/सवारी वाहन/भार वाहन की रसीद प्राप्त करने वाले व्यक्ति नगर पंचायत तिन्दवारी के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिकांसी अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा मांगे जाने पर रसीद दिखाने के लिये बाध्य होगा एवं दिखलायेगा, जो जांचोपरान्त उसे विधिवत् वापस दी जायेगी।

7—नगर पंचायत तिन्दवारी अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि कोई टैक्सी, टैम्पो/सवारी वाहन स्टैण्ड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने, बैरियर हटाने परन्तु ऐलान करने के लिए उसे कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचना जारी करना होगा।

8—यदि कोई सवारी वाहन बिना शुल्क अदा किये नगर पंचायत तिन्दवारी, बॉदा की सीमा के अन्दर पाया गया, तो अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत जांच अधिकारी/कर्मचारी को यह अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति से निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त शुल्क कम से कम चार गुना और अधिक से अधिक बीस गुना दण्ड के रूप में धनराशि वसूल कर रसीद देगा।

9—यदि कोई वाहन बिना शुल्क अदा किये भाग जाने पर चालक का पूरा पता अथवा गाड़ी नम्बर, जो भी हो भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता मोटर व्हीकल ऐक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही करने का अधिकारी होगा।

10—यदि नगर पंचायत तिन्दवारी, बॉदा चाहे तो टैक्सी, टैम्पो आदि/सवारी स्टैण्ड शुल्क की वसूली की वार्षिक अथवा पट्टा अभिलेख तक को ठेका दे सकता है। ऐसी स्थित में ठेकेदार निर्धारित दरों पर शुल्क की वसूली की वार्षिक अथवा पट्टा अभिलेख तक को ठेका दे सकता है। ऐसी स्थित में ठेकेदार निर्धारित दरों पर शुल्क वसूल कर रसीद नियमानुसार जारी करेगा तथा स्टैण्ड शुल्क की वसूली भू-राजस्व की भांति की जा सकेगी।

शुल्क से मुक्ति

11—निम्न वाहन टैक्सी, टैम्पो/सवारी स्टैण्ड शुल्क से मुक्त होंगे—

- (1) डेडबाडी ले जाने वाले समस्त वाहन एवं एम्बुलेंस।
- (2) सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर उनका घरेलू वाहन जो स्टैण्ड से होकर गुजरेंगे प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।
- (3) अन्य सरकारी वाहन (रोडवेज व अन्य वाहन) जो सरकारी ड्यूटी पर हों, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध

1—बबेरू रोड से आने व जाने वाले वाहन टैम्पो, टैक्सी, मेटाडोर जीप, पिकअप, फैमली कैब/मैक्सी कैब, भारी वाहन—बस, मिनी ट्रक, ट्रक भार वाहन के ठहरने का स्थान मुख्य तिराहा से बबेरू रोड में बुडढन तालाब के पास।

2—पपरेन्दा रोड से आने व जाने वाले वाहन टैम्पो, टैक्सी, मेटाडोर जीप, पिकअप, फैमली कैब/मैक्सी कैब, भारी वाहन—बस, मिनी ट्रक, ट्रक भार वाहन के ठहरने का स्थान मुख्य तिराहा से पपरेन्दा रोड में पशु चिकित्सालय के पास।

3—भिड़ौरा रोड से आने वाले व जाने वाले वाहन टैम्पो, टैक्सी, मेटाडोर जीप, पिकअप, फैमली कैब/मैक्सी कैब, भारी वाहन—बस, मिनी ट्रक, ट्रक भार वाहन के ठहरने का स्थान मुख्य चौराहे से भिड़ौरा रोड में बी0आर0सी0 भवन के पास।

4—बॉदा रोड से आने व जाने वाले वाहन टैम्पो, टैक्सी, मेटाडोर, जीप पिकअप, फैमली कैब/मैक्सी कैब, भारी वाहन—बस, मिनी ट्रक, ट्रक भार वाहन के ठहरने का स्थान बॉदा रोड में दक्षिणी सोसाईटी के पास।

शुल्क का विवरण

नगर पंचायत तिन्दवारी स्टैण्ड एवं ठहरने वाले वाहनों से निम्न सारणी के अनुसार शुल्क वसूली करेगी—

क्र० सं०	वाहनों का प्रकार	दरें
1	2	3
		रु०
1	प्रत्येक मोटर, मोटर लारी, बस, डीजल, पेट्रोल से चलने वाले भारी सवारी वाहन आदि	4.00 प्रति ट्रिप
2	मिनी बस	30.00 प्रति ट्रिप
3	टैक्सी, टैम्पो, तिपहिया, जिप्सी, टाटा सूमों, टाटा मैजिक, कैम्पर, पिकअप व मैक्सी कैब, फैमली कैब व चार पहिया के अन्य वाहन	20.00 प्रति ट्रिप
4	ट्रक भार वाहन	100.00 प्रति ट्रिप
5	मिनी ट्रक/अन्य भार ढोने वाले वाहन	50.00 प्रति ट्रिप

मुन्नी देवी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत तिन्दवारी, बॉदा।

कार्यालय, नगर पंचायत तिन्दवारी, बांदा

26 जून, 2021 ई0

सं0 100/ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-उपविधि-2021/2021-22-नगरीय पंचायत तिन्दवारी, बांदा नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 2016 व नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर को स्वच्छ बनाये रखने के लिये नगर पंचायत तिन्दवारी, बांदा अपनी सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि/नियमावली, 2021 प्रस्तावित करती है। उक्त अधिनियम की धारा 301 (1) के अपेक्षानुसार जनसामान्य के अवलोकनार्थ राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय प्रकाशित दो समाचार-पत्रों में दिनांक 01 मार्च, 2021 व 27 फरवरी, 2021 को प्रकाशन कराकर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, किन्तु नियत समय में कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। तदोपरान्त नगर पंचायत की बोर्ड बैठक दिनांक 26 मार्च, 2021 में प्रस्ताव संख्या 04 के तहत उपविधि का प्रकाशन राजकीय गजट में कराने के पश्चात् लागू किये जाने की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि/नियमावली, 2021

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 व नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर को स्वच्छ बनाये रखने के लिये नगर पंचायत तिन्दवारी, जनपद बांदा निम्नानुसार नियमावली बनाने का प्रस्ताव करती है, जो नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, नियमावली, 2021 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

1-**संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रारम्भ**-(1) यह उपविधि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि/नियमावली, 2021 कहलायेगी।

(2) यह नगर पंचायत तिन्दवारी, जनपद बांदा की सीमान्तर्गत प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत तिन्दवारी, जनपद बांदा में प्रवृत्त होगी।

2-**परिभाषाएँ**—विषय या प्रसंग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जाये—

(1) अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(2) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत तिन्दवारी, जनपद बांदा के अधिशासी अधिकारी से है।

(3) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत तिन्दवारी, जनपद बांदा से है।

(4) अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत तिन्दवारी, जनपद बांदा के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

3-नियमावली में दी गई तालिका में वर्णित मदों पर निर्धारित धनराशि को नगर पंचायत तिन्दवारी, बांदा की सीमा में रहते हुए प्रतिदिन/प्रतिघटना शुल्क के रूप में देना होगा।

4-नियमावली में दी गई तालिका में वर्णित मदों पर शुल्क दिये जाने की सूची तैयार करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत तिन्दवारी, बांदा को होगा।

5-अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे प्रत्येक 5 वर्ष में उपविधि का पुनरीक्षण करायेंगे अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि उपविधि का पुनरीक्षण न हो सकता हो तो प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धारित चार्ज से 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए शुल्क वसूलना सुनिश्चित करायेंगे :

क्र0 सं0	कृत्य	नगर पंचायत द्वारा आरोपित धनराशि
1	2	3
		रु0
1	आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	500.00 प्रतिदिन
2	दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	550.00 प्रतिदिन
3	रेस्टोरेन्ट मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1,500.00 प्रतिदिन
4	होटल मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	2,500.00 प्रतिदिन
5	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1,000.00 प्रतिदिन
6	हलवाई, चाट पकौड़ी, फास्ट फूड आइसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	500.00 प्रतिदिन
7	गोबर सार्वजनिक स्थानों में डालने पर	2,000.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रु0
8	निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर पंचायत की सड़क पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
9	सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चार दीवारी की दीवारों व उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारों ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)	1,000.00 प्रतिदिन
10	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर तथा नाली तोड़ने की दशा में	1,500.00 प्रतिदिन
11	अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नही लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर	500 प्रतिदिन तथा मरम्मत चार्ज
12	क्रमांक 2 से 6 तक वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नही रखने पर	1,000.00 प्रतिदिन
13	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साइकिल रिपेयरिंग कर ऑयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर	500.00 प्रतिदिन
14	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियाँ, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर	500.00 प्रतिदिन
15	आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊँट, गधा, घोड़ा सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर	500.00 प्रतिदिन
16	शादी/विवाह स्थलों के बाहर खुले में कचरा डालने पर	500 प्रतिदिन
17	आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुलेआम मांस-मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
18	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बेंचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
19	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर	100.00 प्रतिदिन
20	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर, भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर	200.00 प्रतिदिन
21	आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर जूते, चप्पल, खाद्य सामग्री बेचना, भोजनालय ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	2,500.00 प्रतिदिन
22	प्राइवेट आस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना इत्यादि द्वारा आम रास्तों, सड़क फुटपाथ पर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर	500.00 प्रतिदिन
23	सड़क के किनारे वाशिंग मशीन लगाकर गाड़ियों की धुलाई करने की दशा में	1,500.00 प्रतिदिन
24	विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों जैसे प्राइवेट आस्पताल नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी इत्यादि के जैब चिकित्सीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर	तथा पानी का कनेक्शन काटने का चार्ज
25	खुले में शौच करने पर	500.00 प्रतिदिन
26	खुले में पेशाब करने पर	100.00 प्रतिदिन
27	व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर नीला एवं हरा डस्टबिन न रखने पर	100.00 प्रतिदिन
28	पान मसाला/गुटखा इत्यादि की पीक सड़क, पटरी, दीवार व सरकारी भवन में थूकने व धूम्रपापन करने पर	पहली बार पाये जाने पर रु0 100.00 दोबारा पाये जाने पर रु0 500.00
29	नाली में कूड़ा/कचरा इत्यादि डालकर नाली अवरुद्ध करने पर	200.00 प्रति घटना
30	घरेलू (तेजाब, हारपिक, सेनेटरी पैड इत्यादि) तथा विनाशकारी इलेक्ट्रॉनिक कचरा खुले में डालने पर	200.00 प्रति घटना

1	2	3
		रु0
31	खाली प्लाट में सॉलिड वेस्ट (कचरा, गोबर इत्यादि) फैलाने पर	1,000.00 प्रति घटना
32	बल्क बेस्ट उत्पादक द्वारा अपने परिक्षेत्र में कचरा फैलाने/इधर-उधर फेंकने तथा आग लगाने इत्यादि पर	3,000.00 प्रति घटना
33	मकान को तोड़ फोड़/पुनः निर्माण/नवनिर्माण से उत्पन्न कचरे को खाली प्लाट/सरकारी भूमि तथा इधर उधर फेंकने पर	1,000.00 प्रतिदिन
34	गीले एवं सूखे कूड़े को पृथक-पृथक न देने पर	100.00 प्रतिदिन घरेलू 5,000.00 प्रति घटना (मैरिज होम, वैवाहिक स्थल प्रति हॉल इत्यादि) रु0 5,000.00 प्रति घटना (व्यवसायिक स्थल)
35	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की धारा के अन्तर्गत नगर पंचायत सीमान्तर्गत कूड़ा जलाने पर	5,000.00 का जुर्माना प्रति घटना तत्काल वसूल किया जायेगा
36	मा0 उच्च न्यायालय की सुनवाई दिनांक 09 नवम्बर 2016 पर नगर विकास अनुभाग के आदेश संख्या 3595-नौ-5-2016-29 रिट/2014 दिनांक 08 नवम्बर 2016 एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की धारा के अन्तर्गत नगर पंचायत सीमान्तर्गत भवन निर्माण सामग्री (C&D) को सड़क फुटपाथ, खाली प्लाट में डालने पर नोटिस के एक सप्ताह बाद	50,000.00 प्रति घटना
37	उ0प्र0 विकास अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या 1056/9-7-18-19 (लखनऊ) 18, दिनांक 15 जुलाई 2018 के अनुपालन में 50 माइक्रोन से कम घनत्व के प्लास्टिक कैंरी बैगों और 50 अथवा उससे अधिक माइक्रोन के घनत्व के निस्तारण योग्य कैंरी बैग जिनके विनिर्माता का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या न हो के उपयोग तथा प्लास्टिक या थर्माकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों, टक्करों का विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात करते हुये पकड़े जाने पर।	100 ग्राम तक रु0 1,000.00, 101 ग्राम से 500 ग्राम तक रु0 2,000.00, 501 ग्राम-1कि0ग्रा0 तक रु0 5,000.00, 1 कि0ग्रा0-5 कि0ग्रा0 तक रु0 10,000.00 5 कि0ग्रा0 से अधिक रु0 25,000.00

दण्ड

उपरोक्त शुल्क प्रथम बार उल्लंघन करने पर आरोपित किया जायेगा। घटना की पुनरावृत्ति करने पर 2 से 3 गुना तक वसूल किया जायेगा। जुर्माना लगाये जाने का अधिकार अधिशासी अधिकारी अथवा अध्यक्ष, नगर पंचायत तिन्दवारी, बाँदा में निहित होगा।

मुन्नी देवी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, तिन्दवारी,
बाँदा।

कार्यालय, नगर पंचायत बिसण्डा, बांदा

03 जुलाई, 2021 ई0

सं0 33/न0प0बिसण्डा/2021-22-नगरीय पंचायत बिसण्डा, बांदा द्वारा नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 2016 व विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2020 में निहित प्राविधानों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर को स्वच्छ बनाये रखने के लिये नगर पंचायत बिसण्डा, बांदा अपनी सीमान्तर्गत "विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2021" प्रस्तावित करती है। उक्त अधिनियम की धारा 301(1) के अपेक्षानुसार जनसामान्य के अवलोकनार्थ राज्य स्तरीय दो समाचार-पत्र एवं जनपद स्तरीय एक समाचार-पत्र में दिनांक 04 फरवरी, 2021, व 04 फरवरी, 2021 को प्रकाशन कराकर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, किन्तु नियत समय में कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। तदोपरान्त नगर पंचायत की बोर्ड बैठक 29 दिसम्बर, 2020 में प्रस्ताव संख्या 02 के तहत उपविधि का प्रकाशन राजकीय गजट में कराने के पश्चात् लागू किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2021**1-संक्षिप्त नाम प्रकार एवं प्रारम्भ-**

(1) यह उपविधि "विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2021" कहलायेगी।

(2) यह नगर पंचायत बिसण्डा, जनपद बांदा की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत बिसण्डा, जनपद बांदा में प्रभावी होगी।

2-परिभाषाएँ-

उपरोक्त नियमावली में विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जायेगा-

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(2) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत, बिसण्डा, जनपद बांदा से है।

(3) "अध्यक्ष/प्रशासक" का तात्पर्य नगर पंचायत बिसण्डा, जनपद बांदा से अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(4) "अधिशाली अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत, बिसण्डा, जनपद बांदा के अधिशाली अधिकारी से है।

(5) "लाइसेंसिंग अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत, बिसण्डा, बांदा के अधिशाली अधिकारी से है।

(6) "कर अधीक्षक/राजस्व निरीक्षक" का तात्पर्य नगर पंचायत बिसण्डा, बांदा के कर अधीक्षक/राजस्व निरीक्षक से है।

3-विविधकर/शुल्क की दरें-(1) अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण/नामान्तरण पर शुल्क-

(क) वरासतन/रजिस्टर्ड वसीयत/न्यायालय निर्णय/रजिस्टर्ड हिबानामा के आधार पर नामान्तरण शुल्क रु0 1,000.00।

(ख) रु0 01 से 49,999 बाजारु मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क रु0 100.00

(ग) रु0 50,000 से 99,999 बाजारु मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 200.00

(घ) रु0 1,00,000 से 2,99,999 बाजारु मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 300.00

(ङ.) रु0 3,00,000 से 4,99,999 बाजारु मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 500.00

(च) रु0 5,00,000 से 9,99,999 बाजारु मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 1,000.00

(छ) रु0 10,00,000 से 14,99,999 बाजारु मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 2,000.00

(ज) रु0 15,00,000 से 19,99,999 बाजारु मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 8,000.00

(झ) रु0 20,00,000 से अधिक बाजारु मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 10,000.00

उपरोक्त समस्त प्रकरणों में तत्काल नामान्तरण करना आवश्यक होगा अन्यथा की स्थिति में रु0 100.00 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा।

4-सड़क, नाला, नाली या सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 10.00 प्रति प्रकरण।

5-सड़क, नाला, नाली या सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने की पुनरावृत्ति करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 10.00 प्रति प्रकरण।

6-डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु शुल्क रु0 10.00 प्रति माह (प्रति भवन)।

7-नगर सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर शुल्क रु0 10.00 प्रति व्यक्ति।

8-सड़क के किनारे (पटरी एवं नाली पर) जानवर बांधने एवं अतिक्रमण करने पर रु0 500.00 जुर्माना प्रति प्रकरण। पुनरावृत्ति करने पर सम्बन्धित के खिलाफ एफ0आई0आर0 की जायेगी।

9-सड़क के किनारे मौरंग, बालू, ईट भवन सामग्री पाये जाने पर, नालियों के ऊपर अतिक्रमण, सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने पर शुल्क रु0 500.00 प्रतिदिन, प्रतिप्रकरण 20 वर्गफुट तक, 20 वर्गफुट से अधिक होने पर रु0 1,000.00 प्रतिदिन प्रति प्रकरण देय होगा।

10-जे0सी0बी0 मशीन व्यक्तिगत उपयोग हेतु किराया शुल्क रु0 1,000.00 प्रति घण्टा।

11-नगर पंचायत के मोबाइल टॉयलेट किराया शुल्क रु0 1,000.00 प्रति दिन (08 घण्टे हेतु)।

- 12—नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थित रेस्टोरेन्ट/ढाबा पर व्यवसायिक शुल्क रु0 1,500.00 वार्षिक।
- 13—नगर पंचायत सीमा में स्थित पेट्रोल पम्प पर व्यवसायिक शुल्क रु0 12,000.00 वार्षिक।
- 14—नगर पंचायत सीमा में स्थित कोचिंग संस्थानों पर व्यवसायिक शुल्क रु0 1,200.00 वार्षिक।
- 15—नगर पंचायत सीमा में व्यवसाय करने वाले गेस्ट हाउस/विवाह घर/पैलेस आदि पर व्यवसायिक शुल्क रु0 6,000.00 वार्षिक।
- 16—पैलेस/विवाह घर/गेस्ट हाउस पर स्वच्छता शुल्क रु0 500.00 प्रति कार्यक्रम। नगर पंचायत को सूचना न देने पर कचड़ा इधर-उधर फेंकने पर रु0 1,000.00 का जुर्माना देय होगा। पुनरावृत्ति पर रु0 2,000.00 जुर्माना देय होगा।
- 17—नगर पंचायत के सीमा के अन्दर रोड कटिंग हेतु नगर पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जिसका शुल्क रु0 1,000.00 प्रति रोड कटिंग होगा।
- 18—नगर पंचायत दुकानों की किरायेदारी में नाम परिवर्तन निम्न प्रकार से किया जायेगा—
- (क) विरासतन (मूल आवंटी की मृत्यु के उपरान्त उसके विधिक उत्तराधिकारी) सरकारी मूल्य का 25% प्रीमियम धनराशि जमा करना होगा तथा 90 दिन के अन्दर नाम परिवर्तन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में रु0 500.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा एवं वर्तमान किराये में 50% की वृद्धि अनिवार्य होगी।
- (ख) नगर पंचायत दुकानों की किरायेदारी में प्रति 03 वर्ष में 12.5% की वृद्धि की जायेगी।
- (ग) नगर पंचायत दुकानों के निर्माण/पुनः निर्माण में पूर्व आकार में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। सुपर वीजन शुल्क नगर पंचायत कोष में रु0 25,000.00 जमा करने के उपरान्त नगर पंचायत द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी तथा किराये में 50% की वृद्धि की जायेगी।
- 19—नगर पंचायत सीमा में स्थापित टॉवरों पर व्यवसायिक शुल्क रु0 24,000.00 वार्षिक।
- 20—नगर पंचायत सीमान्तर्गत श्वान/कुत्ता पालकों को नगर पंचायत नरैनी, बौदा के कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, पंजीकरण शुल्क रु0 100.00 प्रतिवर्ष प्रति श्वान/कुत्ता।
- 21—सड़क के किनारे (पटरी एवं नाली पर) जानवर बांधने एवं अतिक्रमण करने पर रु0 500.00 जुर्माना प्रति प्रकरण पुनरावृत्ति करने पर सम्बन्धित के खिलाफ एफ0आई0आर0 की जायेगी।
- 22—कान्हा गौशाला/कांजी हाउस में रखे जाने वाले छोटे जानवर का खुराकी रु0 50.00 प्रतिदिन प्रति जानवर।
- 23—कान्हा गौशाला/कांजी हाउस में रखे जाने वाले बड़े जानवर का खुराकी रु0 100.00 प्रतिदिन प्रति जानवर।
- 24—कान्हा गौशाला/कांजी हाउस में बंद किये गये निजी पशु पालकों के गोवंश/जानवर छुड़ाने पर रु0 500.00 प्रति गोवंश/जानवर जुर्माना/शुल्क देय होगा।
- 25—नगर पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली ट्रांसफार्मर पर शुल्क रु0 1,000.00 वार्षिक प्रति ट्रांसफार्मर।
- 26—नगर पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस/सबस्टेशन पर शुल्क रु0 10,000.00 वार्षिक।
- 27—मुर्गा, मछली, भैंसा, बकरा, व अन्य मीट की दुकान हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की फीस रु0 2,000.00 वार्षिक।
- 28—नगर पंचायत सीमा में स्थित नाला, नाली, सड़क अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000.00 तथा पुनरावृत्ति करने पर शुल्क रु0 5,000.00 प्रति प्रकरण।
- 29—नगर पंचायत सीमान्तर्गत सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु सीवर सेक्शन मशीन का किराया रु0 2,500.00 प्रथम चक्कर तथा अन्य चक्करों हेतु रु0 2,000.00 प्रति चक्कर शुल्क देय होगा। नगर पंचायत सीमा क्षेत्र से बाहर जाने पर रु0 5,000.00 प्रति चक्कर देय होगा।
- 30—छोटी बाउण्ड्रीयुक्त या मकानों के मध्य खाली भू-खण्ड पर पड़ोसियों के द्वारा कूड़ा फेंकने को दृष्टिगत रखते हुये उनके द्वारा अपने खाली भू-खण्डों व छोटी बाउण्ड्रीवाल पर न्यूनतम 02 मी0 ऊंची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण।
- 31—नगर पंचायत सीमान्तर्गत चलने वाले ई-रिक्शा का लाइसेंस शुल्क रु0 600.00 वार्षिक।
- 32—नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थित मेडिकल स्टोर का लाइसेंस शुल्क रु0 2,000.00 वार्षिक।
- 33—नगर पंचायत बिसण्डा, बौदा की सीमान्तर्गत संचालित निजी स्वामित्व के स्कूल/कालेज पर व्यवसायिक शुल्क रु0 1.00 प्रति छात्र वार्षिक।

34-नगर पंचायत बिसण्डा, बौदा की सीमान्तर्गत स्थित बियर, देशी शराब एवं विदेशी शराब की दुकानों का लाइसेंस शुल्क (एक वर्ष के लिए) निम्न प्रकार से देय होगा—

(1) बियर की दुकान	—	रु0 10,000.00 प्रति दुकान ।
(2) देशी शराब की दुकान	—	रु0 12,000.00 प्रति दुकान ।
(3) विदेशी शराब की दुकान	—	रु0 15,000.00 प्रति दुकान ।

35-नगर पंचायत बिसण्डा, बौदा की सीमान्तर्गत भवनों के निर्माण स्वीकृत शुल्क/भवन मानचित्र शुल्क निर्धारण निम्न प्रकार से देय होगा—

क्र0सं0	आवासीय भवन		व्यवसायिक भवन	
	क्षेत्रफल	शुल्क	क्षेत्रफल	शुल्क
1	प्रति वर्ग फिट	रु0 01.00	प्रति वर्ग फिट	रु0 02.00

36-ठेकेदारों के पंजीयन एवं नियंत्रित करने हेतु मानक—

निविदा शुल्क—

(क) 0.00 से 1,00,000 तक	—	रु0 100.00
(ख) 1,00,001 से 5,00,000 तक	—	रु0 500.00
(ग) 5,00,000 से 10,00,000 तक	—	रु0 1,000.00
(घ) 10,00,000 से ऊपर	—	रु0 2,000.00

37-सचिव उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-9, शासनादेश सं0 406/नौ-9-1997-95 जनर/96, दिनांक 10 फरवरी, 1997 के अनुपालन में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

(क) **डिश एन्टीना शुल्क—**

[1] नगर पंचायत बिसण्डा, बौदा की सीमान्तर्गत डिश एन्टीना के माध्यम से टी0वी0 प्रसारण किया जाता है या डिश एन्टीना का व्यवसाय किया जाता है।

[2] प्रत्येक डिश एन्टीना स्वामी/साझेदार पर उनके दिये गये कनेक्शनों पर प्रति कनेक्शन शुल्क रु0 20.00 प्रति माह लिया जायेगा।

[3] डिश एन्टीना स्वामी माह के अन्तिम सप्ताह में संचालित कनेक्शन की सूची अनिवार्य रूप से पंचायत में उपलब्ध करायेगा।

[4] कनेक्शनों की जांच/निरीक्षण नगर पंचायत अधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी किया जा सकेगा।

[5] केबिल तार इस प्रकार से लगाया जाये जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना/विद्युत आपूर्ति में बाधा की समस्या न हो।

(ख) **विज्ञापन शुल्क—**

सचिव, उ0प्र0 नगर विकास अनुभाग-9 शासनोद्देश सं0 618/नौ-9-2012-277-ज/2011, दिनांक 05 अप्रैल 2012 के द्वारा विज्ञापन/प्रचार के सम्बन्ध में दिशा निर्देश—

(1) विज्ञापन एवं विज्ञापन पट के लिए ऐसे स्थल चिन्हित किये जायेंगे जो प्रत्येक स्थिति में निरापद, निर्बाध, गमनागमन और सुगम यातायात के लिए सर्वथा उपयुक्त हो।

(2) विज्ञापन पटों की सुदृढ़ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये, ताकि कोई दुर्घटना न होने पाये।

(3) विज्ञापनों को वृक्षों, बल्लियों, बांस या लकड़ी से बांधा नहीं जायेगा, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापन के आस-पास कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हो और लोक सम्पत्ति किसी प्रकार विरूपित न हो।

(4) व्यक्तिगत सम्पत्ति/भवन पर विज्ञापन शुल्क रु0 04.00 प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह देय होगा।

(5) सार्वजनिक स्थल पर विज्ञापन शुल्क रु0 06.00 प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह देय होगा।

(6) किसी भी विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भी दशा में जनहित व निकाय हित के प्रतिकूल नहीं होने चाहिये, उसमें सम्प्रदर्शित विज्ञापन किसी भी प्रकार से अशिष्ट, अश्लील, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अथवा आपत्तिजनक प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिये।

(7) किसी भी विज्ञापन को नगर पंचायत सीमान्तर्गत लगाने से पहले नगर पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य है।

नगर पंचायत की उपरोक्त दरों को समय-समय पर संशोधित करने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

नोट—उपरोक्त नगर पंचायत बिसण्डा, बौदा विविधकर शुल्क उपविधि नियमावली, 2019 उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन/मुद्रण की तिथि से प्रभावी होगी। इस उपविधि में उल्लिखित विविधकर की दरों में एवं पूर्व प्रकाशित नगर पंचायत बिसण्डा, बौदा की उपविधि दरों में कोई विरोधाभास हो तो विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019 में उल्लिखित दरें प्रभावी मानी जायेंगी।

ह0 (अस्पष्ट),

अध्यक्ष,

नगर पंचायत, बिसण्डा,

बांदा।

कार्यालय, नगर पंचायत बिसण्डा, बाँदा

03 जुलाई, 2021 ई0

सं0 34/न0पं0बिसण्डा/2021-22—“नगरीय पंचायत बिसण्डा बाँदा द्वारा नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 2016 व नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर को स्वच्छ बनाये रखने के लिये नगर पंचायत बिसण्डा, बाँदा अपनी सीमान्तर्गत “नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि/नियमावली, 2021” प्रस्तावित करती है। उक्त अधिनियम की धारा 301(1) के अपेक्षानुसार जनसामान्य के अवलोकनार्थ राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय प्रकाशित दो समाचार-पत्रों में दिनांक 19 जनवरी, 2021 व 19 जनवरी 2021 को प्रकाशन कराकर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, किन्तु नियत समय में कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। तदोपरान्त नगर पंचायत की बोर्ड बैठक 29 दिसम्बर, 2020 में प्रस्ताव संख्या 01 के तहत उपविधि का प्रकाशन राजकीय गजट में कराने के पश्चात् लागू किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

प्रस्ताव

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में वर्णित सूची के अन्तर्गत नियमावली में दी गयी नगर पंचायत के अनुसार ठोस अपशिष्ट शुल्क आरोपित उपविधियां।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, नियमावली/उपविधियां

1—संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रारम्भ और आवृत्ति।

2—यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

परिभाषाएँ—5 विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल होने पर इस नियमावली में—

(क) अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत बिसण्डा, जनपद बाँदा से है।

(ग) शुल्क का तात्पर्य नगर पंचायत में वर्णित मदों पर लगाये गये शुल्क से है।

(घ) प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशाली अधिकारी का तात्पर्य प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशाली अधिकारी नगर पंचायत बिसण्डा, जनपद बाँदा से है।

(ङ) निरीक्षणकर्ता से तात्पर्य कर निरीक्षक या जिसको नगर पंचायत बिसण्डा, जनपद बाँदा द्वारा अधिकृत किया गया हो।

3—नियमावली में दी गई तालिका में वर्णित मदों पर निर्धारित धनराशि को नगर पंचायत नरैनी, जनपद बाँदा की सीमा में रहते हुए प्रतिदिन/प्रतिघटना शुल्क के रूप में देना होगा।

4—नियमावली में दी गई तालिका में वर्णित मदों पर शुल्क दिये जाने की सूची तैयार करने का अधिकार अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत बिसण्डा, जनपद बाँदा को होगा।

5—अधिशाली अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे प्रत्येक 5 वर्ष में उपविधि का पुनरीक्षण करायेंगे अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि उपविधि का पुनरीक्षण न हो सकता हो तो प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धारित चार्ज से 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए शुल्क वसूलना सुनिश्चित करायेंगे।

क्र0सं0	कृत्य	नगर पंचायत द्वारा आरोपित धनराशि
1	2	3
		रु0
1	आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	50.00 प्रतिदिन
2	दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	50.00 प्रतिदिन
3	रेस्टोरेन्ट मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	500.00 प्रतिदिन
4	होटल मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1,000.00 प्रतिदिन
5	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1,000.00 प्रतिदिन
6	हलवाई, चाट पकौड़ी, फास्ट फूड आइसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	100.00 प्रतिदिन
7	गोबर सार्वजनिक स्थानों में डालने पर	100.00 प्रतिदिन
8	निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर पंचायत की सड़क पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	100.00 प्रतिदिन
9	सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चार दीवारी की दीवारों व उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारों ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)	100.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रु0
10	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर तथा नाली तोड़ने की दशा में	200.00 प्रति वर्ग फुट
11	अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर	200.00 प्रतिदिन तथा मरम्मत चार्ज
12	क्रमांक 2 से 6 तक वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर	100.00 प्रतिदिन
13	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साइकिल रिपेयरिंग कर ऑयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर	100.00 प्रतिदिन
14	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियाँ, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर	100.00 प्रतिदिन
15	आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊँट, गधा, घोड़ा सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर	100.00 प्रतिदिन
16	शादी/विवाह स्थलों के बाहर खुले में कचरा डालने पर	200.00 प्रतिदिन
17	आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुलेआम मॉस-मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	200.00 प्रतिदिन
18	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बेंचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	200.00 प्रतिदिन
19	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर	50.00 प्रतिदिन
20	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर, भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर	500.00 प्रतिदिन
21	आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर जूते, चप्पल, खाद्य सामग्री बेचना, भोजनालय ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	250.00 प्रतिदिन
22	प्राइवेट आस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना इत्यादि द्वारा आम रास्तों, सड़क फुटपाथ पर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर	200.00 प्रतिदिन
23	सड़क के किनारे वाशिंग मशीन लगाकर गाड़ियों की धुलाई करने की दशा में	200.00 प्रतिदिन
24	विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों जैसे प्राइवेट आस्पताल नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी इत्यादि के जैब चिकित्सीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर	200.00 प्रतिदिन तथा पानी का कनेक्शन काटने का चार्ज
25	खुले में शौच करने पर	50.00 प्रतिदिन
26	खुले में पेशाब करने पर	10.00 प्रतिदिन
27	व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर नीला एवं हरा डस्टबिन न रखने पर	10.00 प्रतिदिन
28	पान मसाला/गुटखा इत्यादि की पीक सड़क, पटरी, दीवार व सरकारी भवन में थूकने व धूम्रपान करने पर	पहली बार पाये जाने पर 100.00 दोबारा पाये जाने पर 500.00
29	नाली में कूड़ा/कचरा इत्यादि डालकर नाली अवरुद्ध करने पर	100.00 प्रति घटना
30	घरेलू (तेजाब, हारपिक, सेनेटरी पैड इत्यादि) तथा विनाशकारी इलेक्ट्रॉनिक कचरा खुले में डालने पर	100.00 प्रति घटना
31	खाली प्लाट में सॉलिड वेस्ट (कचरा, गोबर इत्यादि) फैलाने पर	100.00 प्रति घटना
32	बल्क बेस्ट उत्पादक द्वारा अपने परिक्षेत्र में कचरा फैलाने/इधर-उधर फेंकने तथा आग लगाने इत्यादि पर	500.00 प्रति घटना
33	मकान को तोड़ फोड़/पुनः निर्माण/नवनिर्माण से उत्पन्न कचरे को खाली प्लाट/सरकारी भूमि तथा इधर उधर फेंकने पर	100.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रु0
34	गीले एवं सूखे कूड़े को पृथक-पृथक न देने पर	20.00 प्रतिदिन घरेलू 5,000.00 प्रति घटना (मैरिज होम, वैवाहिक स्थल प्रति हॉल इत्यादि) 5,000.00 प्रति घटना (व्यवसायिक स्थल)
35	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की धारा के अन्तर्गत नगर पंचायत सीमान्तर्गत कूड़ा जलाने पर	100.00 का जुर्माना प्रति घटना तत्काल वसूल किया जायेगा
36	मा0 उच्च न्यायालय की सुनवाई दिनांक 09 नवम्बर 2016 पर नगर विकास अनुभाग के आदेश संख्या 3595-नौ-5-2016-29 रिट/2014, दिनांक 08 नवम्बर 2016 एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की धारा के अन्तर्गत नगर पंचायत सीमान्तर्गत भवन निर्माण सामग्री (C&D) को सड़क फुटपाथ, खाली प्लाट में डालने पर नोटिस के एक सप्ताह बाद	300.00 प्रति घटना
37	उ0प्र0 विकास अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या 1056/9-7-18-19 (लखनऊ)-18, दिनांक 15 जुलाई 2018 के अनुपालन में 50 माइक्रोन से कम घनत्व के प्लास्टिक कैंरी बैगों और 50 अथवा उससे अधिक माइक्रोन के घनत्व के निस्तारण योग्य कैंरी बैग जिनके विनिर्माता का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या न हो के उपयोग तथा प्लास्टिक या थर्मोकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों, टक्करों का विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात करते हुये पकड़े जाने पर	100 ग्राम तक रु0 1,000.00 101 ग्राम—500 ग्राम तक रु0 2000.00, 501 ग्राम—1 कि0ग्रा0 तक रु0 5000.00, 1 कि0ग्रा0—5 कि0ग्रा0 तक रु0 10,000.00 5 कि0ग्रा0 से अधिक रु0 25,000.00

दण्ड

उपरोक्त शुल्क प्रथम बार उल्लंघन करने पर आरोपित किया जायेगा। घटना की पुनरावृत्ति करने पर 2 से 3 गुना तक वसूल किया जायेगा। जुर्माना लगाये जाने का अधिकार अधिशासी अधिकारी अथवा अध्यक्ष, नगर पंचायत बिसण्डा, जनपद बाँदा में निहित होगा।

ह0 (अस्पष्ट),

अध्यक्ष,

नगर पंचायत, बिसण्डा,

जनपद बाँदा।

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

05 जुलाई, 2021 ई0

सं0 2649/2021—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 04 जुलाई, 2021 को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन में श्री श्रीश कुमार मेहरोत्रा, एडवोकेट, बरेली को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद पर एवं श्री प्रदीप कुमार सिंह, एडवोकेट, लखनऊ व श्री राकेश पाठक, एडवोकेट, हाईकोर्ट, इलाहाबाद को उपाध्यक्ष पद पर नियमानुसार निर्वाचित घोषित किया गया।

श्री श्रीश कुमार मेहरोत्रा, एडवोकेट, बरेली का कार्यकाल दिनांक 06 जुलाई, 2021 से 05 जुलाई, 2022 तक अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के रूप में प्रभावी रहेगा तथा श्री प्रदीप कुमार सिंह, एडवोकेट, लखनऊ का कार्यकाल प्रथम 6 माह अर्थात् 06 जुलाई, 2021 से 05 जनवरी, 2022 तक तथा श्री राकेश पाठक का कार्यकाल द्वितीय 6 माह के लिये अर्थात् 06 जनवरी, 2022 से 05 जुलाई, 2022 तक उपाध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के रूप में प्रभावी रहेगा।

श्री श्रीश कुमार मेहरोत्रा, एडवोकेट, बरेली, श्री प्रदीप कुमार सिंह, एडवोकेट, लखनऊ एवं श्री राकेश पाठक, एडवोकेट, हाईकोर्ट, इलाहाबाद का पता फोन नम्बर सहित निम्नवत् है—

1—श्री श्रीश कुमार मेहरोत्रा, एडवोकेट,
अध्यक्ष,
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश,
नि0 मकान नं0 35-ए, सिविल लाइन्स, निकट चौकी चौराहा,
रामपुर गार्डन, जिला बरेली।

ई-मेल : mehrotrashirish@gmail.com
मोबाइल: 9719500007
पंजीकरण संख्या : यू0पी0 00243 / 1997

2—श्री प्रदीप कुमार सिंह, एडवोकेट,
उपाध्यक्ष,
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश,
नि0 एम एस-2/12, सेक्टर-ए, सीतापुर रोड योजना,
जिला लखनऊ।

ई-मेल : pksingh-adv@yahoo.com
मोबाइल: 9415003907
पंजीकरण संख्या : यू0पी0 01194 / 1999

3—श्री राकेश पाठक, एडवोकेट,
उपाध्यक्ष,
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश,
नि0 40-ए, बलरामपुर हाउस,
जिला प्रयागराज।

ई-मेल : rakeshpathak1977@gmail.com
मोबाइल: 9335138643
पंजीकरण संख्या : यू0पी0 13830 / 2000

शिवकिशोर गौड़,
सदस्य-सचिव/निर्वाचन अधिकारी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से मे0 कुमार कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, पता-187 विन्ध्यवासिनी नगर कालोनी, अर्दली बाजार, वाराणसी के साझेदार-राजकुमार सिंह फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं श्रीमती गंगा देवी व श्रीमती शालिनी सिंह फर्म में सम्मिलित हो रही हैं।

साझेदार,
सौरभ कुमार सिंह,
मे0 कुमार कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
पता-187 विन्ध्यवासिनी नगर,
कालोनी, अर्दली बाजार, वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "ए0एम0 सिटीजन्स", डिप्टी गंज नियर कौशल्या इण्टर कालेज, मुरादाबाद (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री भूकन सिंह, निवासी म0नं0-84, बी0एस0सी0 वाली गली, गांधी नगर,

मुरादाबाद रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को श्रीमती शालिनी तिवारी पुत्री स्व0 सत्यपाल सरन ओझा, निवासी ए-128, साई गार्डन, रामगंगा विहार निकट वेब मॉल, जिला मुरादाबाद शामिल हो गई हैं तथा अब वर्तमान में चार पार्टनर श्री मधुर प्रकाश गोयल, श्री शुभम प्रकाश गोयल, श्रीमती शकुन्तला गुप्ता तथा श्रीमती शालिनी तिवारी हो गये हैं।

शकुन्तला गुप्ता,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स "ए0एम0 सिटीजन्स",
डिप्टी गंज नियर कौशल्या इण्टर कालेज,
मुरादाबाद (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "सैन्चुरी सिटी ट्रेडर्स", न्यू कैस्टल होटल, सिविल लाइन, जिला मुरादाबाद (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को अनिल शर्मा पुत्र श्री हर प्रकाश शर्मा, निवासी निकट रेलवे लाइन, चन्द्र नगर, मुरादाबाद रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को

श्रीमती शालिनी तिवारी पुत्री स्व० सत्यपाल सरन ओझा, निवासी ए-128, साईं गार्डन, रामगंगा विहार निकट वेब मॉल, जिला मुरादाबाद शामिल हो गयी हैं तथा अब वर्तमान में तीन पार्टनर मधुर प्रकाश गोयल, श्री नीरज कुमार गुप्ता व श्रीमती शालिनी तिवारी हो गये हैं।

नीरज कुमार गुप्ता,
पार्टनर,

फर्म मेसर्स "सैन्चुरी सिटी ट्रेडर्स",
न्यू कैस्टल होटल, सिविल लाइन,
जिला मुरादाबाद (यू०पी०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "बी०एम० फार्म्स" सी-325 दीनदयाल नगर मुरादाबाद (यू०पी०) नामक फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को श्री भगवान सिंह पुत्र श्री शिव चरन, निवासी मिलन विहार कालोनी, मुरादाबाद रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को श्रीमती शालिनी तिवारी पुत्री स्व० सत्यपाल सरन ओझा, निवासी ए-128, साईं गार्डन, रामगंगा विहार निकट वेब मॉल, जिला मुरादाबाद शामिल हो गयी हैं तथा अब वर्तमान में तीन पार्टनर मधुर प्रकाश गोयल, श्री नीरज कुमार गुप्ता तथा श्रीमती शालिनी तिवारी हो गये हैं।

नीरज कुमार गुप्ता,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स "बी०एम० फार्म्स",
सी-325, दीनदयाल नगर,
मुरादाबाद (यू०पी०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "श्रीराम सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विसेज", 559च/333, प्रेम नगर, आलमबाग, लखनऊ, रजि० नं० 196329 का पंजीकरण दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 को कराया गया था जिसमें श्रीमती जमुना देवी प्रथम एवं श्रीराम वर्मा द्वितीय साझेदार थे। उक्त फर्म में दिनांक 03 अप्रैल, 2021 को श्री विवेक राजपूत को तृतीय साझेदार के रूप में शामिल कर लिया गया है, वर्तमान में उक्त फर्म में श्रीमती जमुना देवी प्रथम, श्रीराम द्वितीय एवं श्री विवेक राजपूत तृतीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद्वारा द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

जमुना देवी,
साझेदार,

मेसर्स श्रीराम सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विसेज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स कपिला इण्डस्ट्रीज, पता 26/104, बिरहाना रोड, कानपुर के पते पर पंजीयन सं० K-5835 पर दिनांक 25 मई, 1995 को पंजीकृत है जिसमें साझीदार, गरीब दास कपिला, सतीश कुमार कपिला, श्रीमती सुनीता कपिला, श्री मनोज कपिला, श्री विनोद कुमार कपिला साझीदार थे। साझीदार गरीब दास कपिला व विनोद कुमार कपिला स्वेच्छा से पृथक् हो गये जिसमें रिटायर्ड साझीदार करीब दास कपिला का स्वर्गवास दिनांक 25 जून, 2010 को हो चुका है और अब वर्तमान में श्री सतीश कुमार कपिला श्रीमती सुनीता कपिला, श्री मनोज कुमार कपिला अनवरत साझीदार चले आ रहे हैं। फर्म का पता अब जी-9, साइट-5, पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया, कानपुर-208022 कर दिया गया है।

मनोज कुमार कपिला,
पार्टनर,

मेसर्स कपिला इण्डस्ट्रीज,
जी-9, साइट-5, पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया,
कानपुर-208022।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स मॉडर्न सर्विस स्टेशन, 58/108, ख्वाजा की सराय, खेरिया, आगरा, उ०प्र० जो कि पूर्व में दिनांक 29 जनवरी, 2019 से हम कंवरजीत सिंह साहनी पुत्र श्री हरदेव सिंह साहनी, निवासी ए/6, तारापेरा गार्डन, न्यू लिंक रोड, नियर ओशिवाड़ा पुलिस स्टेशन, आंधेरी वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र-4000053 व श्री विपुल अग्रवाल पुत्र श्री विपिन अग्रवाल, निवासी 20/132, जमुना किनारा, आगरा के द्वारा भागीदारी के अन्तर्गत संचालित थी, को हम भागीदारों द्वारा दिनांक 30 जून, 2021 से स्वेच्छा से विघटित कर दिया गया है। उक्त फर्म का संचालन आगे से द्वितीय पक्ष विपुल अग्रवाल पुत्र श्री विपिन अग्रवाल, निवासी 20/132, जमुना किनारा, आगरा के द्वारा

प्रोपराइटरशिप के अन्तर्गत संचालित किया जाना तय किया गया है।

विपुल अग्रवाल,
भागीदार,
मेसर्स मॉडर्न सर्विस स्टेशन,
58/108, ख्वाजा की सराय,
खेरिया, आगरा, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे० गोकुल डेयरी उद्योग 449 नई बस्ती कीडगंज, प्रयागराज में साझेदार कमला देवी अग्रवाल पुत्री स्व० भीमराज अग्रवाल, निवासी 449 नई बस्ती कीडगंज, प्रयागराज तथा रेनू झुनझुनवाला पुत्री श्री राम जग अग्रवाल, निवासी जे-13/93 आर०एम 4 संजय नगर कालोनी, चौकाघाट, वाराणसी थी। रेनू झुनझुनवाला 25 मार्च, 2021 को फर्म से रिटायर हो चुकी हैं तथा सिल्की अग्रवाल पुत्री श्री विनोद कुमार मखरिया, निवासी 449, नई बस्ती कीडगंज, प्रयागराज, दिनांक 25 मार्च, 2021 को फर्म में सम्मिलित हुई हैं।

कमला देवी अग्रवाल,
साझेदार,
मे० गोकुल डेयरी उद्योग,
449 नई बस्ती कीडगंज, प्रयागराज।

सूचना

मेसर्स संजय कन्स्ट्रक्शन म० नं० 4/815, शास्त्री चौक, रामनगर, जिला वाराणसी, उ०प्र० फर्म में क्रमशः श्री संजय कुमार सिंह, श्रीमती रचना व श्री आर्यशक्ति सामान्त ने 21 अगस्त, 2014 ई० में स्थापित किया गया है। फर्म में श्री संजय कुमार सिंह दिनांक 31 मार्च, 2021 ई० अलग (पृथक) हो गये हैं। उनके स्थान पर किसी पार्टनर को शामिल नहीं किया गया है। फर्म में किसी पार्टनर को कोई आपत्ति नहीं है। फर्म का कार्य यथावत् चलता रहेगा।

रचना सिंह,
प्रथम पार्टनर,
मेसर्स संजय कन्स्ट्रक्शन,
म० नं० 4/815, शास्त्री चौक, रामनगर,
जिला वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स गंगवार इन्टरप्राइजेज, ग्राम बिलन्दपुर अशोक, पूरनपुर, जिला पीलीभीत, उ०प्र०, पिनकोट 262122 (पंजीकरण संख्या B-13800) फर्म में कुल 2 साझेदार ओमकार व अमरीक सिंह थे, साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को फर्म में एक नया साझेदार सुभाष गंगवार शामिल किया है तथा एक साझेदार अमरीक सिंह अपनी स्वेच्छा से दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये। अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है, साझेदार का फर्म/साझेदारों पर या फर्म का साझेदार पर कोई लेन-देन बकाया नहीं है। अब फर्म में कुल 2 साझेदार ओमकार व सुभाष गंगवार हैं। फर्म में एवं साझेदारों में कोई विवाद नहीं है। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

ओमकार,
साझेदार,
मेसर्स गंगवार इन्टरप्राइजेज,
पीलीभीत, उ०प्र०।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स कुन्दा इण्टरनेशनल, 61/3, ट्रांसपोर्ट नगर, आगरा-282002 परिवर्तित पता-53-55, ट्रांसपोर्ट नगर, आगरा-282002 में श्री कुशाग्र कुन्दा पुत्र श्री दिनेश कुन्दा, निवासी 51, लाजपत कुँज, आगरा दिनांक 31 मार्च, 2021 से नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा पूर्व द्वितीय पक्ष श्रीमती मीना कुन्दा पत्नी श्री कर्मवीर कुन्दा, निवासी 53, लाजपत कुँज, आगरा, दिनांक 31 मार्च, 2021 से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गयी हैं। अब फर्म में श्री दिनेश कुन्दा व श्री कुशाग्र कुन्दा ही भागीदार हो गये हैं।

दिनेश कुन्दा,
भागीदार,
मेसर्स कुन्दा इण्टरनेशनल,
53-55, ट्रांसपोर्ट नगर, आगरा-282002।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स चन्द्रप्रकाश एण्ड सन्स, बस स्टैण्ड, दनकौर, जिला गौतमबुद्धनगर-

203201 की साझेदारी में श्री राकेश कुमार गर्ग एवं श्रीमती पूनम गर्ग साझेदार थे। दिनांक 01 जुलाई, 2021 को श्रीमती रूचि गर्ग एवं श्री योगीश गर्ग फर्म की साझेदारी में सम्मिलित हुये हैं तथा श्रीमती पूनम गर्ग फर्म की साझेदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गयी हैं। वर्तमान में श्रीमती रूचि गर्ग, श्री योगीश गर्ग एवं श्री राकेश कुमार गर्ग साझेदार हैं। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राकेश कुमार गर्ग,
साझेदार,
मेसर्स चन्द्रप्रकाश एण्ड सन्स,
बस स्टैण्ड, दनकौर,
जिला-गौतमबुद्धनगर-203201।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स बालाजी बैबरेज, ई-35, साईट-सी, सिकन्दरा, आगरा-282007 की साझेदारी में मगन मित्तल, अमित गर्ग एवं गिरीश गर्ग साझेदार थे। दिनांक 31 मार्च, 2021 को मोहिनी अग्रवाल फर्म की साझेदारी में सम्मिलित हुई हैं तथा मगन मित्तल फर्म की साझेदारी से हट गये हैं। वर्तमान में फर्म की साझेदारी में अमित गर्ग, गिरीश गर्ग एवं मोहिनी अग्रवाल साझेदार हैं।

अमित गर्ग,
साझेदार,
मे0 बालाजी बैबरेज,
सिकन्दरा, आगरा।